


वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षण प्रतिवेदन / लिखित प्रमाण
२०१४-२०१५

AUDITED ANNUAL ACCOUNTS & AUDIT REPORT 2014-2015



मिज़ोरम विश्वविद्यालय
आइज़वाल

**MIZORAM UNIVERSITY
AIZAWL**

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षण प्रतिवेदन / लिखित प्रमाण
२०१४-२०१५

**AUDITED ANNUAL ACCOUNTS
&
AUDIT REPORT
2014-2015**



मिज़ोरम विश्वविद्यालय
आइज़वाल

**MIZORAM UNIVERSITY
AIZAWL**

COPY RIGHT

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owners.

DISCLAIMER

The authors are solely responsible for the contents of the papers compiled in this volume. The publishers or editors do not take and responsibility for the same in any manner. Errors, if any, are purely unintentional and readers are requested to communicate such errors to the editors or publishers to avoid discrepancies in future.

EXCEL INDIA PUBLISHERS



91 A, Ground Floor, Pratik Market, Munirka, New Delhi-110067
Tel: +91-11-2671 1755/2755/3755/5755 , Fax: +91-11-2671 6755
E-mail: publishing@groupeexcelindia.com

Web: www.groupeexcelindia.com

Typeset by

Excel Publishing Services, New Delhi-110067
E-mail: prepress@groupeexcelindia.com

Printed by

Excel Printing Universe, New Delhi-110067
E-mail: printing@groupeexcelindia.com

MIZORAM UNIVERSITY–ANNUAL ACCOUNTS 2014–2015

CONTENTS

PARTICULARS

1.	Balance Sheet	3
2.	Income & Expenditure Account	4

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2015

3.	Schedule 1: Capital/Corpus Funds	7
4.	Schedule 3: Earmarked / Endowment Funds	8
5.	Schedule 4: Current Liabilities & Provisions	9
6.	Schedule 5: Fixed Assets & Depreciation as at 31.03.2015	10
7.	Schedule 6: Investments–Earmarked / Endowment Fund	12
8.	Schedule 7: Current Assets, Loans & Advances	12

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

9.	Schedule 8: Grants / Subsidies (Irrevocable Grants and Subsidies Received)	17
10.	Schedule 9: Academic Receipts	18
11.	Schedule 10: Income from Investments	20
12.	Schedule 11: Income from Royalty and Publications	21
13.	Schedule 12: Interest Earned	22
14.	Schedule 13: Other / Miscellaneous Income	23
15.	Schedule 14: Establishment Expenses	24
16.	Schedule 14-A: Employees Retirement & Terminal Benefits	25
17.	Schedule 15: Academic Expenses	26
18.	Schedule 16: Administrative Expenses	27
19.	Schedule 17: Repairs & Maintenance	29

20.	Schedule 18: Miscellaneous Expenses	30
21.	Schedule 19: Prior Period Expenses	31

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDING 31.03.2015

22.	Schedule 20: Significant Accounting Policies	35
23.	Schedule 21: Contingent Liabilities and Notes to Accounts	39

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FROM 01.04.2014–31.03.2015

24.	Receipts and Payments Account from 01.04.2014–31.03.2015	43
-----	--	----

GENERAL AND CONTRIBUTORY /PROVIDENT FUND

25.	Balance Sheet as at 31.03.2015	47
26.	Income and Expenditure A/C for the Period/Year Ended 31.03.2015	48
27.	Receipts and Payments Account from 01.04.2014–31.03.2015	49

NEW PENSION SCHEME

28.	Balance Sheet as at 31.03.2015	53
29.	Income and Expenditure A/C for the Period/Year Ended 31.03.2015	54
30.	Receipts and Payments Account from 01.04.2014–31.03.2015	55

**ANNUAL ACCOUNTS OF PACHHUNGA UNIVERSITY COLLEGE
FOR THE YEAR 2014-15**

31.	Balance Sheet as at 31.03.2015	59
32.	Income & Expenditure Account for the Period Ended/Year Ended 31.03.2015	60

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2015

33.	Schedule 1: Capital/ Corpus Funds	63
34.	Schedule 3: Earmarked / Endowment Funds	64
35.	Schedule 4: Current Liabilities & Provisions	65
36.	Schedule 5: Fixed Assets & Depreciation as at 31.03.2015	66

37.	Schedule 6: Investments–Earmarked / Endowment Fund	67
38.	Schedule 7: Current Assets, Loans & Advances	68

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015**

39.	Schedule 8: Grants / Subsidies (Irrevocable grants and Subsidies received)	73
40.	Schedule 9: Academic Receipts	74
41.	Schedule 10: Income from Investments	75
42.	Schedule 11: Income from Royalty and Publications	76
43.	Schedule 12: Interest Earned	77
44.	Schedule 13: Other / Miscellaneous Income	78
45.	Schedule 14: Establishment Expenses	79
46.	Schedule 14-A: Employees Retirement & Terminal Benefits	80
47.	Schedule 15: Academic Expenses	81
48.	Schedule 16: Administrative Expenses	82
49.	Schedule 17: Repairs & Maintenance	83
50.	Schedule 18: Miscellaneous Expenses	84
51.	Schedule 19: Prior Period Expenses	85

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDING 31.03.2015

52.	Schedule 20: Significant Accounting Policies	89
53.	Schedule 21: Contingent Liabilities and Notes to Accounts	92

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FROM 01.04.2014–31.03.2015

54.	Receipts and Payments Account from 01.04.2014–31.03.2015	97
55.	Separate Audit Report	103

PARTICULARS



BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule No.	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
CAPITAL AND CORPUS FUNDS	1	1,30,03,90,024	1,48,20,29,284
RESERVE AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3	5,24,45,112	5,05,92,240
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	4	3,03,31,35,780	2,79,46,88,468
TOTAL		4,38,59,70,916	4,32,73,09,992

ASSETS	Schedule No.	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
FIXED ASSETS	5	2,27,35,06,377	2,08,52,86,776
INVESTMENTS-EARMARKED/ENDOW/OTH. FUNDS	6	50,00,000	-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	7	2,10,74,64,539	2,24,20,23,216
TOTAL		4,38,59,70,916	4,32,73,09,992

(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)

(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)

(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31.03.2015

INCOME	Schedule No.	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
GRANT-IN-AID/SUBSIDIES	8	60,60,17,721	53,13,08,071
ACADEMIC RECEIPTS	9	5,30,90,653	3,68,68,744
INCOME FROM INVESTMENT	10	-	-
INCOME FROM ROYALTY & PUBLICATIONS	11	-	40,052
INTEREST EARNED	12	2,81,80,922	4,38,36,545
OTHER/MISCELLANEOUS INCOMES	13	84,40,520	62,15,447
TOTAL (A)		69,57,29,816	61,82,68,859

EXPENDITURE


ESTABLISHMENT EXPENSES	14	91,45,39,450	50,33,81,644
ACADEMIC EXPENSES	15	5,43,58,008	2,96,54,468
ADMINISTRATIVE EXPENSES	16	8,10,65,278	6,80,82,384
REPAIRS & MAINTENANCE	17	1,48,43,372	2,10,20,293
MISCELLANEOUS EXPENSES	18	7,82,569	8,03,678
PRIOR PERIOD EXPENSES	19	-	2,35,774
DEPRECIATION	5	9,78,24,672	9,07,45,810
TOTAL (B)		1,16,34,13,349	71,39,24,051
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) (A-B)		(46,76,83,533)	(9,56,55,192)
TRANSFERRED TO CORPUS/CAPITAL FUND			
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	20		
CONTINGENT LIABILITIES & NOTES ON A/C.s	21		



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT 31.03.2015**



SCHEDULE-1: CAPITAL / CORPUS FUND

(AMOUNT IN ₹)

	2014-15	2013-14
OPENING BALANCE	1,48,20,29,284	1,26,22,50,344.00
GRANTS TO THE EXTENT UTILIZED FOR CAPITAL EXPENDITURE	28,50,75,228	31,66,51,331.00
ASSETS CREATED OUT OF SPONSORED PROJECT FUNDS	8,48,063	6,70,644.00
GIFTED ASSETS	1,20,982	7,549.00
DEPRECIATION CHARGED ON FIXED ASSETS PREVIOUS YEAR	-	3,74,306.00
TOTAL (A)	1,76,80,73,557	1,57,99,54,174.00
LESS :		
EXCESS CREDIT IN 2012-13- TO INCOME DUE TO A MISCLASSIFICATION	-	22,69,698
EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME TRANSFERRED FROM INCOME AND EXPENDITURE A/C	46,76,83,533	9,56,55,192
TOTAL (B)	46,76,83,533	9,79,24,890
BALANCE (A-B)	1,30,03,90,024	1,48,20,29,284

(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)

(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)

(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–3 : EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

Particulars	FUND-WISE BREAK UP (₹)					TOTALS (₹)	
	House Building Advance	Motor Cycle/ Scooter Advance	Computer Advance	Golden Jubilee Chair	Rajiv Gandhi Fellowship	Current Year	Previous Year
	1	2	3	4	5	(1 to 4)	(1 to 5)
a) Opening balance of the funds	3,77,38,463	26,74,693	47,52,158	54,26,926	-47,35,622	5,05,92,240	4,96,35,663
b) Additions to the Funds:	-	-	-	-	-	-	-
i. Receipts during the financial year	-	-	-	-	20,73,179	20,73,179	-
ii. Income from Investments made on account of funds	-	-	-	-	-	-	2,01,672
iii. Interest on SB A/C	2,49,062	54,100	-	2,04,308	-	5,07,470	1,19,221
iv. Others Accrued Interest on advances	12,02,127	51,802	91,473	-	-	13,45,402	11,06,717
TOTAL (a+b)	3,91,89,652	27,80,595	48,43,631	56,31,234	-26,62,443	5,24,45,112	5,10,63,273
c) Utilization/Expenditure towards objective of funds	-	-	-	-	-	-	-
i. Capital Expenditure	-	-	-	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure	-	-	-	-	34,05,124	34,05,124	54,42,430
iii. Advances to employees	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (c)	-	-	-	-	34,05,124	34,05,124	54,42,430
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a +b-c)	3,91,89,652	27,80,595	48,43,631	56,31,234	-60,67,567	5,24,45,112	5,05,92,240

NOTE : The debit balance against Rajiv Gandhi Fellowship Fund appears as Receivable from UGC under Current Assets – Loans and Advances.



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

**SCHEDULE-4: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS**

Amount in ₹

A.	Current Liabilities	2014-15	2013-14
1	Deposits from Students	39,87,645	26,51,160
2	Deposits Others	22,32,155	2,93,991
3	Statutory Liabilities - Others (including GPF/CPF/NPS Balances)	64,982	11,64,947
4	Sundry creditors for goods	-	-
	(a) Group Savings Linked Insurance Scheme (GSLIS)	2,400	51,984
	(b) Receipts against ongoing sponsored projects	8,44,69,204	7,92,53,441
	(c) Receipts against fellowships and Scholarships	1,14,54,150	89,99,914
	(d) Receipts against Seminars & Workshop	9,98,497	8,00,431
	(e) Unutilized GoI Grants	2,77,38,800	2,70,69,000
	(f) Unutilized Plan Grants (UGC)	1,01,08,05,549	1,24,99,65,432
5	(g) Unutilized Non Plan Grants	7,45,41,405	10,15,98,254
	(h) Other Funds	18,07,71,761	15,54,86,713
	(i) Recoveries from staff	56,64,032	51,65,334
	(j) Other grants	2,11,76,935	1,58,06,935
	(k) Outstanding liability for expenses	13,72,869	4,32,657
	(l) Others		
	(i) Stipends/Book Grant/Scholarships	27,200	1,92,375
	(ii) Salary payable	3,00,72,569	2,75,71,229
	Total A :	1,45,53,80,153	1,67,65,03,797
B.	Provisions		
	Provisions for Gratuity	13,68,71,921	11,27,19,610
	Provision for Leave Encashment	17,47,44,265	10,68,18,593
	Provision for Pension	1,26,61,39,441	89,86,46,468
	Total B:	1,57,77,55,627	1,11,81,84,671
	Total (A+B)	3,03,31,35,780	2,79,46,88,468

(A.D. LALHMIINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)

(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)

(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE-5: FIXED ASSETS & DEPRECIATION AS AT 31.03.2015

A. DESCRIPTION	GROSS BLOCK (₹)			DEPRECIATION (₹)						NET BLOCK (₹)	
	Cost/ valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ valuation at the year end	As at the beginning of the year	On assets of previous years	On Additions during the year	Deductions/ Adjustment during the year	Total Up to the year end	As at the Current year end	As at the previous year end
1. Land	21,94,64,850			21,94,64,850						21,94,64,850	21,94,64,850
2. Buildings	91,18,87,555	5,46,39,304		96,65,26,859	5,61,10,629	1,82,37,750	3,78,610		7,47,26,989	89,17,99,870	85,57,76,926
3. Roads, Culverts Etc.	10,57,13,887	1,65,89,480		12,23,03,367	1,42,22,589	21,14,277			1,63,36,866	10,59,66,501	9,14,91,298
4. Sewerage & Drainage	33,34,190	3,19,080		36,53,270	53,238	66,683	1,401		1,21,322	35,31,948	32,80,952
5. Water Supply & Harvesting	7,81,96,830	3,70,250		7,85,67,080	38,18,114	15,63,945	4,844		53,86,903	7,31,80,177	7,43,78,716
6. Plant & Machinery	17,44,570	4,34,835		21,79,405	1,54,706	87,228	1,309		2,43,243	19,36,162	15,89,864
7. Electrical Installation & Equipment	7,87,45,963	45,94,881		8,33,40,844	1,62,56,807	39,37,334	1,58,038		2,03,52,179	6,29,88,665	6,24,89,156
8. Scientific & Lab. Equipment	21,93,95,296	2,84,51,812		24,78,47,108	4,29,65,727	1,73,54,781	12,04,414		6,15,24,922	18,63,22,186	17,64,29,569
9. Office Equipment	2,08,85,902	7,37,649		2,16,23,551	70,11,577	14,72,528	13,853		84,97,958	1,31,25,593	1,38,74,325
10. Audio Visual Equipment	1,86,72,960	86,350		1,87,59,310	24,78,912	13,72,711	1,873		38,53,496	1,49,05,814	1,61,94,048
11. Furniture, Fixture & Fittings	2,98,29,389	96,94,530		13,95,23,919	5,00,59,956	94,07,946	3,65,900		5,98,33,802	7,96,90,117	7,97,69,433
12. Computers & Peripherals	16,83,71,347	54,40,742		17,38,12,089	11,75,72,363	1,72,75,620	2,84,188		13,51,32,171	3,86,79,918	5,07,98,984
13. Computer Software	2,00,09,675	2,36,684		2,02,46,359	88,49,830	62,14,308	26,871		1,50,91,009	51,55,350	1,11,59,845
14. Sports Equipment	28,73,095			28,73,095	4,84,914	2,10,157			6,95,071	21,78,024	23,88,181

A. DESCRIPTION	GROSS BLOCK (₹)				DEPRECIATION (₹)				NET BLOCK (₹)		
	Cost/ valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ valuation at the year end	As at the beginning of the year	On assets of previous years	On Additions during the year	Deductions/ Adjustment during the year	Total Up to the year end	As at the Current year end	As at the previous year end
15. Vehicles	1,24,04,259			1,24,04,259	96,45,787	6,53,759			1,02,99,546	21,04,713	27,58,472
16. Library Books & Journals	18,13,51,246	1,85,97,177		19,99,48,423	10,29,91,239	1,49,38,172	4,54,500		11,83,83,911	8,15,64,512	7,83,60,007
17. Temporary Erection		30,000		30,000			21,672		21,672	8,328	
TOTAL (A)	2,17,28,81,014	14,02,22,774		2,31,31,03,788	43,26,76,388	9,49,07,199	29,17,473		53,05,01,060	1,78,26,02,728	1,74,02,04,626
(B) CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	34,50,82,150	17,05,96,041	2,47,74,542	49,09,03,649						49,09,03,649	34,50,82,150
TOTAL (A+B)	2,51,79,63,164	31,08,18,815	2,47,74,542	2,80,40,07,437	43,26,76,388	9,49,07,199	29,17,473		53,05,01,060	2,27,35,06,377	2,08,52,86,776
							9,78,24,672				

Source: Fixed Asset Register. (Figures Rounded Off to nearest Rupee)

Note:

1. The additions during the year in Assets+WIP from-

Plan Fund	: 26,17,12,278
Gifted Assets	: 1,20,982
Non-Plan Fund	: 2,33,62,950
Sponsored Project	: 8,48,063
Total	: 28,60,44,273 (31,08,18,815-2,47,74,542)



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUA)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE – 6: INVESTMENTS - EARMARKED/ENDOW. FUNDS

(Amount in ₹)

INVESTMENTS FROM ENDOWMENT FUNDS	2014-15	2013-14
ENDOWMENT FUNDS - TERM DEPOSITS IN BANKS		
INVESTMENT-GOLDEN JUBILEE CHAIR(HIST.DP)	50,00,000	Nil
NET BALANCE	50,00,000	Nil



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE-7: CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

(AMOUNT IN ₹)

	2014-15	2013-14
Current Assets:	-	-
1. Inventories	39,10,097	22,30,117
2. Cash and Bank Balances	-	-
i) Cash in Hand	10,58,856	2,41,817
ii) Cheques & Drafts in Hand	-	-
iii) Postage on hand	97,153	37,075
A. Balances with Scheduled Bank	-	-
In Current Accounts	48,02,531	7,15,10,916
Balances with Scheduled Bank	-	-
In Savings Accounts	34,01,45,485	29,38,37,406
Balances with Scheduled Bank	-	-
In Term Deposits	65,86,68,289	80,13,62,962
Total (A)	1,00,86,82,411	1,16,92,20,293

		Amount in ₹)	
Loans & Advances:		2014-15	2013-14
	1. Deposits	3,99,818	3,45,448
	2. Interest accrued but not due on investments of earmarked/endowment funds/ GJC	38,425	-
	3. Interest accrued but not due on interest bearing advances to employees:		
	(i) Interest accrued but not due on HBA	1,42,24,678	1,32,72,261
	(ii) Interest accrued but not due on Motor Car/ Motor Cycle Advance	3,10,595	2,86,609
	(iii) Interest accrued but not due on Computer Advance	16,90,612	16,83,460
	4. Interest accrued but not due on term deposits	1,65,82,173	3,89,65,812
	5. Advances		
	(i) Interest bearing advances to employees	1,33,72,480	1,18,74,535
	(ii) Non interest bearing advances to employees	5,00,06,236	5,14,21,920
B.	(iii) Advances on capital A/c	87,85,05,932	83,78,15,632
	(iv) Others:		
	Academic and Other Advances	1,23,87,828	1,02,35,319
	Advances to Project Co-ordinators	1,71,22,966	99,90,750
	Non-Plan Grants Receivables from UGC	7,73,88,000	6,86,78,000
	Recoverable from Ministry of Renewable Energy	22,30,800	22,30,800
	Recoverable from Sponsored Projects	26,21,192	8,53,400
	Recoverable from CSIR (NET Fellowship)	-	7,91,269
	Recoverable from PG Scholarship (Matric)	50,016	50,016
	Recoverable from UGC (Merit Fellowship)	41,69,327	36,48,487
	Recoverable from UGC (NET Fellowship)	-	97,16,959
	Recoverable from UGC Research Fellowship Grants (JRF/SRF)	-	62,06,624
	Receivable from UGC Rajiv Gandhi Fellowship Grants	60,67,567	47,35,622
	Annual Maintenance Contract (Next Year)	13,483	-
	Recoverable from Academic Staff College	16,00,000	-
	TOTAL (B)	1,09,87,82,128	1,07,28,02,923
	TOTAL (A+B)	2,10,74,64,539	2,24,20,23,216



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015**

SCHEDULE–8: GRANTS/SUBSIDIES (IRREVOCABLE GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED)

Particulars	Amount in ₹				
	Plan		Non-Plan	Current year Total	Previous Year Total
	GoI	UGC	UGC		
Opening Balance (01.04.2014)	2,70,69,000.00	1,24,99,65,431	10,15,98,254	1,37,86,32,685	1,56,89,12,065.00
Add: Receipts During the Year	6,69,800	28,09,85,000	45,06,38,000	73,22,92,800	72,62,41,000.00
Add: Adjustments	-	-	-	-	89,43,000.00
Add: Interest on Investment	-	5,27,47,015	-	5,27,47,015	5,76,06,758.86
TOTAL:	2,77,38,800.00	1,58,36,97,446	55,22,36,254	2,16,36,72,500	2,36,17,02,823.86
Less: Grants to Pachhunga University College	-	3,76,31,874	12,18,61,924	15,94,93,798	13,51,10,736.00
Balance	2,77,38,800.00	1,54,60,65,572	43,03,74,330	2,00,41,78,702	2,22,65,92,087.86
Less: Utilised for Capital Expenditure(A)	-	26,17,12,278	2,33,62,950	28,50,75,228	31,66,51,331.00
Balance	2,77,38,800.00	1,28,43,53,294	40,70,11,380	1,71,91,03,474	1,90,99,40,756.86
Less: Utilised for Revenue Expenditure (B)	-	27,35,47,746	33,24,69,975	60,60,17,721	53,13,08,071.00
Balance C/F as unutilized (c):	2,77,38,800.00	1,01,08,05,548	7,45,41,405	1,11,30,85,753	1,37,86,32,685.86

- A. -Appears as addition to capital Fund as well as additions to fixed Assets during the year.
 B. -Appears as income in the Income & Expenditure Account.
 C. -I) Appears under Current Liabilities in the Balance Sheet and will become the opening balance next year.
 -II) Represented by Bank balances, Advances and Investments on the Assets side.

Notes:

- Receipts of Non-Plan grants during the year include ₹ 7,73,88,000/-sanctioned on 30th March 2015, but actually received in April 2015.
- Interest on Investment of Plan Fund includes Accrued Interest of ₹ 1,34,66,107/-.
- The Unutilised Plan Grants are represented by Advances on Capital Account, Term Deposits in Banks, Balances in Current and Saving Bank Accounts in Banks.


The Unutilised Non-Plan Grants are represented by Grants Receivable from UGC against the sanction dated 30th March, 2015 (Received in April, 2015)



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE 9–ACADEMIC RECEIPTS

PARTICULARS	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
FEES FROM STUDENTS		
DISSERTATION EVALUATION FEE	30,860	-
PROJECT EVALUATION FEE	43,780	7,000
TOTAL	74,640	7,000
ACADEMIC FEES FROM STUDENTS		
ADMISSION FEE	4,74,605	3,42,800
COURSE FEE [ENGG.& MGMT]	71,11,650	73,84,550
DEPARTMENTAL CORPUS FUND (COMP. ENGG.)	36,900	-
DEPARTMENTAL CORPUS FUND (E.E.)	15,000	-
DEPARTMENTAL CORPUS FUND (ECE)	25,000	-
DEPARTMENTAL CORPUS FUND (FEES)	5,43,365	4,32,200
DEPARTMENTAL CORPUS FUND (I.T.)	10,000	-
DEPARTMENTAL CORPUS FUND (MANAGEMENT)	90,000	-
DEPARTMENTAL CORPUS FUND (MASS COM)	79,000	-
DEPARTMENTAL CORPUS FUND (SOCIAL WORK)	75,000	-
ENROLLMENT FEE	4,84,940	3,71,370
ENTRANCE EXAMINATION FEE	22,150	-
LABORATORY FEE	17,92,140	13,78,400
LIBRARY FEE	7,39,340	5,89,470
PRACTICAL FEE	5,60,775	4,00,804
REGISTRATION FEE	12,60,350	10,23,150
TUITION FEE	44,32,841	33,64,145
TOTAL	1,77,53,056	1,52,86,889

EXAMINATION FEES FROM STUDENTS		
ADMIT CARD CHARGES	3,12,440	2,47,759
COST OF CERTIFICATES	7,99,510	6,37,250
EXAMINATION FEE (ANNUAL/SEMESTER)	2,53,69,141	1,43,14,457
MARK SHEET FEE	11,45,750	6,68,910
RE-EVALUATION FEE	2,75,220	4,19,850
RE-SCRUTINY FEE	1,09,560	1,12,580
TOTAL	2,80,11,621	1,64,00,806

PARTICULARS	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
OTHER FEES FROM STUDENTS		
AFFILIATION FEE	560	10,000
ALUMNI FEE	1,13,000	-
BUS FARE FOR HOSTELLER	750	-
BUS FARE FROM STUDENTS	16,08,105	13,58,391
CONVOCATION FEE	4,56,360	55,750
ESTABLISHMENT FEE (FOR HOSTELLER)	64,000	71,000
HOSTEL/GUEST HOUSE FEE OF STUDENTS	19,25,496	15,87,979
IDENTITY CARD CHARGES OF STUDENTS	77,300	46,995
MEDICAL FEE	6,01,755	4,60,420
MIGRATION FEE	1,53,290	99,570
MISCELLANEOUS FEES	33,470	6,150
SPORTS FEE	6,36,030	4,30,000
WATER/ELECTRICITY CHARGES (FOR HOSTELLER)	3,99,320	3,59,680
TOTAL	60,69,436	44,85,935

SALE OF FORMS/PROSPECTUS		
COST OF FORMS	2,19,140	1,09,330
COST OF PROSPECTUS	4,87,300	3,90,305
TOTAL	7,06,440	4,99,635


FEES FROM COLLEGES		
AFFILIATION FEES FROM COLLEGES	4,75,460	1,88,480
TOTAL	4,75,460	1,88,480
SCHEDULE TOTAL	5,30,90,653	3,68,68,744



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–10: INCOME FROM INVESTMENTS

PARTICULARS	Investments from Earmarked/ Endowment Funds		Investment-Others	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1) Interest	-	-	-	-
a) On Govt. Securities	-	-	-	-
b) On Bonds/Debentures	-	-	-	-
c) On Term Deposits	-	-	-	-
2) Others-Interest on Savings Account	5,07,470	-	-	-
	-	-	-	-
Transferred to Earmarked/Endowment Funds	5,07,470	-	-	-
	-	-	-	-
Balance	-	-	-	-

* Transferred to Income and Expenditure Account.



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–11: INCOME FROM ROYALTY AND PUBLICATIONS


PARTICULARS	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
INCOME FROM ROYALTY	-	40,052
INCOME FROM SALE OF PUBLICATIONS	-	-
INFORMATN/DISEMINATN/DOCUMNTATN SERVICES	-	-
TOTAL	-	40,052



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE-12: INTEREST EARNED


PARTICULARS	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
INTEREST EARNED ON BANK SAVINGS/DEPOSITS		
INTEREST EARNED ON ACADEMIC STAFF COLLEGE	1,77,862	91,271
INTEREST EARNED ON DEPARTMENTAL PROJECT	21,44,252	21,29,618
INTEREST EARNED ON NON-PLAN SAVINGS A/C	56,84,657	50,07,202
INTEREST EARNED ON PLAN SAVINGS A/C	57,16,710	92,19,117
INTEREST ON CORPUS FUND ACCOUNT	1,14,678	14,57,982
INTEREST OP SV .A/C/.S WITH BANKS-OTH.FUND	1,33,596	1,48,85,846
INTEREST EARNED ON INTERNAL REC. DEPOSITS	1,31,29,014	89,65,104
INTEREST EARNED ON CORPUS FUND DEPOSITS	-	8,55,693
INTEREST ON G.J.C. FUND DEPOSITS	38,425	-
INTEREST ON SPONSORED PROJECT DEPOSIT	1,041,728	12,24,711
INTEREST EARNED ON LOANS & ADVANCES		
INTEREST ON MOTOR CAR ADVANCE	-	-
INTEREST ON SAVINGS/DEPOSITS (PUC)		
INTEREST EARNED (PUC)	-	-
SCHEDULE TOTAL	2,81,80,922	4,38,36,545



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–13: OTHER/MISCELLENEOUS INCOME

PARTICULARS	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
BUS FARE FROM OTHERS (OUTSIDERS)	1,39,727	9,900
BUS FARE FROM STAFF	17,60,950	5,90,350
CENTRAL INSTRUMENTATION LAB. FEES	46,910	5,625
COST OF APPLICATION FORMS (RECRUITMENT)	3,33,755	51,080
ELECTRICITY CHARGES RECOVERED	7,63,136	5,99,269
IDENTITY CARD FEE FROM EMPLOYEES RECVD.	3,320	1,680
INSTITUTIONAL CHG./INTELLECTUAL FEE-REC.	24,010	46,513
LEAVE SALARY & PENSION CONTRIBUTION-REC.	25,56,871	12,75,729
LICENSE FEE–OTHER INCOME	4,50,940	2,80,155
MISCELLANEOUS EXTERNAL RECEIPTS	27,262	18,21,946
MISCELLANEOUS INCOME	5,18,798	1,15,087
MISCELLANEOUS INTERNAL RECEIPTS-MZU	1,38,040	3,13,451
PENALTY CHARGES RECEIVED	72,955	69,370
PHOTOCOPYING CHARGES RECEIVED	51,629	72,906
POSTAGE & HANDLING CHARGES (ASC)	60	120
POSTAGE & HANDLING CHARGES (PROJECT)	2,100	960
POSTAGE & HANDLING CHARGES (NON-PLAN)	18,482	17,670
POSTAGE & HANDLING CHARGES (PLAN)	8,220	8,340
INCOME FROM MZU GUEST HOUSE	-	-
REFRESHER COURSE FEE (ASC)	12,83,000	-
REFUND FROM PRIOR PERIOD ADVANCES GIVEN	-	7,29,375
RENT FROM CANTEEN/SHOPS	18,500	17,550
RENT FROM LEASED ACCOMMODATION TO BANKS	89,000	60,000
RTI ACT CHARGED RECEIVED	4,105	2,334
SUBSCRIPTION OF JOURNAL RECEIVED	-	13,175
SURPLUS ON SALE/DISPOSAL OF OWNED ASSETS	71,200	19,862
WATER CHARGES RECOVERED	57,550	93,000
TOTAL	84,40,520	62,15,447
SCHEDULE TOTAL	84,40,520	62,15,447



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–14: ESTABLISHMENT EXPENSES

Particulars	PLAN (₹)	2014-15 NON-PLAN (₹)	TOTAL (₹)	2013-14
Bonus	-	-	-	9,56,758
C.P.F.-MZU'S CONTRIBUTION	-	1,98,689	1,98,689	2,27,828
CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE	13,77,116	28,57,497	42,34,613	32,74,874
HONORARIUM TO NON-STAFF	-	-	-	-
HONORARIUM TO STAFF (ASC)	-	-	-	12,000
HONORARIUM TO STAFF	2,000	32,700	34,700	89,100
LEAVE SALARY & PENSION CONTRIBUTION	-	1,78,093	1,78,093	7,04,900
LEAVE TRAVEL CONCESSION	13,38,921	20,99,807	34,38,728	38,29,577
LTC-LEAVE ENCASHMENT	6,11,908	13,26,440	19,38,348	9,57,342
MEDICAL REIMBURSEMENT	43,69,743	85,81,950	1,29,51,693	1,03,80,346
MEDICAL REIMBURSEMENT FOR PENSIONERS	-	1,91,153	1,91,153	14,690
MEDICAL REIMBURSEMENT FOR CONT.STAFF	60,854	-	60,854	11,70,008
N.P.S.-MZU'S CONTRIBUTION	95,88,591	81,03,998	1,76,92,589	1,64,01,815
NPS TIER-I INTEREST	-	-	-	3,76,065
OVERTIME TO DRIVERS	-	41,742	41,742	44,681
OVERTIME TO OTHER THAN DRIVERS	13,093	59,280	72,373	39,318
SALARY & ALLOWANCES (OSL)	21,76,188	4,78,060	26,54,248	2,43,22,152
SALARY OF NON-TEACHING STAFF-ASC	51,70,637	-	51,70,637	40,12,267
SALARY OF NON-TEACHING STAFF	6,19,10,602	8,52,09,612	14,71,20,214	12,35,95,809
SALARY OF TEACHING STAFF	8,51,20,331	13,05,67,488	21,56,87,819	18,27,60,038
SALARY OF TEMPORARY STAFF	1,56,33,388	-	1,56,33,388	1,44,76,754
SALARY OF TEACHING STAFF-ASC	10,72,618	-	10,72,618	-
TOTAL	18,84,45,990	23,99,26,509	42,83,72,499	38,76,61,322
MEDICAL REIMBURSEMENT-ASC	1,80,763	-	1,80,763	42,652
CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE (ASC)	40,470	-	40,470	-
L.T.C. LEAVE EANCASHMENT-ASC (PLAN)	7,045	-	7,045	-
LEAVE TRAVEL CONCESSION-ASC (PLAN)	1,24,544	-	1,24,544	--
N.P.S.-EMPLOYER'S CONTRIBUTION (ASC)	3,38,366	-	3,38,366	-
EMPLOYEES RETIREMENT & TERMINAL BENEFITS	-	48,54,75,763	48,54,75,763	11,56,77,670
TOTAL	6,91,188	48,54,75,763	48,61,66,951	11,57,20,322
SCHEDULE TOTAL	18,91,37,178	72,54,02,272	91,45,39,450	50,33,81,644



(A.D. LALHMIGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–14 A: EMPLOYEES RETIREMENT & TERMINAL BENEFITS

(In ₹)

A.	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Total
Opening Balance	11,27,19,610	89,86,46,468	10,68,18,593	1,11,81,84,671
Addition: Capitalized Value of Contribution	-	-	-	-
Received from other Organizations	-	-	-	-
Total	11,27,19,610	89,86,46,468	10,68,18,593	1,11,81,84,671
Less: Actual Payment during the year 2014-15	53,08,047	1,72,29,824	33,66,936	2,59,04,807
Balance Available on 31.3.2015	10,74,11,563	88,14,16,644	10,34,51,657	1,09,22,79,864
Provision required on 31.3.2015 as per Actuarial Valuation	13,68,71,921	1,26,61,39,441	17,47,44,265	1,57,77,55,627
Provision to be made in 2014-15	2,94,60,358	38,47,22,797	7,12,92,608	48,54,75,763
B. Contribution to New Pension Scheme	-	-	-	-
C. Travel to Hometown on Retirement	-	-	-	-
D. Deposit Linked Insurance Payment	-	-	-	-
Total (A+B+C+D)	2,94,60,358	38,47,22,797	7,12,92,608	48,54,75,763

The figure of ` 48,54,75,763/-will appear against Retirement Benefits in the Main Schedule 14.

The figure of ` 1,57,77,55,627/-will appear under Current Liabilities & Provisions-B Provisions (13,68,71,921 + 1,26,61,39,441 + 17,47,44,265)



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–15: ACADEMIC EXPENSES

PARTICULARS	2014-15			2013-14 (₹)
	PLAN (₹)	NON-PLAN(₹)	TOTAL(₹)	
KENDRIYA VIDYALAYA (REVENUE)	1,23,11,997	-	1,23,11,997	-
VISITING PROF./FELLOWS-MERGED SCHEMES	55,78,000	-	55,78,000	30,99,500
MZU/UGC RESEARCH FELLOWSHIP EXP.	1,24,21,811	-	1,24,21,811	74,38,923
PUBLICATION EXPENSES	1,30,000	-	1,30,000	1,44,500
ADVENTURE SPORTS-MERGED SCHEME (P)	-	-	-	-
COACHING FOR ENTRY IN SERVICES FOR SC/ST	-	-	-	-
FACULTY IMPROVEMENT PROG. MERGED SCHEME	-	-	-	-
EVALUATION FEE EXPENSES-PLAN	1,00,000	-	1,00,000	-
HIGHER EDN. FOR PERSONS WITH SPL. NEEDS	13,500	-	13,500	45,000
ORIENTATION COURSE EXPENSES-ASC	10,12,939	-	10,12,939	5,04,654
TA/DA FOR MEETINGS-ASC (PLAN)	47,000	-	47,000	-
REFRESHER COURSE EXPENSES-ASC	27,92,851	-	27,92,851	15,43,907
SCHOLARSHIPS & STIPENDS	-	-	-	-
LABORATORY RUNNING EXP.-CONSUMABLE	-	4,65,396	4,65,396	16,33,818
LABORATORY RUNNING EXPENSES	-	69,276	69,276	4,040
TEACHING AIDS & INSTRUCTION MATTER.	-	20,196	20,196	-
TEACHING AIDS-SPECIAL STATIONERY	-	-	-	7,200
OTHER EXAMINATION EXPENSES	-	1,11,31,981	1,11,31,981	85,76,353
OTHER ENTRANCE EXAM.EXPENSES	64,737	-	64,737	52,811
PRINTING OF FORMS OF EXAM.	-	52,500	52,500	30,65,000
PRINTING OF STATIONERY OF EXAM	-	35,49,668	35,49,668	-
REMUNERATION TO EXAMINERS	-	-	-	-
TA-EXAMINERS	-	1,800	1,800	25,161
STUDENT WELFARE EXP.-EXTRA CURR.ACT.	-	3,000	3,000	6,90,985
STUDY TOUR [CSST/FL.TRIP STUDENTS]	-	22,27,018	22,27,018	16,80,562
STUDY TOUR [GENERAL STUDENTS]	-	5,44,021	5,44,021	9,68,622
STUDY TOUR (GENERAL) MANAGEMENT	-	-	-	12,000
CONVOCATION EXPENSES-REVENUE	-	3,28,219	3,28,219	-
MEETING EXP. FOR OTHER ACADEMIC ACTI	-	-	-	-
COLLEGE INSPECTION TEAM EXPENSES	-	1,14,278	1,14,278	3,728
FACULTY DEVELOPMENT PROG. (DAUENM)	-	-	-	50,000
FIELD WORK & RESEARCH (DAUENM)	-	-	-	80,000
VISITING FACULTY (DAUENM)	-	-	-	27,704
SEMINAR/WORKSHOP/SYMPOSIUM ETC	12,59,760	-	12,59,760	-
LIBRARY AWARD EXPENSES	-	10,000	10,000	-
REFUND OF FEES ETC.	-	1,08,060	1,08,060	-
TOTAL	3,57,32,595	1,86,25,413	5,43,58,008	2,96,54,468
SCHEDULE TOTAL	3,57,32,595	1,86,25,413	5,43,58,008	2,96,54,468



(A.D. LALHMIGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer



SCHEDULE–16: ADMINISTRATIVE EXPENSES

PARTICULARS	2014-15			2013-14 (₹)
	PLAN (₹)	NON-PLAN (₹)	TOTAL(₹)	
BANK CHARGES–ASC	384	-	384	970
PROFESSION CHARGES (ASC)	25,000	-	25,000	65,000
ELECTRICITY CHARGES	10,00,000	37,61,363	47,61,363	40,79,944
GENERATOR RUNNING EXPENSES	5,950	-	5,950	75,600
HIRING OF VEHICLES	1,32,55,175	61,54,848	1,94,10,023	1,31,08,394
PETROL, OIL & LUBRICANTS	-	58,63,607	58,63,607	17,62,049
RENT, RATES & TAXES	-	-	-	36,000
WATER CHARGES	82,42,262	28,65,700	1,11,07,962	85,32,396
ACCOM. & HOSPITALITY EXPENSES	-	22,07,504	22,07,504	23,97,473
ADVERTISEMENT & PUBLICITY	5,00,000	4,45,675	9,45,675	2,14,863
AUDIT FEE / AUDITORS REMUNERATION	-	15,000	15,000	-
BANK CHARGES	38,451	48,877	87,328	79,731
BANK CHARGES–UBI SPONSORED PROJECT	-	5,267	5,267	11,374
BANK CHARGES ON DEPARTMENTAL PROJECT	-	600	600	-
BANK CHARGES-CORPUS FUND	-	138	138	112
BANK CHARGES-INTERNAL RECEIPTS	-	9,424	9,424	54,166
BINDING CHARGES	800	31,900	32,700	-
CONSUMABLES	-	12,45,510	12,45,510	17,84,381
CURTAIN	1,75,200	10,16,100	11,91,300	69,150
IMPREST MONEY EXPENSES	-	21,31,746	21,31,746	33,50,676
IMPREST MONEY EXPENSES-ASC	19,880	-	19,880	1,17,700
LEGAL FEES/COURT FEES EXPENSES	-	3,70,000	3,70,000	3,57,922
LOCAL CONVEYANCE	-	85,282	85,282	3,200
MEETING EXP. [NON-ACADEMIC] (NON PLAN)	-	1,21,753	1,21,753	3,14,422
MEETING EXPENSES	-	-	-	7,48,648
MISCELLANEOUS ADMINISTRATIVE EXP.	-	5,13,468	5,13,468	12,18,972
NEWSPAPERS & PERIODICALS	-	5,19,622	5,19,622	3,19,712
NON-CONSUMABLES	-	1,51,906	1,51,906	8,33,743
OTHER CHARGES/CONTINGENCIES	-	12,09,084	12,09,084	13,34,715
PRINTING CHARGES-NON PRICED	-	4,98,440	4,98,440	3,95,775
STATIONERY [CONSUMPTION]	-	43,09,594	43,09,594	31,95,221
STATIONERY–ASC	-	-	-	82,530
TA–MEDICAL	1,88,354	17,51,307	19,39,661	12,69,959
TA–OTHERS [EXTERNAL]	34,85,464	5,09,676	39,95,140	37,44,813
TA–OTHERS [INTERNAL]	-	8,49,366	8,49,366	22,64,434
TA–OFFICIALS	-	2,12,875	2,12,875	6,69,439
TA–TRANSFER	-	-	-	1,18,000
TRAVEL GRANT	12,83,764	-	12,83,764	24,29,770
WAGES [DAILY]	92,21,150	-	92,21,150	72,33,470
WORKSHOP/CONF/SEMINAR ETC–ASC	5,52,661	-	5,52,661	1,14,052
HIRING OF VEHICLES-ASC	93,600	-	93,600	-
INTERNET CONNECTIVITY CHARGES	-	36,320	36,320	7,718
POSTAGE & TELEGRAM	-	42,848	42,848	2,11,662
TELEPHONE CHARGES	-	6,16,878	6,16,878	7,50,566
CABLE TV RENT	-	58,060	58,060	67,630
COST OF MEDICINES	-	27,50,506	27,50,506	25,00,472
PROFESSIONAL CHARGES	-	2,15,366	2,15,366	7,03,092
SPARE PARTS	-	-	-	15,459


PARTICULARS	2014-15			2013-14
	PLAN (₹)	NON-PLAN (₹)	TOTAL (₹)	(₹)
SPORT EXPENSES	-	19,62,005	19,62,005	12,86,531
DUSTBINS-REV. EXP.	-	2,200	2,200	-
TRAINING & SEMINAR CHARGES [ADM.]	-	2,24,489	2,24,489	1,50,478
V.I.P. VISIT EXPENSES	-	1,62,879	1,62,879	-
TOTAL	3,80,88,095	4,29,77,183	8,10,65,278	6,80,82,384
SCHEDULE TOTAL	3,80,88,095	4,29,77,183	8,10,65,278	6,80,82,384



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–17: REPAIRS & MAINTENANCE


PARTICULARS	2014-15			2013-14 (₹)
	PLAN (₹)	NON-PLAN (₹)	TOTAL (₹)	
CONSERVANCY CHARGES	-	-	-	1,20,000
GARDENING-HORTICULTURE MAINT.& M/W	-	-	-	6,48,654
MAINTENANCE OF BLDG.-ESTATE MAINT	1,04,745	5,07,699	6,12,444	23,78,952
MAINTENANCE OF BLDG.-GUEST HOUSE	-	-	-	77,956
MAINTENANCE OF BLDG.-REPAIRS	16,13,567	2,30,225	18,43,792	13,25,155
MAINTENANCE OF COMPUTERS	-	3,09,275	3,09,275	98,540
MAINTENANCE OF ELECTRICAL INSTALL	24,39,651	2,74,584	27,14,235	35,86,824
MINOR WORKS ON REPAIR/MAINTENANCE	-	-	-	11,23,249
MAINTENANCE OF BLDG.-HOSTEL MAINT.	-	32,200	32,200	1,80,730
MAINTENANCE OF EQUIPMENT	-	2,27,073	2,27,073	-
MAINTENANCE OF FURNITURE	-	17,300	17,300	43,84,739
MAINTENANCE OF GUEST HOUSE	39,115	-	39,115	41,665
MAINTENANCE OF ROADS	36,85,980	-	36,85,980	640,450
MAINTENANCE OF PHOTOCOPIER	-	1,38,312	1,38,312	-
MAINTENANCE OF UPS ETC	-	1,13,023	1,13,023	-
MAINTENANCE OF VEHICLES	-	13,67,452	13,67,452	13,12,655
MAINTENANCE OF WATER SUPPLY SYSTEM	1,83,941	3,540	1,87,481	44,350
MISCELLANEOUS REPAIR & MAINTENANCE	14,31,110	10,44,244	24,75,354	35,74,430
REPAIRS & MAINTENANCE-ASC	3,09,200	-	3,09,200	-
ANNUAL MAINTENANCE CONTRACTS (THIS YEAR)	-	7,71,136	7,71,136	14,81,944
TOTAL	98,07,309	50,36,063	1,48,43,372	2,10,20,293
SCHEDULE TOTAL	98,07,309	50,36,063	1,48,43,372	2,10,20,293



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–18: MISCELLANEOUS EXPENSES


PARTICULARS	2014-15			2013-14 (₹)
	PLAN (₹)	NON-PLAN (₹)	TOTAL(₹)	
EQUAL OPPORTUNITY CELL (MS)-PLAN	-	-	-	44,000
INTL. QUALITY ASSURANCE CELL MERGD SCHEM	39,900	-	39,900	6,71,046
MISC. ELECTRICAL INSTRUMENT	-	-	-	9,200
MISC. RECURRING EXPENSES (SET)	2,26,339	-	2,26,339	65,763
MISCELLENEOUS EQUIPMENT	-	-	-	10,000
OTHER MISCELLENEOUS EXPENSES	-	-	-	3,712
LANDSCAPING & BEAUTIFICATION	5,16,330	-	5,16,330	-
ROUNDED OFF	-	-	-	-43
TOTAL	7,82,569	-	7,82,569	8,03,678
SCHEDULE TOTAL	7,82,569	-	7,82,569	8,03,678



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE-19: PRIOR PERIOD EXPENSES


PARTICULARS	2014-15			2013-14 (₹)
	PLAN (₹)	NON-PLAN(₹)	TOTAL(₹)	
ESTABLISHMENT EXPENSES-PRIOR PERIOD	-	-	-	2,35,774
TOTAL	-	-	-	2,35,774



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDING 31.03.2015**

SCHEDULE–20: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS FOR PREPARATION OF ACCOUNTS

The accounts are prepared under the Historical Cost Convention unless otherwise stated and generally on the Accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

- 2.1 Fees from Students, Sale of Admission Forms, and Interest on Savings Bank account are accounted on cash basis.
- 2.2 Income from Land, Buildings and Other Property and Interest on Investments are accounted on accrual basis.
- 2.3 Interest on interest bearing advances to staff for House building, purchase of Vehicles and Computers is accounted on accrual basis every year, though the actual recovery of interest starts after the full repayment of the Principal.

3. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

- 3.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.
- 3.2 Gifted / Donated assets are valued at the declared value where available; if not available, the value is estimated based on the present market value and the physical condition of the asset. They are set-up by credit to Capital Fund and merged with the Fixed assets of the University. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets.
- 3.3 Books received as gifts, are valued at selling prices printed on the books. Where they are not printed, the value is based on assessment or at nominal value.
- 3.4 Electronic Journals (E-Journals) are separated from Library Books in view of the limited benefit that could be derived from the on-line access provided. Though E-Journals are not in a tangible form, they are capitalized in view of the magnitude of expenditure and the benefit derived in terms of perpetual knowledge acquired by the Academic and Research Staff. Depreciation is provided in respect of E-Journals at a higher rate of 40% as against depreciation of 10% provided in respect of Library Books.
- 3.5 Expenditure on acquisition of software has been separated from computers and peripherals, as apart from being intangible assets, the rate of obsolescence in respect of these is very high. Depreciation is provided in respect of software at a higher rate of 40% as against depreciation of 20% provided in respect of Computers & Peripherals.
- 3.6 Fixed assets are valued at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided on Straight line method, at the following rates:

1.	Land	0%
2.	Site Development	0%
3.	Buildings	2%
4.	Roads & Bridges	2%
5.	Tube wells & Water supply	2%
6.	Sewerage & Drainage	2%
7.	Electrical Installation & Equipment	5%
8.	Plant & Machinery	5%
9.	Scientific & Laboratory Equipment	8%
10.	Office Equipment	7.5%
11.	Audio Visual Equipment	7.5%
12.	Computers & Peripherals	20%
13.	Furniture, Fixtures & Fittings	7.5%
14.	Vehicles	10%
15.	Lib. Books & Scientific Journals	10%
16.	E-Journals	40%
17.	Computer Software	40%
18.	Others	10%

- 3.7 Depreciation is provided from the next dates of procurement (Pro-rata) on additions during the year.
- 3.8 Where an asset is fully depreciated, it will be carried at a residual value of Re.1 in the Balance Sheet and will not be further depreciated. Thereafter, depreciation is calculated on the additions of each year separately at the rate of depreciation applicable for the asset head.
- 3.9 Assets created out of Earmarked Funds and funds of Sponsored Projects, where the ownership of such assets vests in the University, are set up by credit to Capital Fund and merged with the Fixed Assets of the University. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets.

4. EARMARKED FUNDS

The following long terms funds are earmarked for specific purposes. Each of the funds has a separate bank account. Those with large balances also have investments in Government Securities, Debentures and Bonds and Terms Deposits with Banks. The income from investments/advances (*House Building & Conveyance*) on accrued basis and interest on saving Bank Accounts are credited to the respective Funds. The Expenditure is debited to the fund. The assets created out of Earmarked Funds are merged with the assets of the University by crediting an equal amount to the Capital Fund. The balance in the respective funds is carried forward and is represented on the assets side by the balance at Bank. Investments and accrued interest (Current Assets)

4.1 House Building Advances Fund

A revolving fund for the purpose of paying interest bearing advances to the officers & staff for House Building.

4.2 Conveyance Advance Fund

A revolving fund for the purpose of paying interest bearing Advances to officers and staff for the purchase of motor cars and two wheelers.

4.3 Computer Advance Fund

A revolving fund for the purpose of paying interest bearing advances to officers and staff for the purchase of Computers.

4.4 Rajiv Gandhi National Fellowship Fund

Fund provided by University Grants Commission for fellowship to SC/ST students of the University.

4.5 Endowment Funds

Endowments are funds received from various individual donors, Trusts and other organizations or from within the University for establishing Chairs and for Medals & Prizes, as specified by the Donors. Each of the Endowment funds has its own investment and a saving Bank Account.

The income from investment of each Endowment Fund is added to the Fund. The interest on Saving Bank accounts is added to the Endowment funds. The Expenditure on Chairs, Medals & Prizes is debited to the Endowment Funds and the balance is carried forward. The balance is represented by Investment in RBI Bonds and Fixed Deposit and balance in Saving Account.

4.5.1 Golden Jubilee Chair

The objective of the Endowment shall be to carry out research in Modern Indian History with special reference to the culture, society, economy of Mizoram and the countries surrounding Mizoram including Bangladesh and Myanmar.

5. STOCKS

Expenditure on purchase of chemicals, glassware, publications and other stores is accounted as revenue expenditure, except that the value of closing stocks held on 31st March is set up as inventories by reducing the corresponding Revenue expenditure on the basis of information obtained from Schools of Departments. Under the accrual system, the actual consumption can only be debited to the income and expenditure account.

6. RETIREMENT BENEFITS

Retirement benefits i.e., pension, gratuity and leave encashment are provided on the basis of actuarial valuation. Capitalized value of pension and gratuity received from previous employers of the University employees, who have been absorbed in the University, is credited to the respective Provision Accounts. Pension Contribution received in respect of MZU employees on deputation is also credited to the Provision for Pension Account.

7. INVESTMENTS

All investments are valued at cost.

8. GOVERNMENT AND UGC GRANTS

- 8.1 Government grants and UGC grants are accounted on realization basis. However, as an exception, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31st March and the grant is actually received in the next financial year, the grant covered by such sanction is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable from the grantor.
- 8.2 To the extent utilized towards capital expenditure, government grants and grants from UGC are transferred to the Capital Fund.
- 8.3 Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in the Income and Expenditure Account.
- 8.4 Unutilized grants (including advances paid out of such grants) are carried forward and exhibited as a liability in the Balance Sheet.

9. INVESTMENT OF EARMARKED/ ENDOWMENTS FUNDS AND INTEREST INCOME ACCRUED ON SUCH INVESTMENT

- 9.1 To the extent not immediately required for expenditure, the amounts available against such funds are invested in approved Securities & Bonds or deposited for fixed term with Banks, leaving the balance in Savings Bank Accounts.
- 9.2 Interest received, interest accrued and due and interest accrued but not due on such investments are added to the respective funds and not treated as income of the University.

10. SPONSORED PROJECTS

- (a) In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provisions–Current Liabilities–Other Liabilities–Receipts against ongoing sponsored projects." As and when expenditure is incurred/advances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated institutional charges, the liability account is debited. Institutional charges recovered from projects are treated as Income of the University.

(b) Assets created out of Sponsored Projects Funds, where the ownership vests with the University, are merged with the respective Asset heads by credit to Capital Fund. Depreciation is provided in the normal course.

The assets the ownership in which is retained by the sponsors, but which are held and used by the University, are disclosed separately in Schedule 21–Contingent Liabilities and Notes to Accounts.

(c) The University allots the share of the Institutional Charges (income of the University) to Project Coordinators for incurring Capital Expenditure for Infrastructure/Laboratory Development. The assets thus created are from University Funds are merged with the respective heads. Depreciation is provided on such assets also in the normal course.

11. INCOME TAX


The income of the University is exempt from Income Tax under Section 10(23c) of the Income Tax Act. No provision for tax is therefore made in the accounts.



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–21: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. CAPITAL COMMITMENTS

The Value of contracts remaining to be executed on capital Account and not provided for (Net of Advances) amounted to ` 90.24 crores (approx) as on 31.03.15. (Previous year ` 102.54 crores)

2. Grants

Receipts of Non-Plan grants of ` 45,06,38,000 during the year include an amount of ` 7,73,88,000 against sanctions issued in March 2014, but actually received in April 2015 (Accounting Policy 7.1. This sum of ` 7,73,88,000 is shown as receivable from UGC and included in the unutilized grants as on 31.3.2015.

3. Land

Land (Rs. 19,72,00,000/-) shown in the Fixed Assets Schedule was acquired for the University by the State Government, from owners/occupants of the Land on payment of compensation of Rs. 19.72 crores paid by the University to the State Government. This amount was released by the University Grants Commission (UGC) as Grant-in aid to the University (January 2008) for payment of compensation. One of the conditions stipulated by the University Grants Commission was that the ownership of the land should vest in the University.

However, the state Government intimated the University in October 2008 that as the University had a Non-tribal status, Government could not issue the right of ownership of the land to the University under the Mizo District land and Revenue Act 1956 which enjoys the right of ownership of land to tribals residing in Mizoram.

4. Accounts of Pachhunga University College (PUC)

The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account of the College for 2013-14 (on cash basis) were attached to the Accounts of that year. However, the Consolidated Accounts for the university as a whole for the year 2013-14 were not attached pending reconciliation of the accounts of the college for the years 2007-08 to 2012-13 (already prepared) with the accounts for 2013-14.

Though in the accounts for 2014-15, depreciation on Assets of the College has been provided for all the years, accounting of accrued income and outstanding liability for expenses has not been carried out. Grants Accounts and Capital Fund Accounts are in the process of reconciliation. It is expected that the accounts of the college will be fully on accrual basis and according to the Standard Formats in 2015-16. The accounts of the college for 2014-15 are attached separately. The consolidation will be done from 2015-16 and the accounts of the University, the College and the Consolidated accounts of the University as a whole for 2015-16 will be presented in 2015-16.

5. GPF, CPF and NPS Accounts

After separating the GPF, CPF and NPS Accounts (Liabilities and Assets) from the University's accounts, a Balance Sheet, income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account in respect of GPF/CPF/NPS have been prepared and are attached to the University's Accounts.

6. Assets created out of Sponsored Project funds

Assets in Schedule 5 do not include Assets held and used by the University, as the sanctions for these projects include a stipulation that the ownership in the assets vests in the sponsor. Details of these assets are:

Head	Opening Balance	Addition During the Year	Total	Notional Depreciation	Book Value (Amt. in ₹)
Computer	7,89,440	6,77,239	14,66,679	5,86,672	8,80,007
Electrical Installation	52,625	-	52,625	2,631	49,994
Furniture & Fixtures	2,26,341	-	2,26,341	16,976	2,09,365
Office Equipment	8,500	-	8,500	638	7,862
Scientific Lab. Equipment	2,08,24,330	80,99,767	2,89,24,097	23,13,928	2,66,10,169
Software	22,464	-	22,464	8,986	13,478
Audio Visual Equipment	-	2,33,317	2,33,317	17,499	2,15,818
Total	2,19,23,700	90,10,323	3,09,34,023	29,47,330	2,79,86,693

7. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the Current assets, Loans and advances have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

8. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary.
9. Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.
10. **Schedules 1 to 21** are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March 2015 and the Income &



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT
FROM 01.04.2013–31.03.2015**



MIZORAM UNIVERSITY AIZAWL-796002, MIZORAM

RECEIPT-PAYMENT A/C. FROM 01/04/2014 TO 31/03/2015

RECEIPTS	₹	PAYMENTS	₹
OPENING BALANCE:		DEPOSITS FROM STUDENTS	5,14,275
-CASH IN HAND	2,41,817	DEPOSITS OTHERS	27,67,155
-IN CURRENT ACCOUNT	7,15,10,916	FELLOWSHIP GRANTS	1,53,66,085
-IN SAVINGS ACCOUNT	29,38,37,407	OTHER CURRENT LIABILITIES	15,90,905
		OTHER FUNDS	16,90,646
DEPOSITS FROM STUDENTS	18,50,760	OTHER GRANTS	19,95,500
DEPOSITS OTHERS	47,05,319	OUTSTANDING LIABILITY FOR EXPENSES	12,97,899
EARMARKED FUNDS	23,76,341	RECEIPTS AGAINST ONGOING SPONS. PROJECTS	2,79,45,502
ENDOWMENT FUNDS	2,04,308	RECEIPTS AGAINST SEMINARS & WORKSHOP	9,91,761
FELLOWSHIP GRANTS	2,10,14,333	RECOVERIES FROM STAFF	96,30,749
OTHER CURRENT LIABILITIES	12,05,133	STATUTORY LIABILITIES NOT OVERDUE	5,15,01,847
OTHER FUNDS	2,56,45,627	ACADEMIC ADVANCES (NON-PLAN)	1,22,92,450
OTHER GRANTS	74,41,500	ACADEMIC ADVANCES (PLAN)	4,42,125
RECEIPTS AGAINST ONGOING SPONS. PROJECTS	3,70,89,736	ADVANCE TO EMPLOYEES (ASC-PLAN)	7,14,284
RECEIPTS AGAINST SEMINARS & WORKSHOP	12,64,827	ADVANCE TO EMPLOYEES (NON-PLAN)	1,31,37,715
RECOVERIES FROM STAFF	99,76,539	ADVANCE TO EMPLOYEES (PLAN)	62,57,506
STATUTORY LIABILITIES NOT OVERDUE	4,94,50,571	ADVANCES-OTHERS	20,13,483
UNUTILISED NON PLAN GRANTS	44,19,28,000	ADVANCES ON CAPITAL	3,80,90,300
UNUTILISED PLAN GRANTS (UGC)	29,39,85,000	ADVANCES TO EMPLOYEES-INTEREST BEARING	64,11,228
ACADEMIC ADVANCES (NON-PLAN)	85,65,940	ADVANCES TO PROJECT CO-ORDINATORS	1,31,92,795
ACADEMIC ADVANCES (PLAN)	4,73,125	AUDIO VISUAL EQUIPMENT (NON-PLAN)	26,550
ADVANCE TO EMPLOYEES (ASC-PLAN)	2,21,800	AUDIO VISUAL EQUIPMENT (PLAN)	39,500
ADVANCE TO EMPLOYEES (NON-PLAN)	89,61,801	BALANCES WITH SCHD.BANK IN TERM DEPOSITS	67,51,27,647
ADVANCE TO EMPLOYEES (PLAN)	81,27,202	BUILDINGS ON LEASEHOLD LAND (PLAN)	4,64,54,242
ADVANCES-OTHERS	4,00,000	CAPITAL WORK-IN-PROGRESS (PLAN)	17,41,18,595
ADVANCES TO EMPLOYEES-INTEREST BEARING	49,13,283	COMPUTER SOFTWARE (NON-PLAN)	1,86,140
ADVANCES TO PROJECT CO-ORDINATORS	8,54,715	COMPUTER SOFTWARE (PLAN)	50,544
BALANCES WITH SCHD.BANK IN TERM DEPOSITS	88,69,77,323	COMPUTERS & PERIPHERALS (NON-PLAN)	17,83,989
INTER. ACC.BUT NOT DUE-ON EMP.ADV.INT.BR	26,555	COMPUTERS & PERIPHERALS (PLAN)	28,21,100
ACADEMIC FEES FROM STUDENTS	1,79,58,861	CONSUMABLE STORES	15,77,496
EXAMINATION FEES FROM STUDENTS	2,80,11,621	DEPOSITS	54,370
FEES FROM COLLEGES	4,75,460	ELECTRICAL INSTALLATION & EQUIPMENT (NP)	10,59,070
FEES FROM STUDENTS	74,640	ELECTRICAL INSTALLATION & EQUIPMENT (PL)	32,65,541
INTEREST EARNED ON BANK SAVINGS	1,41,09,662	ENDOWMENT FUNDS-TERM DEPOSITS IN BANKS	50,00,000
INTEREST EARNED ON FIXED DEPOSITS	2,13,59,404	FURNITURE, FIXTURE & FITTINGS (NON-PLAN)	60,13,088
INTEREST EARNED ON LOANS & ADVANCES	3,86,333	FURNITURE, FIXTURE & FITTINGS (PLAN)	33,80,955
OTHER FEES FROM STUDENTS	60,69,436	ICT-PLAN	6,44,613
OTHER/MISCELLANEOUS INCOMES	83,31,830	LIBRARY BOOKS & JOURNALS (NON-PLAN)	1,10,00,000
PLAN GRANTS	6,69,800	LIBRARY BOOKS & JOURNALS (PLAN)	74,76,195
SALE OF FORMS/PROSPECTUS	7,06,440	OFFICE EQUIPMENT (NON-PLAN)	7,37,649

═══════ MIZORAM UNIVERSITY: Annual Accounts for the Year 2014–2015 ═══════

ADMINISTRATIVE EXP.-COMMUNICATION (NP)	1,248	PLANT & MACHINERY (NON-PLAN)	4,34,835
ADMINISTRATIVE EXP.-INFRASTRUCTURE (NP)	24,700	SCIENTIFIC & LAB. EQUIP. (PLAN)-PUC	50,00,000
ADMINISTRATIVE EXP.-INFRASTRUCTURE(PLAN)	16,400	SCIENTIFIC & LAB. EQUIPMENT (NON-PLAN)	19,79,429
ADMINISTRATIVE EXPENSES-OTHERS (NP)	90,167	SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT (PLAN)	2,14,06,417
ESTABLISHMENT EXPENSES (NON-PLAN)	2,80,633	SEWERAGE & DRAINAGE (PLAN)	3,19,080
ESTABLISHMENT EXPENSES (PLAN)	1,75,459	SPARE PARTS	13,625
EXAMINATION EXPENSES (NON-PLAN)	15,00,000	STATIONERY	16,91,945
MISCELLANEOUS ACADEMIC EXPENSES (PLAN)	5,10,160	TEMPORARY ERRECTION (NON-PLAN)	30,000
MISCELLANEOUS EXPENSES (PLAN)	80	WATER SUPPLY & HARVESTING (NON-PLAN)	91,800
RESEARCH ACTIVITIES EXPENSES (PLAN)	4,73,161	WATER SUPPLY & HARVESTING (PLAN)	2,58,050
SEMINAR/WORKSHOP EXPENSES (PLAN)	22,58,534	ACADEMIC FEES FROM STUDENTS	1,65,742
		INTEREST EARNED ON LOANS & ADVANCES	51,041
		OTHER/MISCELLANEOUS INCOMES	2,68,898
		ACADEMIC EXPENSES (PLAN)	1,23,11,997
		ADMINISTRATIVE EXP.-COMMUNICATION (NP)	7,76,669
		ADMINISTRATIVE EXP.-INFRASTRUCTURE (NP)	2,47,70,218
		ADMINISTRATIVE EXP.-INFRASTRUCTURE(PLAN)	1,48,92,887
		ADMINISTRATIVE EXPENSES (PLAN)	25,384
		ADMINISTRATIVE EXPENSES-ASC	93,600
		ADMINISTRATIVE EXPENSES-OTHERS (NP)	2,45,72,902
		ADMINISTRATIVE EXPENSES-OTHERS (PLAN)	1,09,87,237
		CONVOCATION EXPENSES (NON-PLAN)	3,28,219
		EMPLOYEES RETIREMENT & TERMINAL BENEFITS	2,59,04,807
		ESTABLISHMENT EXPENSES (NON-PLAN)	36,00,19,614
		ESTABLISHMENT EXPENSES (PLAN)	22,28,24,535
		ESTABLISHMENT EXPENSES-ASC (PLAN)	5,70,144
		EXAMINATION EXPENSES (NON-PLAN)	1,62,35,949
		LABORATORY EXPENSES (NON-PLAN)	6,85,867
		MISCELLANEOUS ACADEMIC EXPENSE(NON-PLAN)	2,32,338
		MISCELLANEOUS ACADEMIC EXPENSES (PLAN)	43,26,290
		MISCELLANEOUS EXPENSES (PLAN)	6,27,100
		PUBLICATION EXPENSES (PLAN)	1,30,000
		REPAIRS & MAINTENANCE (NON-PLAN)	48,22,043
		REPAIRS & MAINTENANCE (PLAN)	88,84,755
		RESEARCH ACTIVITIES EXPENSES (PLAN)	1,63,00,096
		SEMINAR/WORKSHOP EXPENSES (PLAN)	30,15,294
		STUDENT WELFARE EXPENSES FROM MZU (NP)	14,18,538
		TEACHING AIDS (NON-PLAN)	20,196
		VISITING FACULTY EXPENSES (PLAN)	55,78,000
		CLOSING BALANCE:	
		-CASH IN HAND	10,58,856
		-IN CURRENT ACCOUNT	48,02,531
		-IN SAVINGS ACCOUNT	34,01,45,485
TOTAL	2,28,67,33,907	TOTAL	2,28,67,33,907



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

GENERAL AND CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND

MIZORAM UNIVERSITY GENERAL AND CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND

BALANCE SHEET AS AT 31/03/2015


Prev. Year Amt. (Rs.)	LIABILITIES	This Year Amt. (Rs.)	Prev. Year Amt. (Rs.)	ASSETS	This Year Amt. (Rs.)
11,58,95,324	GENERAL PROVIDENT FUND Opening Balance 11,58,95,324 Less: Subscription for March of Last Year -17,47,144 Add: Subscription During the Year 2,52,53,493 Add: Interest credited to members Account 99,01,905 Add: Subscription for March of This Year 20,15,500 Less: Advance/Payment/Transfer -1,96,29,435	13,16,89,643	9,22,81,761	INVESTMENT Fixed Deposit with UBI Bank 3,00,00,000 Fixed Deposit with Vijaya Bank 5,42,38,747 Fixed Deposit with HDFC Bank 2,00,00,000 SBI Capital Protection Ori. Mutual Fund (at cost) 1,50,00,000	11,92,38,747
9,30,599	CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND Opening Balance 9,30,599 Less: Subscription For March of Last Year -6,000 Add: Subscription During The Year 37,500 Add: Interest Credited To Members Account 1,01,124 Add: Subscription For March of This Year 12,500 Less: Advance/Withdrawal/Transfer -0	10,75,723	6,64,700	INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS BUT NOT DUE AMOUNT DUE FROM MZU SUBSCRIPTION DUE FOR MARCH OF THIS YEAR GPF Subscription Due for March, This Year 20,15,500 CPF Subscription Due for March, This Year 12,500 CPF Univ. Cont. Due for March, This Year 11,986	1,26,78,822 20,39,986
3,84,829	UNIVERSITY CONTRIBUTION TO CPF Opening Balance 3,84,829 Less: Contribution For March of Last Year -5,650 Add: Contribution during the Year Add: Interest Credited To CPF-Univ. Cont. 51,438 Add: Contribution For March of This Year 11,986 Less: Payment/Transfer -0	4,42,603	1,75,15,738	BALANCES IN SAVINGS BANK ACCOUNT United Bank of India	33,45,488
47,64,311	INTEREST RESERVE Opening Balance 47,64,311 Less: Deficit for the Year -6,69,238	40,95,074			
5,37,320	NPS TIER-I FUND WRONGLY CREDITED				
12,25,12,383	TOTAL	13,73,03,043	12,25,12,383	TOTAL	13,73,03,043



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

MIZORAM UNIVERSITY GENERAL AND CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND

INCOME AND EXPENDITURE A/C. FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31/03/2015

Prev. Year Amt. (Rs.)	EXPENDITURE	This Year Amt. (Rs.)	Prev. Year Amt. (Rs.)	INCOME	This Year Amt. (Rs.)
89,90,509	INTEREST CREDITED TO MEMBERS ACCOUNTS		75,06,097	INTEREST EARNED	
	Interest Added to GP Fund	99,01,905		Interest Received on Investment	67,25,543
	Interest Added to CP Fund	1,01,124		Add: Interest Accrued But Not Due This Year	1,26,78,822
	Interest Added to University Cont. to CPF	51,438	1,00,54,467	Less: Interest Accrued on Investment Last Year	-1,02,91,390
109	BANK CHARGES		456	Bank Interest Received	2,72,710
			12,77,360	INCOME FROM INVESTMENTS	
				Surplus from Mutual Fund	
			2,07,161	DEFICIT TRANSFERRED TO RESERVE FUND	6,69,238
89,90,618	TOTAL	1,00,54,923	89,90,618	TOTAL	1,00,54,923



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

**MIZORAM UNIVERSITY
GENERAL AND CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND**

RECEIPT-PAYMENT A/C. FROM 01/04/2014 TO 31/03/2015

RECEIPTS	RS.	PAYMENTS	RS.
OPENING BALANCE:		GPF	
-F.D. ENCASHMENT AMOUNT LYING WITH BANK	0	GENERAL PROVIDENT FUND	76,16,235
-UNITED BANK OF INDIA 1548010004695	1,75,15,738	GPF ADVANCE/WITHDRAWAL	1,20,13,200
CPF		MISCELLANEOUS LIABILITIES	
CPF SUBSCRIPTION DURING THE YEAR	37,500	NPS AMOUNT WRONGLY RECEIVED	5,37,320
GPF		INVESTMENT	
GPF SUBSCRIPTION DURING THE YEAR	2,52,53,493	FIXED DEPOSIT ON GPF	2,00,00,000
AMOUNT DUE FROM MZU		FIXED DEPOSIT WITH VIJAYA BANK	5,42,38,747
CONTRIB. TOWARDS GPF/CPF DUE FROM MZU	6,64,700	OTHER EXPENDITURE	
INVESTMENT		BANK CHARGES	456
FIXED DEPOSIT WITH UBI	2,54,60,881	CLOSING BALANCE:	
FIXED DEPOSIT WITH VIJAYA BANK	2,33,50,928	-F.D. ENCASHMENT AMOUNT LYING WITH BANK	0
INTEREST EARNED		-UNITED BANK OF INDIA 1548010004695	33,45,488
BANK INTEREST RECEIVED	2,72,710		
INTEREST EARNED ON INVESTMENT	51,95,495		
TOTAL	9,77,51,446	TOTAL	9,77,51,446



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

NEW PENSION SCHEME

MIZORAM UNIVERSITY NEW PENSION SCHEME TIER-I FUND

BALANCE SHEET AS AT 31/03/2015

Prev. Year Amt. (Rs.)	LIABILITIES	This Year Amt. (Rs.)	Prev. Year Amt. (Rs.)	ASSETS	This Year Amt. (Rs.)
1,70,22,586	NPS TIER-I FUND		1,31,78,053	BALANCES IN BANK ACCOUNT	
	Opening Balance 1,70,22,586			State Bank of India 48,55,200	1,58,57,594
	Less: Subscription & U.C. for March -29,31,148			Axis Bank 1,10,02,394	
	Last Year Add: Subscription & U.C. During the Year 5,55,06,369		34,68,468	ACCRUED SUBSCRIPTION/ CONTRIBUTION Subscription & U.C. Due for March this Year	42,17,192
	Add: Subscription & U.C. for March 42,17,192			Interest on NPS A/c.s Due From Mzu	
	This Year Less: Payment/ Adjustments -5,40,17,603				
	Add: Surplus for the Year 2,77,390	2,00,74,786	3,76,065		
1,70,22,586	TOTAL	2,00,74,786	1,70,22,586	TOTAL	2,00,74,786



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

MIZORAM UNIVERSITY NEW PENSION SCHEME TIER-I FUND

INCOME AND EXPENDITURE A/C. FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31/03/2015


Prev. Year Amt. (Rs.)	EXPENDITURE	This Year Amt. (Rs.)	Prev. Year Amt. (Rs.)	INCOME	This Year Amt. (Rs.)
5,33,999	INTEREST CREDITED TO MEMBERS ACCOUNTS		1,60,397	BANK INTEREST	2,99,483
2,463	BANK CHARGES	22,093	3,76,065	DEFICIT FOR THE YEAR RECOVERABLE FROM MZU	
	SURPLUS FOR THE YEAR	2,77,390			
5,36,462	TOTAL	2,99,483	5,36,462	TOTAL	2,99,483



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer



MIZORAM UNIVERSITY NEW PENSION SCHEME TIER-I FUND

RECEIPT-PAYMENT A/C. FROM 01/04/2014 TO 31/03/2015

RECEIPTS	RS.	PAYMENTS	RS.
OPENING BALANCE: -AXIS BANKO -STATE BANK OF INDIA	1,31,78,053	NEW PENSION SCHEME: TIER-I NPS TIER-I FUND	5,36,41,538
NEW PENSION SCHEME: TIER-I SUBSCRIPTION & U.C. DURING THE YEAR	5,55,06,369	EXPENDITURES BANK CHARGES	22,093
ACCRUED SUBSCRIPTION CONTRIBUTION RECEIVABLE FROM GPF BOOKS	5,37,320	CLOSING BALANCE: -AXIS BANK	1,10,02,394
INTEREST EARNED BANK INTEREST RECEIVED	2,99,483	-STATE BANK OF INDIA	48,55,200
TOTAL	6,95,21,225	TOTAL	6,95,21,225

(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)

(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)

(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

**ANNUAL ACCOUNTS OF PACHHUNGA UNIVERSITY COLLEGE
FOR THE YEAR 2014-15**

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule No.	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
CAPITAL AND CORPUS FUNDS	1	12,72,61,869.12	1,52,57,007.04
RESERVE AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3	2,50,000.00	
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	4	2,75,69,015.00	14,62,12,925.00
TOTAL		15,50,80,884.12	16,14,69,932.04

ASSETS	Schedule No.	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
FIXED ASSETS	5	12,73,44,718.08	12,81,10,014.00
INVESTMENTS-EARMARKED/ENDOW/OTH. FUNDS	6	-	
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	7	2,77,36,166.04	3,33,59,918.04
TOTAL		15,50,80,884.12	16,14,69,932.04



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

Income And Expenditure Account For The Year Ending 31.03.2015

INCOME	Schedule No.	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
GRANT-IN-AID/SUBSIDIES	8	16,82,04,813.04	13,93,72,760.00
ACADEMIC RECEIPTS	9	1,32,15,340.00	2,37,51,134.00
INCOME FROM INVESTMENT	10	-	-
INCOME FROM ROYALTY & PUBLICATIONS	11	-	-
INTEREST EARNED	12	3,63,067.00	6,09,532.00
OTHER/MISCELLANEOUS INCOMES	13	7,48,551.00	18,000.00
TOTAL (A)		18,25,31,771.04	16,37,51,426.00
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES	14	17,00,59,205.00	14,02,58,524.00
ACADEMIC EXPENSES	15	72,36,689.00	1,67,15,635.00
ADMINISTRATIVE EXPENSES	16	52,12,026.00	56,37,964.00
REPAIRS & MAINTENANCE	17	43,03,800.00	36,83,304.00
MISCELLANEOUS EXPENSES	18	6,06,750.00	22,19,609.00
PRIOR PERIOD EXPENSES	19	-	-
DEPRECIATION	5	53,46,797.43	-
TOTAL (B)		19,27,65,267.43	16,85,15,036.00
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) (A-B)		(1,02,33,496.39)	(47,63,610.00)
TRANSFERRED TO CORPUS/CAPITAL FUND			
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	20		
CONTINGENT LIABILITIES & NOTES ON A/C.s	21		



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT 31.03.2015**

SCHEDULE–1: CAPITAL / CORPUS FUND

(Amount in ₹)

	2014-15	2013-14
OPENING BALANCE	1,52,57,007.04	2,00,20,617.04
ADD: GRANTS TO THE EXTENT UTILISED FOR CAPITAL EXPENDITURE IN EARLIER YEARS	14,41,39,911.00	-
ADD: NET ADJUSTMENT FOR ASSETS NOT CAPITALISED/OVER CAPITALISED IN EARLIER YEARS	1,01,70,673.00	-
ADD: ADJUSTMENT ENTRIES MADE IN FY 2014-15	4,96,403.00	-
ADD: CAPITAL EXPENDITURE IN THE CURRENT FINANCIAL YEAR OUT OF GRANTS	1,57,01,996.00	-
TOTAL (A)	18,57,65,990.04	2,00,20,617.04
LESS: DEPRECIATION FOR ALL THE YEARS UPTO 31.03.2014	2,66,21,110.49	-
LESS: ADJUSTMENT MADE IN THE FY 2014-2015 AGAINST UNUTILISED GRANTS	2,16,49,514.04	-
LESS: EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME TRANSFERRED FROM INCOME AND EXPENDITURE A/C	1,02,33,496.39	47,63,610.00
TOTAL (B)	5,85,04,120.92	47,63,610.00
BALANCE (A-B)	12,72,61,869.12	1,52,57,007.04



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–3: EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in ₹)


Sl. No.	Particulars	FUND-WISE BREAK UP		TOTAL	
		Golden Jubilee		Current Year	Previous Year
		1	2	(1 to 2)	
a)	Opening balance of the funds	-	-	-	-
b)	Additions to the Funds:	-	-	-	-
i.	Receipts during the financial year	2,50,000	-	2,50,000	-
ii.	Income from Investments from funds	-	-	-	-
iii.	Interest on SB A/C	-	-	-	-
	TOTAL (a+b)	2,50,000	-	2,50,000	-
c)	Utilization/Expenditure towards objective of funds	-	-	-	-
i.	Capital Expenditure/Capital WIP	-	-	-	-
ii.	Revenue Expenditure	-	-	-	-
iii.	Advances to employees	-	-	-	-
	TOTAL (c)	-	-	-	-
	NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a +b-c)	2,50,000	-	2,50,000	-



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

**SCHEDULE-4: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS**

(Amount in ₹)

A.	Current Liabilities	2014-15	2013-14
1	Deposits from Students	1,87,243	3,64,931
2	Deposits Others	-	-
3	Statutory Liabilities-Others (including GPF/CPF/NPS Balances)	-	-
4	Sundry creditors for goods	-	-
	(a) Group Savings Linked Insurance Scheme (GSLIS)	-	-
	(b) Receipts against ongoing sponsored projects	28,35,547	17,08,083
	(c) Receipts against fellowships and Scholarships	-	-
	(d) Receipts against Seminars & Workshop	-	-
	(e) Unutilized Grants (MZU)	24,17,843	-
	(f) Unutilized Plan Grants (UGC)	99,05,063	14,41,39,911
	(g) Unutilized Non Plan Grants	-	-
	(h) Other Funds	-	-
	(i) Recoveries from staff	-	-
	(j) Other grants	-	-
	(k) Outstanding liability for expenses	-	-
	(l) Others	-	-
	(i) Stipends/Book Grant/Scholarships	-	-
	(ii) Salary payable	1,22,23,319	-
	Total A:	2,75,69,015	14,62,12,925

Amount in ₹)

B.	Provisions		
	Provisions for Gratuity	-	-
	Provision for Leave Encashment	-	-
	Provision for Pension	-	-
	Total B:	-	-
	Total (A+B)	2,75,69,015	14,62,12,925

(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)

(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)

(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE-5: FIXED ASSETS & DEPRECIATION AS AT 31.03.2015

A. DESCRIPTION	GROSS BLOCK (₹)			DEPRECIATION (₹)			NET BLOCK (₹)			
	Cost/ valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ valuation at the year end	As at the beginning of the year	On assets of previous years	Additions during the year	Total Up to the year end	As at the Current year end	As at the previous year end
1. Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Site Development	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Buildings	2,26,84,761	14,00,000	3,33,909	2,37,50,852	29,86,915.53	4,53,695.22	-	34,40,610.75	2,03,10,241.25	1,96,97,845.47
4. Girls Hostel	2,57,04,953	3,33,14,150	-	5,90,19,103	25,39,844.83	2,34,545.06	3,33,141.50	31,07,531.39	5,59,11,571.61	2,31,65,108.17
5. Auditorium	36,44,255	-	-	36,44,255	8,74,621.20	72,885.10	-	9,47,506.30	26,96,748.70	27,69,633.80
6. Seminar Hall	28,27,416	-	-	28,27,416	-	56,548.32	-	56,548.32	27,70,867.68	28,27,416.00
7. Life Science	1,35,85,599	-	-	1,35,85,599	12,88,925.58	2,71,711.98	-	15,60,637.56	1,20,24,961.44	1,22,96,673.42
8. Tubewells & Water Supply	-	30,420	-	30,420	-	-	152.10	152.10	30,267.90	-
9. Electrical Installations	-	48,389	-	48,389	-	-	1,435.18	1,435.18	46,953.82	-
10. Scientific & Lab. Equipment	98,55,847	16,78,948	-	1,15,34,795	48,04,457.02	6,20,398.96	30,977.91	54,55,833.89	60,78,961.11	50,51,389.98
11. Office Equipment/ Equipment	56,22,278	27,09,083	-	83,31,361	19,41,854.30	4,21,670.85	86,764.93	24,50,290.08	58,81,070.92	36,80,423.70
12. Computers & Peripherals	86,33,618	16,07,495	-	1,02,41,113	54,64,754.54	13,05,319.00	1,46,310.83	69,16,384.37	33,24,728.63	31,68,863.46
13. Furniture, Fixtures & Fittings	92,06,463	22,92,897	-	1,14,99,360	15,82,393.99	6,90,484.73	72,108.87	23,44,987.59	91,54,372.41	76,24,069.01
14. Vehicles	22,48,440	11,90,775	-	34,39,215	13,44,576.45	1,09,866.30	39,692.50	14,94,135.25	19,45,079.75	9,03,863.55
15. Lib. Books & Scientific Journals	61,09,157	13,80,055	-	74,89,212	37,89,358.73	2,85,084.30	73,103.79	41,47,546.82	33,41,665.18	23,19,798.27
16. Computer Software	1,02,250	-	-	1,02,250	3,408.32	40,900.00	-	44,308.32	57,941.68	98,841.68
TOTAL (A)	11,02,25,037	4,56,52,212	3,33,909	15,55,43,340	2,66,21,110.49	45,63,109.82	7,83,687.61	3,19,67,907.92	12,35,75,432.08	8,36,03,926.51
(B) CAPITAL WORK- IN-PROGRESS	2,80,55,650	4,69,286	2,47,55,650	37,69,286	-	-	-	-	37,69,286.00	2,80,55,650.00
TOTAL (A+B)	13,82,80,687	4,61,21,498	2,50,89,559	15,93,12,626	2,66,21,110.49	45,63,109.82	7,83,687.61	3,19,67,907.92	12,73,44,718.08	11,16,59,576.51
						5,34,67,97.43				

Source: Fixed Asset Register.

Note: The Net Block of 2013-14 in this Schedule is different from the figure shown in the Balance Sheet, as depreciation was provided for the first time for all previous years in 2014-15 and hence the net block is lower than that shown in the Balance Sheet.



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer



SCHEDULE-6: INVESTMENTS-EARMARKED/ENDOW. FUNDS

(Amount in ₹)

2014-15	2014-15	2013-14
INVESTMENTS FROM ENDOWMENT FUNDS	-	-
INVESTMENT	-	-
NET BALANCE	-	-

(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)

(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)

(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE-7: CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(Amount in ₹)


	2014-15	2013-14
Current Assets:		
1. Inventories	-	-
2. Cash and Bank Balances	-	-
i) Cash in Hand	1,88,186.75	95,645.75
ii) Cheques & Drafts in Hand	-	-
iii) Postage on hand	-	-
Balances with Scheduled Bank	-	-
In Current Accounts	-	-
Balances with Scheduled Bank	-	-
In Savings Accounts	2,71,39,779.29	2,10,54,847.29
Balances with Scheduled Bank	-	-
In Term Deposits	-	1,22,09,425.00
Total (A)	2,73,27,966.04	3,33,59,918.04



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer


Loans & Advances:	2014-15	2013-14
1. Deposits	-	-
2. Interest accrued but not due on investments of earmarked/endowment funds/ GJC	-	-
3. Interest accrued but not due on interest bearing advances to employees:	-	-
(i) Interest accrued but not due on HBA	-	-
(ii) Interest accrued but not due on Motor Car/ Motor Cycle Advance	-	-
(iii) Interest accrued but not due on Computer Advance	-	-
4. Interest accrued but not due on term deposits	-	-
5. Advances	-	-
(i) Interest bearing advances to employees	-	-
(ii) Non interest bearing advances to employees	4,08,200.00	-
(iii) Advances on capital A/c	-	-
(iv) Recoverable from UGC (NET Fellowship)	-	-
(v) Recoverable from UGC Research Fellowship Grants (JRF/SRF)	-	-
(vi) Receivable from UGC Rajiv Gandhi Fellowship Grants	-	-
(vii) Annual Maintenance Contract (Next Year)	-	-
(viii) Recoverable from Academic Staff College	-	-
TOTAL (B)	4,08,200.00	-
TOTAL (A+B)	2,77,36,166.04	3,33,59,918.04



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015**

SCHEDULE–8: GRANTS/SUBSIDIES (IRREVOCABLE GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED)

(Amount in `)

Particulars	Plan		Non-Plan	Current year Total	Previous Year Total
	MZU	UGC	UGC		
Opening Balance (01.04.2014)	1,57,29,521.00	46,75,225.00	12,44,768.04	2,16,49,514.04	1,37,09,268.04
Add: Receipts During the Year	4,52,99,470.00	64,41,000.00	12,11,00,727.00	17,28,41,197.00	6,33,37,450.00
Add: Others	-	-	5,84,492.00	5,84,492.00	10,80,55,718.00
Add: Interest	8,63,534.00	2,90,978.00	-	11,54,512.00	4,92,419.00
TOTAL:	6,18,92,525.00	1,14,07,203.00	12,29,29,987.04	19,62,29,715.04	18,55,94,855.04
Less: Utilised for Capital Expenditure(A)	1,41,97,640.00	6,48,609.00	8,55,747.00	1,57,01,996.00	2,45,72,581.00
Balance	4,76,94,885.00	1,07,58,594.00	12,20,74,240.04	18,05,27,719.04	16,10,22,274.04
Less: Utilised for Revenue Expenditure (B)	4,52,77,042.00	8,53,531.00	12,20,74,240.04	16,82,04,813.04	13,93,72,760.00
Balance C/F as unutilized (c):	24,17,843.00	99,05,063.00	-	1,23,22,906.00	2,16,49,514.04

- A. -Appears as addition to capital Fund as well as additions to fixed Assets during the year.
 B. -Appears as income in the Income & Expenditure Account.
 C. -I) Appears under Current Liabilities in the Balance Sheet and will become the opening balance next year.
 -II) Represented by Bank balances, Advances and Investments on the Assets side.

Notes:

1. Interest on Investment of Plan Fund includes Interest received on Investment Rs. 5,48,139/-
2. The Unutilised Plan Grants are represented by Advances on Capital Account, Term Deposits in Banks, Balances in Current and Saving Bank Accounts in Banks.



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE-9: ACADEMIC RECEIPTS

(Amount in ₹)

PARTICULARS	2014-15	2013-14
ACADEMIC FEES FROM STUDENTS		
ADMISSION FEE	89,65,900	92,36,010
REGISTRATION FEE	13,400	-
TOTAL	89,79,300	92,36,010
EXAMINATION FEES FROM STUDENTS		
EXAMINATION FEE (ANNUAL/SEMESTER)	33,86,000	1,43,15,124
TOTAL	33,86,000	1,43,15,124
OTHER FEES FROM STUDENTS		
HOSTEL/GUEST HOUSE FEE OF STUDENTS	8,50,040	2,00,000
TOTAL	8,50,040	2,00,000
SALE OF FORMS/PROSPECTUS		
COST OF FORMS	-	-
COST OF PROSPECTUS	-	-
TOTAL	-	-
FEES FROM COLLEGES		
AFFILIATION FEES FROM COLLEGES	-	-
TOTAL	-	-
SCHEDULE TOTAL	1,32,15,340	2,37,51,134



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–10: INCOME FROM INVESTMENTS

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Investments from Earmarked/Endowment Funds		Investment-Others	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1) Interest	-	-	-	-
a) On Govt. Securities	-	-	-	-
b) On Bonds/Debentures	-	-	-	-
c) On Term Deposits	-	-	-	-
2) Others	-	-	-	-
Transferred to Subsidies / Grants	-	-	-	-
Balance	-	-	-	-


* Transferred to Income and Expenditure Account.



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE-11: INCOME FROM ROYALTY AND PUBLICATIONS


PARTICULARS	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
INCOME FROM ROYALTY	-	-
INCOME FROM SALE OF PUBLICATIONS	-	-
INFORMATN/DISEMINATN/DOCUMNTATN SERVICES	-	-
SCHEDULE TOTAL	-	-



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–12: INTEREST EARNED


PARTICULARS	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
INTEREST EARNED ON BANK SAVINGS/DEPOSITS		
INTEREST EARNED ON ACADEMIC STAFF COLLEGE	-	-
INTEREST EARNED ON DEPARTMENTAL PROJECT	-	-
INTEREST EARNED ON NON-PLAN SAVINGS A/C	3,63,067	6,09,532
INTEREST EARNED ON PLAN SAVINGS A/C	-	-
INTEREST ON CORPUS FUND ACCOUNT	-	-
INTEREST EARNED ON LOANS & ADVANCES		
INTEREST ON MOTOR CAR ADVANCE	-	-
SCHEDULE TOTAL	3,63,067	6,09,532



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE-13: OTHER/MISCELLENEOUS INCOME


PARTICULARS	2014-15 (₹)	2013-14 (₹)
MISCELLANEOUS INCOME	5,79,400	18,000
MISCELLANEOUS INTERNAL RECEIPTS-MZU	1,69,151	-
TOTAL	7,48,551	18,000
SCHEDULE TOTAL	7,48,551	18,000



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–14: ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount in ₹)

PARTICULARS	2014-15			2013-14
	PLAN	NON-PLAN	TOTAL	
BONUS	72,534	2,21,056	2,93,590	3,07,406
C.P.F.-MZU'S CONTRIBUTION	-	-	-	-
CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE	3,93,055	11,98,959	15,92,014	12,56,399
HONORARIUM TO NON-STAFF	-	44,388	44,388	-
HONORARIUM TO STAFF (ASC)	-	-	-	-
HONORARIUM TO STAFF	-	-	-	-
LEAVE SALARY & PENSION CONTRIBUTION	-	-	-	-
LEAVE TRAVEL CONCESSION	2,41,521	7,01,954	9,43,475	2,45,864
LTC-LEAVE ENCASHMENT	-	-	-	-
MEDICAL REIMBURSEMENT	11,27,217	25,68,245	36,95,462	32,20,728
MEDICAL REIMBURSEMENT FOR PENSIONERS	-	-	-	-
MEDICAL REIMBURSEMENT FOR CONT.STAFF	-	-	-	-
N.P.S.-MZU'S CONTRIBUTION	25,40,317	34,61,226	60,01,543	-
NPS TIER-I INTEREST	-	-	-	-
OVERTIME TO DRIVERS	-	25,634	25,634	97,896
OVERTIME TO OTHER THAN DRIVERS	-	89,819	89,819	-
TOTAL	43,74,644	83,11,281	1,26,85,925	51,28,293
SALARY & ALLOWANCES (OSL)	-	-	-	-
SALARY OF NON-TEACHING STAFF-ASC	-	-	-	-
SALARY OF NON-TEACHING STAFF	80,12,175	3,00,79,047	3,80,91,222	4,78,63,849
SALARY OF TEACHING STAFF	2,71,99,821	8,82,47,985	11,54,47,806	8,44,25,814
SALARY OF TEMPORARY STAFF	38,34,252	-	38,34,252	28,40,568
SALARY OF TEACHING STAFF-ASC	-	-	-	-
TOTAL	3,90,46,248	11,83,27,032	15,73,73,280	13,51,30,231
MEDICAL REIMBURSEMENT-ASC	-	-	-	-
CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE (ASC)	-	-	-	-
L.T.C. LEAVE EANCASHMENT-ASC (PLAN)	-	-	-	-
LEAVE TRAVEL CONCESSION-ASC (PLAN)	-	-	-	-
N.P.S.-EMPLOYER'S CONTRIBUTION (ASC)	-	-	-	-
EMPLOYEES RETIREMENT & TERMINAL BENEFITS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
SCHEDULE TOTAL	4,34,20,892	12,66,38,313	17,00,59,205	14,02,58,524



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–14 A: EMPLOYEES RETIREMENT & TERMINAL BENEFITS

(Amount in ₹)


A.	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Total
Opening Balance	-	-	-	-
Addition: Capitalized Value of Contribution	-	-	-	-
Received from other Organizations	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Less: Actual Payment during the year 2014-15	-	-	-	-
Balance Available on 31.3.2015	-	-	-	-
Provision required on 31.3.2015 as per Actuarial Valuation	-	-	-	-
Provision to be made in 2014-15	-	-	-	-
B. Contribution to New Pension Scheme	-	-	-	-
C. Travel to Hometown on Retirement	-	-	-	-
D. Deposit Linked Insurance Payment	-	-	-	-
Total (A+B+C+D)	-	-	-	-



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–15: ACADEMIC EXPENSES

(Amount In ₹)


PARTICULARS	2014-15			2013-14
	PLAN	NON-PLAN	TOTAL	
ADVERTISEMENT	-	-	-	5,700
PUBLICATION EXPENSES	-	4,37,000	4,37,000	4,05,000
SCHOLARSHIPS & STIPENDS	25,000	27,000	52,000	1,24,10,000
LABORATORY RUNNING EXPENSES	3,39,082	29,203	3,68,285	-
TEACHING AIDS–SPECIAL STATIONERY	-	47,915	47,915	70,279
OTHER EXAMINATION EXPENSES	-	29,91,922	29,91,922	20,81,170
REMUNERATION TO EXAMINERS	-	6,93,748	6,93,748	5,95,346
STUDENT WELFARE EXP.-EXTRA CURR.ACT.	-	7,40,460	7,40,460	3,53,900
STUDY TOUR [CSST/FL.TRIP STUDENTS]	2,38,080	9,25,250	11,63,330	7,94,240
FIELD WORK & RESEARCH (DAUENM)	7,42,029	-	7,42,029	-
SCHEDULE TOTAL	13,44,191	58,92,498	72,36,689	1,67,15,635



(A.D. LALHMIINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–16: ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Amount In ₹)

PARTICULARS	2014-15			2013-14
	PLAN	NON-PLAN	TOTAL	
ELECTRICITY CHARGES	-	2,18,667	2,18,667	2,19,954
HIRING OF VEHICLES	-	7,12,500	7,12,500	7,73,500
PETROL, OIL & LUBRICANTS	-	5,07,142	5,07,142	7,60,338
WATER CHARGES	-	2,23,711	2,23,711	1,35,918
BANK CHARGES	1,160	2,638	3,798	2,737
MEETING EXPENSES	-	-	-	26,500
MISCELLANEOUS ADMINISTRATIVE EXP.	-	1,54,175	1,54,175	7,92,455
NEWSPAPERS & PERIODICALS	-	39,803	39,803	13,650
OTHER CHARGES/CONTINGENCIES	-	9,33,312	9,33,312	7,66,374
STATIONERY [CONSUMPTION]	-	3,76,458	3,76,458	3,81,032
TA-MEDICAL	1,19,552	3,25,138	4,44,690	-
TA-OFFICIALS	77,430	54,840	1,32,270	4,89,867
TA-RETIREMENT	-	13,420	13,420	-
TRAVEL GRANT	-	89,241	89,241	-
WORKSHOP/CONF/SEMINAR ETC	6,92,348	1,05,000	7,97,348	10,31,533
POSTAGE & TELEGRAM	-	150	150	-
TELEPHONE CHARGES	-	1,56,411	1,56,411	1,41,506
SPORT EXPENSES	-	4,08,930	4,08,930	-
TRAINING & SEMINAR CHARGES [ADM.]	-	-	-	1,02,600
SCHEDULE TOTAL	8,90,490	43,21,536.00	52,12,026	56,37,964



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–17: REPAIRS & MAINTENANCE

(Amount In ₹)


PARTICULARS	2014-15			2013-14
	PLAN	NON-PLAN	TOTAL	
MAINTENANCE OF BLDG.-REPAIRS	-	28,61,746	28,61,746	21,45,883
MAINTENANCE OF COMPUTERS	-	1,94,914	1,94,914	6,05,478
MAINTENANCE OF ELECTRICAL INSTALL	-	1,66,190	1,66,190	2,26,191
MAINTENANCE OF BLDG.-HOSTEL MAINT.	-	6,62,195	6,62,195	1,71,800
MAINTENANCE OF EQUIPMENT	-	29,553	29,553	-
MAINTENANCE OF VEHICLES	-	3,40,968	3,40,968	4,58,506
MISCELLANEOUS REPAIR & MAINTENANCE	-	48,234	48,234	75,446
TOTAL	-	43,03,800	43,03,800	36,83,304
SCHEDULE TOTAL	-	43,03,800	43,03,800	36,83,304



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

SCHEDULE–18: MISCELLANEOUS EXPENSES

(Amount In ₹)


PARTICULARS	2014-15			2013-14
	PLAN	NON-PLAN	TOTAL	
EQUAL OPPORTUNITY CELL (MS)-PLAN	-	-	-	-
INTL. QUALITY ASSURANCE CELL MERGD SCHEM	-	-	-	-
MISC. ELECTRICAL INSTRUMENT	-	-	-	-
MISC. RECURRING EXPENSES (SET)	-	-	-	-
MISCELENOUS EQUIPMENT	-	-	-	-
OTHER MISCELENEOUS EXPENSES	5,00,000	1,06,750	6,06,750	22,19,609
LANDSCAPING & BEAUTIFICATION	-	-	-	-
ROUNDED OFF	-	-	-	-
SCHEDULE TOTAL	5,00,000	1,06,750	6,06,750	22,19,609



(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)



(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)



(PROF. LIANZELA)
Finance Officer



SCHEDULE-19: PRIOR PERIOD EXPENSES

(Amount In ₹)

PARTICULARS	2014-15			2013-14
	PLAN	NON-PLAN	TOTAL	
ESTABLISHMENT EXPENSES-PRIOR PERIOD	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)

(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)

(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDING 31.03.2014**

PACHHUNGA UNIVERSITY COLLEGE

Aizawl, Mizoram

SCHEDULE–20: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS FOR PREPARATION OF ACCOUNTS

The accounts are prepared under the Historical Cost Convention unless otherwise stated and generally on the Accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

- 2.1 Fees from Students, Sale of Admission Forms, and Interest on Savings Bank account are accounted on cash basis.
- 2.2 Income from Land, Buildings and Other Property and Interest on Investments are accounted on accrual basis.
- 2.3 Interest on interest bearing advances to staff for House building, purchase of Vehicles and Computers is accounted on accrual basis every year, though the actual recovery of interest starts after the full repayment of the Principal.

3. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

- 3.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.
- 3.2 Gifted / Donated assets are valued at the declared value where available, if not available the value is estimated based on the present market value and the physical condition of the asset. They are set-up by credit to Capital Fund and merged with the Fixed assets of the University. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets.
- 3.3 Books received as gifts, are valued at selling prices printed on the books. Where they are not printed, the value is based on assessment or nominal value.
- 3.4 Electronic Journals (E-Journals) are separated from Library Books in view of the limited benefit that could be derived from the on-line access provided. Though E-Journals are not in a tangible form, they are capitalized in view of the magnitude of expenditure and the benefit derived in terms of perpetual knowledge acquired by the Academic and Research Staff Depreciation is provided in respect of E-Journals at a higher rate of 40% as against depreciation of 10% provided in respect of Library Books.
- 3.5 Expenditure on acquisition of software has been separated from computers and peripherals, as apart from being intangible assets, the rate of obsolescence in respect of these is very high. Depreciation is provided in respect of software at a higher rate of 40% as against depreciation of 20% provided in respect of Computers & Peripherals.
- 3.6 Fixed assets are valued at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided on Straight line method, at the following rates:

1.	Land	0%
2.	Site Development	0%
3.	Buildings	2%
4.	Roads & Bridges	2%
5.	Tube wells & Water supply	2%
6.	Sewerage & Drainage	2%
7.	Electrical Installation & Equipment	5%

8.	Plant & Machinery	5%
9.	Scientific & Laboratory Equipment	8%
10.	Office Equipment	7.5%
11.	Audio Visual Equipment	7.5%
12.	Computers & Peripherals	20%
13.	Furniture, Fixtures & Fittings	7.5%
14.	Vehicles	10%
15.	Lib. Books & Scientific Journals	10%
16.	E-Journals	40%
17.	Computer Software	40%
18.	Others	10%

- 3.7 Depreciation is provided from the next dates of procurement (Pro-rata) on additions during the year.
- 3.8 Where an asset is fully depreciated, it will be carried at a residual value of Re.1 in the Balance Sheet and will not be further depreciated. Thereafter, depreciation is calculated on the additions of each year separately at the rate of depreciation applicable for the asset head.
- 3.9 Assets created out of Earmarked Funds and funds of Sponsored Projects, where the ownership of such assets vests in the College, are setup by credit to Capital Fund and merged with the Fixed Assets of the College. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets. Assets created out of Sponsored Project Funds, where the ownership is retained by the sponsors but held and used by the College are separately disclosed in the Notes on Accounts.

4. STOCKS

Expenditure on purchase of chemicals, glassware, publications and other stores is accounted as revenue expenditure, except that the value of closing stocks held on 31st March is set up as inventories by reducing the corresponding Revenue expenditure on the basis of information obtained from Schools of Departments. Under the accrual system, the actual consumption can only be debited to the income and expenditure account.

5. RETIREMENT BENEFITS

Retirement benefits i.e., pension, gratuity and leave encashment are provided on the basis of actuarial valuation, at the end of each financial year. Capitalized value of pension and gratuity received from previous employers of the College employees, who have been absorbed in the College, is credited to the respective Provision Accounts. Pension Contribution received in respect of college employees on deputation is also credited to the Provision for Pension Account.

The provisions are made in respect of the College and the University in the University's Accounts as all the payments are directly made from the University.

6. INVESTMENTS

- 6.1 Long term investments are carried at their cost or face value whichever is lower. However any permanent diminution in their value as on date of the Balance Sheet is provided for.
- 6.2 Short term investments are carried at their cost or market value (if quoted) whichever is lower.



7. GOVERNMENT AND UGC GRANTS

1. Government grants and UGC grants for the College are received by the University in the first instance. The Grants meant for the College are transferred to the College by the University, at periodical intervals.
2. To the extent utilized towards capital expenditure, government grants and grants from UGC are transferred to the Capital Fund.
3. Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in the income and expenditure Account.
4. Unutilized grants (including advances paid out of such grants) are carried forward and exhibited as a liability in the Balance Sheet.

8. SPONSORED PROJECTS

- 8.1) In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provisions–Current Liabilities–Other Liabilities–Receipts against ongoing sponsored projects." As and when expenditure is incurred/advances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated overhead charges/Institutional charges, the liability account is debited. Overhead charges / Institutional Charges recovered from projects are treated as income by the College. Interest earned on short term investments of Sponsored Projects funds is also treated as income of the College. Debit balances, if any, against individual projects, are shown under Current Assets, Loans & Advances and not set off against Credit balances in other projects.
- 8.2) The College allows Project Coordinators to use a specified percentage of the overhead charges/Institutional Charges for incurring Capital expenditure for Infrastructure/Laboratory Development. The assets thus created are also merged with the respective asset heads. Depreciation is provided on such assets also in the normal course.
- 8.3) Assets created out of sponsored Project funds, where the ownership vests in the College, are merged with the respective assets heads of the College by credit to Capital Fund. Depreciation is provided in the normal course.

The Assets, where the ownership is retained by the sponsors which are held and used by the College, are disclosed separately in Schedule 21–Contingent Liabilities and Notes to Accounts.

9. INCOME TAX

The income of the University is exempt from Income Tax under Section 10 (23c) of the Income Tax Act. No provision for tax is therefore made in the accounts.

(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)

(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)

(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

PACHHUNGA UNIVERSITY COLLEGE Aizawl, Mizoram

SCHEDULE–21: CONTINGENT LIABILITES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. CAPITAL COMMITMENTS

The value of contracts remaining to be executed on Capital Accounts and not provided for (Net of Advances) amounted to ₹ 33,58,814/- as on 31.03.2015 (Previous year ₹ 1,72,00,000/-).

2. FIXED ASSETS

Fixed Assets as set out in Schedule 5 do not include assets purchased out of funds of sponsored projects, held and used by the College, as project contracts include stipulations that all such assets purchased out of projects funds will remain the property of the sponsors.

The details of such assets are:

Head	Opening Balance	Addition During the Year	Total	Notional Depreciation	Book Value (Amt. in `)
Computer					
Electrical Installation					
Furniture & Fixtures					
Office Equipment					
Scientific Lab. Equipment					
Software					
Total					

3. DEPRECIATION

Depreciation on Fixed Assets was not being provided in the past. With the change from cash accounting to Accrual Accounting System, depreciation has been provided for the first time, for all the previous years up to 31st March 2014 in the accounts for the year 2014-15 by debit to Capital Fund. For the purpose of determining the quantum of depreciation for all the previous years, depreciation has been calculated systematically for each of the years from 2007-08 at the rates stipulated in the Accounting Policy and at ad hoc rates to cover all the years up to and including 2006-07. The ad hoc rates adopted were:

1. Land	: 0%
2. Site Development	: 0%
3. Buildings	: 10%
4. Roads & Bridges	: 10%
5. Tube wells & Water supply	: 10%
6. Sewerage & Drainage	: 10%
7. Electrical Installation and Equipment	: 25%
8. Plant and Machinery	: 25%
9. Scientific & laboratory Equipment	: 40%
10. Office Equipment	: 37.5%
11. Audio Visual Equipment	: 37.5%
12. Computers & Peripherals	: 50%
13. Furniture, Fixture & Fittings	: 37.5%
14. Vehicles	: 50%
15. Library Books & Scientific Journals	: 50%
16. Others	: 50%



As dates of acquisition of these assets are not readily available, Depreciation has been provided for the whole year on additions during the years.

Depreciation for the year 2014-15 has been provided and debited to the Income & Expenditure Account.

4. RETIREMENT BENEFITS

Though Actuarial valuation of the liability for Pension, Gratuity and Leave Encashment is obtained separately in respect of the employees of the college, and separately in respect of the employees of the University, provision is being made centrally in the University's Accounts for the College as well as the University, as the payments of all the retirement benefits to all the employees of the college and University are made by the University and met out of Non Plan Grants received by the University.

5. INTEREST BEARING ADVANCES TO EMPLOYEES

- a) Advances for House Building, purchase of cars and two wheelers and Computers, to the employees of the College are paid by the University and accounted centrally. The College recovers the instalments of the advances from the employees as well as the interest on such advances when due, and remits them to the University.
- b) Interest income accrued but not due on these advances at the end of each year is also set up and accounted for centrally in respect of all the employees of the college and the University.

6. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current Assets, Loans and Advances have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

1. Previous year's figures has been regrouped, wherever necessary.
2. Figures in the Final Accounts have been rounded off to the nearest rupee.
3. Schedules 1 to 21 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as on 31st March 2015, and the income and Expenditure Account for the year ended on that date.
4. The Provident Fund and New Pension Scheme Accounts of the employees of the College are included in the accounts of the University and are centrally managed by the University.

(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)

(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)

(PROF. LIANZELA)
Finance Officer

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT
FROM 01.04.2013–31.03.2015**

PACHHUNGA UNIVERSITY COLLEGE

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2015

RECEIPTS	Amount in (₹)	PAYMENTS	Amount in (₹)
OPENING BALANCES:		ESTABLISHMENT EXPENSES (Non-Plan)	
Salary Non/Plan-Main Account	9,93,538.29	Salary, Teaching Staff	8,12,15,708.00
Non Salary/Non Plan	1,55,584.00	Salary Non Teaching staff	2,79,56,640.00
Cash in Hand	95,645.75	Bonus (N.P.)	2,21,056.00
State Bank of India (Student Fund)	22,345.00	Children Education Allowance N.P.	11,98,959.00
Research Project A/C	17,18,609.00	Overtime Allowance	1,15,453.00
Vijaya Bank (Saving A/c)	4,41,342.00	Travel Grant Expenses	89,241.00
Apex Bank	13,76,164.00	Professional Tax	-
Plan-Mission Veng SBI	9,30,337.00	LTC/HTC	7,01,954.00
Rural Bank	7,72,253.00		
UGC Account	46,75,225.00	Medical Reimbursement	25,68,245.00
Revenue Mission Veng Account	88,88,080.00	T.A./DA	3,93,398.00
Revenue Account	10,81,370.00	Honorarium to non Staff	44,388.00
		Bank Charges	555.00
SALARY/NON-PLAN		Miscellaneous Expenses	1,54,175.00
Remittance from MZU Sal/NP	11,72,52,841.00	50 % share in NPS of Employer	34,61,226.00
LIC Silchar	17,916.00		
Travel grant	89,241.00	PLAN MZU	
Gratuity	4,37,325.00	Salary-Teaching Staff	2,48,11,426.00
PLAN (MZU)		Salary Non Teaching Staff	73,31,935.00
Grant for Salary Component	3,72,99,470.00	Remuneration	38,26,252.00
Bank Interest	2,26,676.00	Medical Reimbursement	11,27,217.00
Library Books Grants	25,00,000.00	Children Education Allowance	3,93,055.00
Lab Equipments	50,00,000.00	TA	1,96,982.00
Landscaping & Beautification Grant	5,00,000.00	LTC	2,41,521.00
		Bonus	72,534.00
APEX BANK		Professional Tax	-
Bank Interest	38,866.00	Bank Charges	690.00
		Lab Running Expenses	3,39,082.00
RURAL BANK		Landscaping & Beautification	5,00,000.00
Fixed Deposit Matured (Principle)	1,22,09,425.00	50 % share in NPS of Employer	25,40,317.00
Fixed Deposit Interest	5,48,139.00	Girls Hostel	85,58,500.00
Transferred from UGC		Library Books & Journals	12,03,980.00
Bank Interest	41,359.00	Computer & Peripherals	5,24,500.00
		Laboratory Equipment	10,38,250.00
NON-SALARY/ NON-PLAN		Equipments	21,36,563.00
Misc Internal Receipts	40,010.00	APEX BANK	
Remittance from MZU	38,47,886.00	Construction of Boy's Hostel	4,19,286.00
		Furniture, Fixture & Fittings	1,21,900.00
REVENUE ACCOUNT			
Seminars/Works Grants		RURAL BANK	
Scholarship	27,000.00	FD Matured Transfer to MZU Plan	

═══════ MIZORAM UNIVERSITY: Annual Accounts for the Year 2014–2015 ═══════

Examination Fee	33,86,000.00	Laboratory Equipment	44,000.00
Magazine	4,44,400.00	Equipments	48,720.00
Seminars	90,000.00	Bank Charges	100.00
Honorarium	18,000.00	Star College Scheme Expenses	5,81,216.00
		Star College Scheme-Study Tour	2,38,080.00
Non-Plan Revenue Account			
Admission fees	89,65,900.00	NON-SALARY/ NON-PLAN	
Hostel Fees	7,37,500.00	Bank Charges	1,308.00
Misc Internal Receipts	1,69,151.00	Contingency Charges	3,24,680.00
Registration fees	13,400.00	Electricity Charges	52,891.00
Bank Interest	3,63,067.00	Hiring of Vehicles	5,12,500.00
Girls Hostel Fees	1,12,540.00	Petrol, Oils & Lubricants	2,73,377.00
-		Printing & Stationery	2,22,968.00
STUDENTS' ACCOUNT		News paper/periodicals	38,603.00
		Telephone	79,316.00
Donation & Contribution to the Fund	7,57,500.00	Water Charges	1,37,877.00
		Vehicle Maintenance	1,93,540.00
VIJAYA BANK:		Repairs & Maintenance	19,520.00
Bank Interest	8,494.00	Computer Maintenance	90,594.00
		Building maintenance	10,66,454.00
UGC ACCOUNT		Electric Installation	84,852.00
Grants from UGC:		Lab Running Expenses	12,270.00
IQAC Grants	3,00,000.00	Renovation of Academic Building/ Office	77,764.00
Grant from UGC	15,84,000.00	Furniture, Fixture & Fittings	2,70,716.00
Golden Jubilee Fund	2,50,000.00	Equipments	2,12,921.00
Star College	8,17,000.00	Electric Installation-FA	48,389.00
Const. of Boys Hostel	32,00,000.00	Computer & Peripherals	1,40,695.00
Seminar/ Workshop Grants	5,40,000.00	Laboratory Equipment	46,698.00
Bank Interest	2,90,978.00	Library Books & Journals	1,36,328.00
		REVENUE ACCOUNT	
Grants for Projects:		Centre fees	1,10,065.00
Rahul Verma	3,50,000.00	Contingency charges	18,000.00
H Lalthanzara	2,00,000.00	Examination Fees	24,92,586.00
Bubul Bharali	4,33,500.00	Magazine	4,37,000.00
Dr. Vanramliana	20,45,000.00	Scholarship	27,000.00
Thanhmingliana	,27,500.00	Remuneration for Exam	5,83,683.00
Laldinpuia	4,36,500.00	Seminar/Workshop	1,05,000.00
Dr T Sadashivam	1,60,000.00	Bank Charges	155.00
Y Rangeela Devi	2,04,000.00	Building maintenance	2,50,000.00
K Birla Singh	5,01,235.00	Equipments	51,000.00
Dr. C Victory Devi	2,65,000.00	Furniture, Fixture & Fittings	1,22,555.00

═══════ MIZORAM UNIVERSITY: Annual Accounts for the Year 2014–2015 ═══════

C Lalhriatpuia	2,55,000.00		
HL Lawmzuala	20,000.00	NON-PLAN REVENUE ACCOUNT	
Lalpawimawha	2,27,500.00	Academic Expenses	47,915.00
Dr Lalramliana	23,91,000.00	Enrolment fees	52,320.00
Principal	22,500.00	Field Trip/Study Tour	9,25,250.00
RKPG Singha	90,000.00	Graduation Expenses	1,94,000.00
		Identity card	1,21,440.00
Receipts for Staff Deductions/ Recoveries		Internal examination	2,09,000.00
Computer Advance	2,25,720.00	Lab Running Expenses	16,933.00
Festival Advance	3,17,500.00	Maintenance of Girls Hostel	3,22,195.00
House Building Advance	9,26,246.00	Merit Award	1,66,460.00
Motor Cycle Advance	6,74,336.00	Other Exam Expenses	2,426.00
Other Staff Recovery	2,39,347.00	Registration fees	1,14,150.00
Recovery of Loan	77,48,037.00	T Shirt	3,80,000.00
GPF	89,84,950.00	Bank Charges	620.00
GSLIS	1,41,144.00	Contingency Charges	5,90,632.00
Income Tax	16,81,476.00	Electricity Charges	1,65,776.00
LIC	24,72,688.00	Hiring of Vehicles	2,00,000.00
Misc	90,700.00	Newspaper & periodicals	1,200.00
MTWF	97,750.00	Petrol, Oil & Lubricants	2,33,765.00
NPS	1,20,03,086.00	Postage & Telegram	150.00
Professional Tax	4,72,020.00	Sports Expenses	4,08,930.00
PUCTA	10,100.00	Printing & Stationery	1,53,490.00
SSS	9,45,100.00	Students Aid Fund	25,000.00
Welfare Fund	10,52,700.00	Telephone Charges	77,095.00
		Water Charges	85,834.00
		Building maintenance	14,67,528.00
		Computer Maintenance	1,04,320.00
		Electrical Installation	81,338.00
		Equipment Maintenance	29,553.00
		Vehicle maintenance	1,47,428.00
		Maintenance of Boys Hostel	3,40,000.00
		Repair & Maintenance	28,714.00
		Landscaping & Beautification	1,06,750.00
		Water Supply-FA	30,420.00
		Equipments	2,49,979.00
		Furniture, Fixtures & Fittings	16,23,726.00
		Library Books & Journals	39,747.00
		Computer & Peripherals	9,05,650.00
		Const of Instrumentation centre	14,00,000.00
		Vehicles	11,90,775.00
		Const of Boys Hostel	50,000.00
		RESEARCH PROJECT ACCOUNTS	
		Bubul Bharali	3,03,500.00
		Dr Chanambam Victory Devi	38,000.00

	Dr. H Lalthanzara	4,77,400.00
	Dr. K Birla Singh	5,33,027.00
	Dr. Lalhunthara	57,500.00
	Dr. Lalramliana	30,36,943.00
	Dr. Rahul Verma	2,72,200.00
	Dr. T Sadashivam	60,000.00
	Dr. Vanramliana	9,79,338.00
	H L Lawmzuala	1,45,000.00
	Laldinpuia	3,97,982.00
	Lalrinthara Pachuau	40,000.00
	Others (Donation)	-
	Principal	20,000.00
	RKPG Singha	1,19,750.00
	Thanhmingliana	75,000.00
	Vanlalhlana	39,250.00
	Interest Fund	155.00
	STUDENTS' FUND ACCOUNT	
	Beat & Solo Contest	78,170.00
	Freshers Social	1,20,000.00
	Medals	11,250.00
	MSU Football Tournament	24,500.00
	Departmental Tour	34,000.00
	Cultural Deptt Expenses	27,990.00
	SU Voice	18,700.00
	College Week	2,54,575.00
	Refreshment	49,662.00
	Special Bulletin Publication	5,000.00
	Students Awards	7,100.00
	Bank Charges	155.00
	VIJAY BANK	
	Furniture, Fixtures & Fittings	1,01,941.00
	Pisciculture	8,000.00
	UGC ACCOUNT	
	IQAC	6,600.00
	Equipment	9,900.00
	Computer & peripherals	36,650.00
	Furniture, Fixtures & Fittings	52,059.00
	Laboratory equipments	5,50,000.00



		Seminar/ Workshop Expenses	6,92,348.00
		UGC Merged Scheme expenses	1,54,213.00
		Bank Charges	370.00
		Payments for Staff Deductions/ Recoveries	
		Computer Advance	2,25,720.00
		House Building Advance	9,26,246.00
		Motor Cycle Advance	6,74,336.00
		Other Staff Recovery	2,35,047.00
		Recovery of Loan	77,48,037.00
		GPF	89,84,950.00
		GSLIS	1,41,144.00
		Income Tax	16,81,476.00
		LIC	24,72,688.00
		Misc	90,700.00
		MTWF	97,750.00
		NPS	1,20,03,086.00
		Professional Tax	4,72,020.00
		PUCTA	10,100.00
		SSS	9,45,100.00
		Welfare Fund	10,52,700.00
		Festival Advance	3,10,000.00
		Closing Balance :	
		Salary Non/Plan-Main Account	6,89,363.29
		Non Salary/Non Plan	419.00
		Cash in Hand-salary non plan	95,645.75
		State Bank of India (Student Fund)	1,48,743.00
		Research Project A/C	13,17,165.00
		Vijaya Bank (Saving A/c)	3,39,895.00
		Apex Bank	8,73,844.00
		Plan-Mission Veng SBI	43,63,543.00
		Rural Bank	7,18,496.00
		UGC Account	1,09,58,197.00
		Revenue Mission Veng Account	68,65,388.00
		Cash In Hand-Revenue	92,541.00
		Revenue Account	8,64,726.00
TOTAL	26,91,86,212.04	TOTAL	26,91,86,212.04

(A.D. LALHMINGLIANA)
Assistant Registrar (Finance)

(ZAIREMMAWIA PACHUAU)
Deputy Registrar (Finance)

(PROF. LIANZELA)
Finance Officer



SEPARATE AUDIT REPORT

OF THE

COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

ON THE ACCOUNTS OF THE

MIZORAM UNIVERSITY,

AIZAWL

FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015

SEPARATE AUDIT REPORT

**OF THE
COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL
OF INDIA**

ON THE ACCOUNTS OF THE

**MIZORAM UNIVERSITY,
AIZAWL**

FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015

**Separate Audit Report on the Accounts of Mizoram University,
Aizawl for the year ended 31 March 2015**

1. We have audited the attached Balance Sheets of Mizoram University, Aizawl as of 31 March 2015 and the Income and Expenditure Accounts and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's Duties, Powers and Conditions of Service (DPC) Act, 1971 read with Section 31(1) of the Mizoram University Act, 2000. These financial statements are the responsibility of the University's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, *etc.* Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, *etc.*, if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
 - i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and beliefs were necessary for the purpose of our audit;
 - ii. The Balance sheets and Income Expenditure Accounts and Receipts and Payments Accounts dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance;
 - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Mizoram University, Aizawl as required under the Mizoram University Act, 2000, in so far as it appears from our examination of such books.
 - iv. We further report that

Balance Sheet of Mizoram University

A. BALANCE SHEET

Assets

A.1 Advances out of Revolving Funds not entered in Earmarked/Endowment Funds

SCHEDULE 3: EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

c) Utilisation/Expenditure towards objective of funds

Scrutiny of Annual Financial Statement of the University reveal that entries in respect of Advances made to the employees did not appear in the account of Earmarked/Endowment Fund nor the repayment made by the beneficiaries.

Details of items not entered into the account are given as under:

(In ₹)

Particulars	House Building Advance	Motor Cycle/ Scooter Advance	Computer Advance	Golden Jubilee Chair	Total
(a) Additions to the Funds					
Receipts during the Financial Year	34,79,872.00	5,94,499.00	5,60,350.00		46,34,721.00
(b) Utilisation/Expenditure towards objective of funds					
Advances to employees	31,22,157.00	21,30,000.00	8,40,000.00		60,92,157.00
Total (b - a)					14,57,436.00

Due to this non-entry of the above advances, the balances of Earmarked/ Endowment Fund is overstated by ₹ 14.57 lakh as well as the Current Assets, Loans and Advances also overstated by the same amount.

A.2 Fixed Asset (Land): ₹ 2,194.85 lakh

SCHEDULE 5: FIXED ASSETS

1. Land

Fixed Assets of the University includes Land amounting to ₹ 21,94,64,850.00. Out of which, the total cost or compensation paid out of land acquisition amounted to ₹ 19,72,00,000.00.

The State Government intimated (October 2008) that the University cannot have the ownership of the land due to the fact that non-tribal cannot acquire land under Mizo District Land and Revenue Act, 1956.

Accordingly, the Government of Mizoram (GoM) instead leased the land to the University for a period of 99 years¹ and exempted payment of Land Revenue/Tax².

It was observed that the amount incurred on it was not amortized over the period of the lease.

¹ Beginning from 24.08.1984 to 24.08.2083. Certificate of Land Lease No. DLL LL-8 of 1984 Memo No. L.11019/1/82-DTE (REV) Dated 26.11.2008

² Letter No. L.11019/DPL/NEHU/89-DTE(REV)/208 Dated 14.11.2009

Thus, the Fixed Assets of the University is overstated by ₹ 6.17 crore and the Capital and liabilities is understated by the same.

A.3 Fixed Asset (Land): ₹ 2,194.85 lakh

B. Land (Sports Complex): ₹ 222.65 lakh

The above also includes Assets of the project ‘Sports Complex’ amounting to ₹ 2,22,64,850.00 (including Depreciation: ₹ 8,38,353.00). The project was undertaken in 2009 and the first payment to the contractor was made on 29 October 2009. Since the project was not completed due to fund constraint, the project has been lying dormant since 2011.

As per the accounting principle the project which is under progress should be treated as Work-in-Progress and the entry should be booked accordingly. Further, the Depreciation is not chargeable on Work-in-progress. Hence, the Depreciation of ₹ 8.38 lakh already charged should be written off/re-adjusted.

Thus, due the above the Land is overstated by ₹ 2.23 crore and Work-in-Progress is understated by the same amount.

A.4 Non-Accounting of Assets and Stocks held by Kendriya Vidyalaya: ₹ 33.47 lakh

FIXED ASSETS

SCHEDULE 00: CURRENT ASSETS

1. INVENTORIES

As per the accounting principles all infrastructures and assets including all consumables are the property of the University, all the assets and inventories held and utilised by the institution should be accounted for and capitalized in the accounts of the University.

Scrutiny of records and information furnished Kendra Vidyalaya (KV) Mizoram University, Aizawl revealed that the following Fixed Assets and Inventories of the KV are running out of the cent *per cent* funding from the University, which was not accounted for in the Accounts of the University though major assets like Buildings *etc.* were already capitalised.

Sl. No.	Academic Expenses Assets	Amount (In ₹)
1.	Books & Journals	1,23,971.00
2.	Office Equipments	1,61,472.00
3.	computers & Peripherals	11,31,521.00
4.	Furniture & Fixtures	17,28,887.00
5.	Sports	24,090.00
6.	Audio Visual	1,41,385.00
7.	Lab. Equipments	2,840.00
8.	Common Minimum Programme	32,843.00
Total		33,47,009.00

Thus, due to this exclusion, Fixed Assets of the University is understated by ₹ 33.47 lakh and the Corpus Fund is also understated by this amount.

A.5 Discrepancy between Balance Sheet and Broadsheet

BALANCE SHEET: GENERAL PROVIDENT FUND

Cross verification of Balance Sheet of General Provident Fund (GPF) and Broadsheet provided by Mizoram University revealed that there was a difference in the closing balance of ₹ 4.24 lakh are shown as under:

(in ₹)

Head	As per Balance Sheet	As per Broad Sheet/Ledger	Difference
Opening Balance	11,58,95,324	11,41,59,460	17,35,864
Add: Subscription During the Year	2,52,53,493	2,69,89,371	(-)17,35,878
Add: Interest credited to members account	99,01,905	1,02,07,560	(-)3,05,655
Less: Advance/Payment/Transfer	-1,96,29,435	-2,00,90,929	(-)4,61,494
Closing Balance	13,16,89,643	13,12,65,462	4,24,181

It can be seen from the above that the opening balance and closing balance were overstated by ₹ 17.36 lakh and ₹ 4.24 lakh respectively in the Balance Sheet of GPF. Also, subscription during the year, interest credited to members account and advance/payment/transfer were understated by ₹ 17.35 lakh, ₹ 3.06 lakh and ₹ 4.61 lakh respectively in the Annual Accounts of the University.

A.6 Discrepancy between Balance Sheet and Broadsheet

BALANCE SHEET: NEW PENSION SCHEME

Cross verification of Balance Sheet of New Pension Scheme (NPS) and Broadsheet there was a discrepancy as follows:

(in ₹)

Head	As per Balance Sheet	As per Broad Sheet/Ledger	Difference
Opening Balance	1,70,22,586	16,61,62,707	(-)14,91,40,121
Add: Subscription During the Year	5,55,06,369	2,38,51,347	3,16,55,022
Less: Advance/Payment/Transfer	-5,40,17,603	-8,43,188	5,31,74,415
Closing Balance	2,00,74,786	21,30,31,041	(-)19,29,56,255

It can be seen from the above that the opening balance and closing balance were understated by ₹ 14.91 crore and ₹ 19.30 crore respectively in the Balance Sheet of NPF. Also, subscription during the year and advance/payment/transfer were overstated by ₹ 3.17 crore and ₹ 5.32 crore respectively in the Annual Accounts of the University.

Balance Sheet of Pachhunga University College

A.7 Schedule 5: Fixed Assets & Depreciation as at 31 March 2015

A. Item No. 4 – Girls Hostel: Additions during the year: ₹ 3,33,14,150

Scrutiny of Assets Register and ledger showed that ₹ 21,00,000.00 was not taken into account in the Annual Financial Statement.

Thus, due to omission of the three bills of ₹ 21 lakh in the Annual Financial Accounts, Additions during the year was understated by ₹ 21 lakh and overstatement of advance payment to the Contractor.

A.8 BALANCE SHEET

SCHEDULE - 3: EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

SCHEDULE – 8: GRANTS/ SUBSIDIES (Irrevocable grants and Subsidies)

UGC had released ₹ 25,00,000.00 to Pachhunga University College a Grant-in-Aid for Celebration of Golden Jubilee. The last instalment of ₹ 2,50,000.00 was released on 19 March 2014.

Scrutiny of the Annual Financial Statement revealed that the said amount of ₹ 2.50 lakh is reflected in the accounts as Earmarked/Endowment Fund instead of Grant/Subsidies Account.

Thus, due to the wrong entry in the accounts, it resulted in overstatement of Earmarked/Endowment Funds by ₹ 2.50 lakh and understatement in Grant/Subsidies Account by the same amount.

A.9. Assets from Sponsored Projects: ₹ 18.35 lakh

SCHEDULE – 8: FIXED ASSETS & DEPRECIATION

SCHEDULE – 21: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

2. Fixed Assets

Scrutiny and analysis of documents and records revealed that the College created assets out of funds of Sponsored projects which are yet to be accounted for in the Accounts of the College. As per Audit calculation, the total amount of assets created out of funds of sponsored projects amounts to ₹ 18,35,350.00.

The Vice-Chancellor needs to account for the actual assets created under Sponsored projects and has to be reflected in the accounts accordingly, if ownership was not transferred to the University, it should be shown in separate schedule mentioning that these assets did not belong to the University.

B. INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

B.1 Accounts of Guest House

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

Guest House of University was established in 2010 and the management and control of the Guest House is entrusted to Deputy Registrar/Section Officer (Estate) maintaining a separate Bank Account. Presently, with the resolution and approval of the Selection Committee Meeting (13 February 2015), Guest House Kitchen is outsourced (March 2015) to M/s Jojo’s Café & Restaurant, Zarkawt for a period of one year.

Scrutiny of the records and documents *vis-à-vis* Annual Financial Statements and records maintained by Guest House revealed that the accounts of Guest House are not accounted for in the Annual Financial Statements of the University. During the period, it is found that Guest House’s incurred an expenditure of ₹ 4,43,860.00 and realised revenue of ₹ 6,92,389.00. Cash in hand retained by Guest House in-charge amounts to ₹ 9,350.00 and Bank Balance stands at ₹ 7,92,628.00.

Thus, due to non-inclusion of the Guest House Accounts, the Annual Financial Statements of the University does not reveal the true and fair picture of the financial status.

B.2 Schedule 8: Grants/subsidies (Irrevocable grants and Subsidies received)

Grants to Pachhunga University College (Plan)

Schedule 8: Grant/ Subsidies (Irrecoverable grants and Subsidies received) show ₹ 3.76 crore as grants given to Pachhunga University College (PUC) by Mizoram University under Plan Head during 2014-15.

However, on scrutiny or Cash Book, it is seen that the total grants paid to Pachhunga University College was ₹ 4.51 crore as given in **Appendix-1**. As such, grants to Pachhunga University College under Plan head was understated by ₹ 75 lakh in the Annual Accounts of the University.

The Grants paid to PUC for Library Books and Laboratory Equipment amounting to ₹ 75 lakh is not included and thereby overstated the utilised Plan Grant by the same amount which further resulted in overstatement of Current Liabilities by ₹ 75 lakh.

**B. 3 SCHEDULE-8: GRANTS/SUBSIDIES
(Irrevocable grants and Subsidies received)**

Receipts during the year (MZU): ₹ 16,64,00,197.00

On checking of the Annual Accounts of Mizoram University (Schedule 8) exhibited ₹ 15,94,93,798.00 as grants to Pachhunga University College (PUC) as detailed shown below:

(in ₹)

Sl. No.	Head	Grants to PUC (As per Schedule 8 of MZU Annual Accounts 2014-15)	Grants/Subsidies received from MZU (As per Schedule 8 of PUC Annual Accounts 2014-15)	Difference
1.	Plan	3,76,31,874.00	4,52,99,470.00	76,67,596.00
2.	Non-Plan	12,18,61,924.00	12,11,00,727.00	7,61,197.00
	Total	15,94,93,798.00	16,64,00,197.00	68,06,399.00

Thus, from the above, it is clear that there is a discrepancy on Grants/Subsidies received between MZU Annual Accounts and PUC Annual Accounts to the tune of ₹ 68,06,399.00.

B.4 Admission Fee received from students

SCHEDULE – 9: ACADEMIC RECEIPTS

Admission Fee: ₹ 89,65,900.00

Admission Fee of ₹ 89.66 lakh received from students during 2014-15 on the Annual Accounts of PUC. Whereas, on scrutiny of receipt voucher of admission fee, it is observed that the admission fee received was ₹ 1.01 crore.

Thus, Admission Fee under Schedule 9- Academic Receipts on the Annual Accounts of PUC (2014-15) was understated by ₹11.54 lakh (₹ 1.01 crore *minus* ₹ 89.66 lakh).

C. RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNTS

C.1 Capital work-in-progress (Plan): ₹ 17,41,18,595.00

There was a difference of ₹ 35.22 lakh in Capital Work-in-Progress reflected in the Annual Financial Statement of the University are shown as under:

(in ₹)

Sl. No.	Head	As per Audit requisition reply	As per R & P Account	Difference
1.	Building construction-in-progress (Campus Development Plan)	15,42,080.00	15,42,080.00	-
2.	Building construction-in-progress (Plan)	16,74,32,331.00	17,09,54,885.00	35,22,554.00
3.	Fencing construction-in-progress (Plan)	7,40,190.00	7,40,190.00	-
4.	Road construction-in-progress (Plan)	8,81,440.00	8,81,440.00	-
	Total	17,05,96,041.00	17,41,18,595.00	35,22,554.00

This discrepancy resulted in overstatement of Capital work-in-progress (Plan) under Receipt and Payment Account of the University by ₹ 35.23 lakh.

D. ACCOUNTING POLICIES

D.1 Non-Compliance of Ministry of Human Resource Development's Directive

FORMAT OF FINANCIAL STATEMENTS FOR CENTRAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development Government of India directed (17 April, 2015) that all the concerned Autonomous Bodies and Central Educational Institutes (CEIs) under Department of Higher Education and School Education & Literacy administrative control; including Institutions like UGC, AICTE, IITs, and NITs, IITs, IIITs, Central Universities, NVS, KVS, CBSE, State Universities *etc.* should take necessary steps so that the New System of Accounting and Financial Reporting, as per the Revised Format of Accounts, is implemented for preparation and presentation of Annual Accounts for the year 2014-15.

In contravention to the above Directive, the University is yet to implement the New System of Accounting and Financial Reporting for preparation of and presentation of Annual Accounts for the period. The University however, presented some formats of Annual Accounts like the GPF/ CPF and New Pension Scheme.

E. GRANTS-IN-AID

E.1 Schedule 8: GRANTS/ SUBSIDIES (Irrevocable Grants and Subsidies received)

Out of the total available Grants of ₹ 216.36 crore (Plan: ₹ 161.14 Crore and Non-Plan: ₹ 55.22 crore), the University could utilise a sum of ₹ 105.06 crore (Plan: ₹ 57.29 crore and Non-Plan: ₹ 47.77 crore) which constitute only 49 *percent* of the available Funds and thereby leaving a balance of ₹ 113.30 crore (as on 1 April 2015). The details of receipts and utilisation of grants during 2014-15 are given below:

(₹ in crore)

Particulars	Plan		Non-Plan	Total		Grand Total
	GoI	UGC	UGC	Plan	Non-Plan	
Opening Balance	2.71	125	10.16	127.71	10.16	137.87
Receipts during the year	0.06	28.1	45.06	28.16	45.06	73.22
Add: Adjustment	-	-	-	-	-	-
Add: Interest	-	5.27	-	5.27	-	5.27
Total	2.77	158.37	55.22	161.14	55.22	216.36
Expenditure during the year	-	57.29	47.77	57.29	47.77	105.06
Closing Balance	2.77	101.08	7.45	103.85	4.45	113.30

MANAGEMENT LETTER

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Vice chancellor of the University through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
 - (a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Mizoram University as at 31 March 2015; and
 - (b) In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**



**Accountant General
Mizoram, Aizawl**

**Place: Aizawl
Date: 24.11.2015**

ANNEXURE

1. Adequacy of Internal control system

Audit scrutiny of the records revealed the following significant weaknesses in internal controls of the University.

- Absence of proper Internal Control System and Internal Checks in the University and as well as in the Departments.
- Non-reconciliation of records with the subsidiary records maintained by different departments and sections.
- Absence of manual/ system for disposal of assets.

2. System of Physical verification of Stores/Fixed Assets

The University had not conducted proper and detail physical verification of Stores/Fixed Assets created during 2014-15 and no proper reports have also been found for the preceding Financial Years too circulars have been issued for conduct of such exercise.

3. Adequacy of Internal Audit

Although the University appointed its Internal Audit Officer in 2012 on contract basis which is renewed after expiry of the contract, the cell could start functioning only from June 2013. However, audit noticed that there is lack of Internal Audit in commensuration with the size and stature of the University. It is also noticed that the Internal Auditor or Internal Audit Officer is yet to submit any Internal Audit Report to the management till date. Further, the scope of the functions tasked/ delegated to the Internal Auditor is found to be unsatisfactory and poor.

4. Statutory Dues

The University has recovered the statutory dues for New Pension Scheme (NPS) from the concerned staffs and officers upto 31 March 2015, which has been duly remitted to the NPS.

Appendix-1

Statement showing Grants (Plan) to Pachunga University College

AS PER CASH BOOK			AS PER ANNUAL ACCOUNTS 2014-15	Difference (in ₹)
Date of Payment	Bill Number	Plan (in ₹)	Plan (in ₹)	
29/05/2014	PUC/2014-15/8	2161682.00		
29/05/2014	PUC/2014-15/8	336634.00		
29/05/2014	PUC/2014-15/8	648005.00		
01/07/2014	PUC/2014-15/11	2132988.00		
01/07/2014	PUC/2014-15/11	219924.00		
01/07/2014	PUC/2014-15/11	619180.00		
23/07/2014	PUC/2014-15/15	2137570.00		
23/07/2014	PUC/2014-15/15	418410.00		
23/07/2014	PUC/2014-15/15	634730.00		
02/09/2014	PUC/2014-15/17	5000000.00		
02/09/2014	PUC/2014-15/17	2500000.00		
29/09/2014	PUC/2014-15/24	2379358.00		
29/09/2014	PUC/2014-15/24	826400.00		
29/09/2014	PUC/2014-15/24	683589.00		
27/10/2014	PUC/2014-15/16	2235608.00		
27/10/2014	PUC/2014-15/16	461260.00		
27/10/2014	PUC/2014-15/16	728828.00		
27/11/2014	PUC/2014-15/32	2211270.00		
27/11/2014	PUC/2014-15/32	675424.00		
27/11/2014	PUC/2014-15/32	653690.00		
22/12/2014	PUC/2014-15/21	2330414.00		
22/12/2014	PUC/2014-15/21	394959.00		
22/12/2014	PUC/2014-15/21	697149.00		
29/01/2015	PUC/2014-15/40	1338106.00		
29/01/2015	PUC/2014-15/40	469438.00		
29/01/2015	PUC/2014-15/40	383286.00		
27/03/2015	PUC/2014-15/47	332404.00		
01/04/2014	PUC/2014-15/6	1972866.00		
01/04/2014	PUC/2014-15/6	349644.00		
01/04/2014	PUC/2014-15/6	581737.00		
28/04/2014	PUC/2014-15/2	2251693.00		
28/04/2014	PUC/2014-15/2	605618.00		
28/04/2014	PUC/2014-15/2	673894.00		
28/08/2014	PUC/2014-15/18	2138565.00		
28/08/2014	PUC/2014-15/18	529338.00		
28/08/2014	PUC/2014-15/18	634730.00		
27/02/2015	PUC/2014-15/26	928308.00		
27/02/2015	PUC/2014-15/26	342165.00		
27/02/2015	PUC/2014-15/26	513010.00		
TOTAL		4,51,31,874.00	3,76,31,874.00	75,00,000.00

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षण प्रतिवेदन / लिखित प्रमाण
२०१४-२०१५

**AUDITED ANNUAL ACCOUNTS
&
AUDIT REPORT
2014-2015**



मिज़ोरम विश्वविद्यालय
आइज़वाल

**MIZORAM UNIVERSITY
AIZAWL**

सूचकांक

१. आर्थिक चिट्ठा	1
२. आय एवं व्यय खाता	2

३१ मार्च २०१५ को तैयार आर्थिक चिट्ठा की अनुसूचियाँ

३. अनुसूची १: पूंजी/ संचित निधि	5
४. अनुसूची ३: निधारित / बंदोबस्ती कोष	6
५. अनुसूची ४: वतमान देयताएं और पत्रवधान	7
६. अनुसूची ५: अचल संपत्ति और मूल्य ह्रास	8
७. अनुसूची ६: निधारित / बंदोबस्ती / अधि कोष से निवेश	10
८. अनुसूची ८: चालू आर्जितियां, ऋण और अर्गिज	11

३१ मार्च २०१४ को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता की अनुसूचियाँ

९. अनुसूची ८: अनुदान/ सर्सिडी (पत्रपुत स्थिर अनुदान और सर्सिडी)	15
१०. अनुसूची ९: शैक्षणिक पत्रपुतियां	16
११. अनुसूची १०: निवेश से आय	18
१२. अनुसूची ११: रॉयल्टी और पत्रकाशन से आय	19
१३. अनुसूची १२: अर्जिज (ग्राज)	20
१४. अनुसूची १३: अधि विविध आय	21
१५. अनुसूची १४: स्थापना व्यय	22
१६. अनुसूची १४- ए: कमकारी सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ	24
१७. अनुसूची १५: शैक्षणिक व्यय	25
१८. अनुसूची १६: पशासनिक व्यय	27
१९. अनुसूची १७: मरम्मत और रखरखाव	29
२०. अनुसूची १८: विविध व्यय	30
२१. अनुसूची १९: पूर्वअवधि व्यय	31

३१ मार्च २०१५ को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते की अनुसूचियाँ

२२. अनुसूची २०: महामिपूणलेखांकन नीतियाँ	35
२३. अनुसूची २१: आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ	39



रसीदें और भुगतान खाता १ अप्रैल २०१४ से ३१ मार्च २०१५ तक

२४. रसीदें और भुगतान खाता १ अप्रैल २०१४ से ३१ मार्च २०१५ तक	43
सामान्य और अंशदायी / भविष्य विधि	
२५. आर्थिक चिट्ठा ३१.०३.२०१५	49
२६. समाप्त अवधि/वर्ष ३१.०३.२०१५ के लिए आय और व्यय लेखा	50
२७. ०१.०४.२०१४ ३१.०३.२०१५ तक के प्राप्तियां और भुगतान लेखा	51
नई पेंशन योजना	
२८. आर्थिक चिट्ठा ३१.०३.२०१५	55
२९. समाप्त अवधि/वर्ष ३१.०३.२०१५ के लिए आय और व्यय लेखा	56
३०. ०१.०४.२०१४ ३१.०३.२०१५ तक की प्राप्तियां और भुगतान लेखा	57

वर्ष २०१४-१५ के लिए पाछुडा यूनिवर्सिटी कॉलेज के वार्षिक लेखा

३१. आर्थिक चिट्ठा ३१.०३.२०१५	61
३२. समाप्त अवधि/वर्ष ३१.०३.२०१५ के लिए आय और व्यय लेखा	62

३१ मार्च २०१५ को तैयार आर्थिक चिट्ठा की अनुसूचियाँ

३३. अनुसूची १: पूंजी/संचित निधि	65
३४. अनुसूची ३: निधारित / बंदोबस्ती कोष	66
३५. अनुसूची ४: वर्तमान देयताएं और पञ्चधान	67
३६. अनुसूची ५: अचल संपत्ति और मूल्य हास	68
३७. अनुसूची ६: निधारित / बंदोबस्ती / अर्थ कोष से निवेश	69
३८. अनुसूची ७: चालू आसूतियां, ऋण और अगिस्त	70

३१ मार्च २०१४ को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता की अनुसूचियाँ

३९. अनुसूची ८: अनुदान / सब्सिडी (प्राप्त स्थिर अनुदान और सब्सिडी)	75
४०. अनुसूची ९: शैक्षणिक प्राप्तियां	76



४१. अनुसूची १०: निवेश से आय	77
४२. अनुसूची ११: रॉयल्टी और पब्लिशिंग से आय	78
४३. अनुसूची १२: अर्जिस्त (याज)	79
४४. अनुसूची १३: अन्य विविध आय	80
४५. अनुसूची १४: स्थापना व्यय	81
४६. अनुसूची १४- ए: कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ	83
४७. अनुसूची १५: शैक्षणिक व्यय	84
४८. अनुसूची १६: पशासनिक व्यय	85
४९. अनुसूची १७: मरम्मत और रखरखाव	86
५०. अनुसूची १८: विविध व्यय	87
५१. अनुसूची १९: पूर्वअवधि व्यय	88

३१ मार्च २०१५ को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते की अनुसूचियाँ

५२. अनुसूची २०: महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	91
५३. अनुसूची २१: आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ	95

रसीदें और भुगतान खाता १ अप्रैल २०१४ से ३१ मार्च २०१५ तक

५४. रसीदें और भुगतान खाता १ अप्रैल २०१३ से ३१ मार्च २०१४ तक	101
५४. Yk k i j k d dk i f r o n u	107



आर्थिक चिट्ठा ३१.०३.२०१५ पर

कॉपस/पूँजी देयताएं और प्रावधान	अनुसूची सं.	२०१४ -१५ (₹)	२०१३ -१४ (₹)
कॉपस/पूँजी कोष	१	१,३०,०३,९०,२४	१,४,२०,२९,२८४
आरक्षण और अधिशेष	२	-	-
अक्षय-निधि/उद्दिष्ट कोष	३	५,२४,४५,११२	१५,०५,९२,२४०
वर्तमान प्रावधान और देयताएं	४	३,०३,३१,३५,७८०	२,७९,४६,८८,४६८
कुल		४,३८,५९,७०,९९६	४,३२,७३,०९,९९२

परिसंपत्ति	अनुसूची सं.	२०१४ -१५ (₹)	२०१३ -१४ (₹)
स्थायी परिसंपत्ति	५	२,२७,३५,०६,३७७	२,०८,५२,८६,७७६
निवेश-प्रावधान / देयताएं/अन्य कोष	६	५०,००,०००	-
वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	७	२,१०,७४,६४,५३९	२,२४,२०,२३,२१६
कुल		४,३८,५९,७०,९९६	४,३२,७३,०९,९९२

(ए.डी.ललहिमिडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



३१ मार्च, २०१५ वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

आय	अनुसूची सं.	२०१४-१५ (₹)	२०१३-१४ (₹)
रहित अनुदान/सहायिकी-प्राप्त	८	६०,६०,१७,७२१	५३,१३,०८,०७१
शैक्षणिक रसीद	९	५,३०,९०,६५३	३,६८,६८,७४४
निवेश से आय	१०	-	-
गैयल्टी और प्रकाशन से आय	११	-	४०,०५२
ब्याज अर्जित	१२	२,८१,८०,९२२	४,३८,३६,५४५
अन्य/ विविध ब्याज	१३	८४,४०,५२०	६२,१५,४४७
कुल (ए)		६९,५७,२९,८१६	६१,८२,६८,८५९
व्यय			
स्थापना व्यय	१४	९१,४५,३९,४५०	५०,३३,८१,६४४
शैक्षणिक व्यय	१५	५,४३,५८,००८	२,९६,५४,४६८
प्रशासनिक व्यय	१६	८,१०,६५,२७८	६,८०,८२,३८४
भरसमत एवं रखरखाव व्यय	१७	१,४८,४३,३७२	२,१०,२०,२९३
अन्य व्यय	१८	७,८२,५६९	८,०३,६७८
प्रारम्भिक व्यय	१९	-	२,३५,७७४
मूल्यहास	५	९७२४,६७२	९,०७,४५,८१०
कुल (बी)		१,१६,३१,१३,३४९	७१,३९,२४,०५१
अधिशेष शेष/(घाटा) (ए - बी)		(४६,७६,८३,५३३)	(९,५६,५५,१९२)
कॉर्पस/जमा पूँजी में स्थानांतरन			
महत्वपूर्ण लेखा नीति	२०		
आकस्मिक व्यय प्रावधान और ए/सी की टिप्पणियां	२१		

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(पो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी

३१ मार्च २०१५ तक तैयार आर्थिक चिद्ठा की अनुसूचियाँ



अनुसूची -१: पूंजी/ संचित निधि

(₹ में)

	२०१४ -१५	२०१३ -१४
अथ शेष	१,४८,२०,२९,२८४	१,२६,२२,५०,३४४.००
पूंजी व्यय के लिए उपयोग किया गया अनुदान	२८,५०,७५,२२८	३१,६६,५१,३३१.००
प्रायोजित परियोजनाओं से बनाया परिसम्पत्ति	८,४८,०६३	६,७०,६४४.००
उपहार में प्राप्त परिसम्पत्ति	१,२०,९८२	७,५४९.००
गत वर्ष चल परिसम्पत्ति में मूल्यह्रास किया गया	-	३,७४,३०६.००
कुल (ए)	१,७६,८०,७३,५५७	१,५७,९९,५४,१७४.००
कम:		
वर्ष २०१२-१३ में गलत वर्गीकरण के कारण अतिरिक्त ऋण	-	२२,६९,६९८
आय से व्यय में अधिकता, आय और व्यय खाता से स्थानान्तरित	४६,७६,८३,५३३	९,५६,५५,१९२
कुल (बी)	४६,७६,८३,५३३	९,७९,२४,८९०
शेष (ए - बी)	१,३०,०३,९०,०२४	१,४८,२०,२९,२८४

(ए.डी.ललहिमडिलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाइरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी




अनुसूची-३: निर्धारित/ बंदोबस्ती कोष

विवरण	कोष अनुसार ब्योरा (₹)					कुल (₹)	
	भवन निर्माण हेतु अगिम	मोटर साइकल/सकूटर अगिम	कम्प्यूटर अगिम	गोलदेन जुविली चैर	राजीव गांधी छात्रवृत्ति	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
	१	२	३	४	५	(१ से ४)	(१ से ५)
a) धन की अथ शेष	३,७७,३८,४६३	२६,७४,६९३	४७,५२,१५८	५४,२६,९२६	-४७,३५,६२२	५,०५,९२,२४०	४,९६,३५,६६३
b) अतिरिक्त फंडः	-	-	-	-	-	-	-
i. वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	-	-	-	२०,७३,१७९	२०,७३,१७९	-
ii. निवेश से प्राप्त आय से निर्मित कोष	-	-	-	-	-	-	२,०१,६७२
iii. एम.बी. खाता में ब्याज	२,४९,०६२	५४,१००	-	२,०४,३०८	-	५,०७,४७०	१,१९,२२१
iv. अन्य प्रोद्भूत ब्याज में अगिम	१२,०२,१२७	५१,८०२	९१,४७३	-	-	१३,४५,४०२	११,०६,७१७
कुल (ए + बी)	३,९१,८९,६५२	२७,८०,५९५	४८,४३,६३१	५६,३१,२३४	-२६,६२,४४३	५,२४,४५,११२	५,१०,६३,२७३
C) फंड के उद्देश्य के प्रति उपयोगिता/व्यय	-	-	-	-	-	-	-
i. पूँजी व्यय	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय	-	-	-	-	३४,०५,१२४	३४,०५,१२४	५४,४२,४३०
iii. कर्मचारियों को अगिम	-	-	-	-	-	-	-
कुल (सी)	-	-	-	-	३४,०५,१२४	३४,०५,१२४	५४,४२,४३०
समाप्त वर्ष पर निवल शेष (ए + बी - सी)	३,९१,८९,६५२	२७,८०,५९५	४८,४३,६३१	५६,३१,२३४	-६०,६७,५६७	५,२४,४५,११२	५,०५,९२,२४०

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची -४: वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(₹ में)

ए.	वर्तमान देयताएं	२०१४ -१५	२०१३ -१४
१	छात्रों द्वारा जमा	३९,८७,६४५	२६,५१,१६०
२	जमा अन्य	२२,३२,१५५	२,९३,९९१
३	सांविधिक देयताएं -अन्य (जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस - संतुलन शामिल है)	६४,९८२	११,६४,९४७
४	वस्तुओं के लिए फुटकर लेनदार	-	-
५	(क) समूह वचत लिंकड बीमा योजना (जी.एस.एल.आई.एस.)	२,४००	५१,९८४
	(ख) चालू प्रायोजित परियोजनाओं के विरुद्ध प्राप्तियां	८,४४,६८,२०४	७,९२,५३,४४१
	(ग) छात्रवृत्ति के विरुद्ध प्राप्तियां	१,१४,५४,१५०	८९,९९,९१४
	(घ) संगोष्ठी व कार्यशाला से प्राप्तियां	९,९८,४९७	८,००,४३१
	(ङ) अनुपयोग भारत सरकार अनुदान	२,७७,३८,८००	२,७०,६९,०००
	(च) अनुपयोग अनुदान (यूजीसी)	१,०१,०८,०५,५४९	१,२४,९९,६५,४३२
	(छ) अनुपयोग गैर योजना अनुदान	७,४५,४१,४०५	१०,१५,९८,२५४
	(ज) अन्य कोष	१८,०७,७१,७६१	१५,५४,८६,७१६
	(झ) कर्मचारियों से वसूल	५६,६४,०३२	५१,६५,३३४
	(ञ) अन्य अनुदान	२,११,७६,९३५	१,५८,०६,९३५
	(ट) व्यय के लिए उल्टा देयता	१३,७२,८६९	४,३२,६५७
	(ठ) अन्य		
	(i) वृत्तिक/किताब अनुदान/छात्रवृत्ति	२७,२००	१,९२,३७५
	(ii) वेतन	३,००,७२,५६९	२,७५,७१,२२९
	कुल (ए):		१,४५,५३,८०,१५३
बी.	प्रावधान		
	उपदान के लिए प्रावधान	१३,६८,७१,९२१	११,२७,१९,६१०
	छुट्टी अधिनकद के लिए प्रावधान	१७,४७,४४,२६५	१०,६८,१८,५९३
	पेंशन के लिए प्रावधान	१,२६,६१,३९,४४१	८९,८६,४६,४६८
	कुल (बी):	१,५७,७७,५५,६२७	१,११,८१,८४,६७१
	कुल (ए + बी)	३,०३,३१,३५,७८०	२,७९,४६,८८,४६८

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोई आ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी

अनुसूची-५: अचल संपत्ति और मूल्य हास ३१.०३.२०१५

ए. विवरण	गंगा बलक (₹)		गुल्युब्राम (₹)		नेट बलक (₹)	
	अथ वर्ष में लागत/मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़ाव	अंत वर्ष में लागत/मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान अंत वर्ष के अंत में	वर्ष के अंत में कुल
1. भूमि	२१,९४,६४,८५०		२१,९४,६४,८५०		२१,९४,६४,८५०	२१,९४,६४,८५०
2. भवन	९१,१८,८७,५५५		९६,६५,२६,८५९		७,४७,२६,९८९	९९,६३,६३,८६६
3. मंडक, पुलिया आदि	१०,५७,१३,८८७		१२,२३,०३,३६७		१,४२,२२,५८९	१०,५९,६६,५०१
4. मॉबैल एवं इन्टेल	३३,३४,१९०		३६,५३,२७०		५३,२३८	१,२१,३२२
5. जनपदाय व संयम	७,८१,९६,८३०		७,८५,६७,०८०		३८,१८,११४	५३,८६,९०३
6. संयम और मशीन	१७,४४,५७०		२१,७९,४०५		१,३०९	२,४३,२४३
7. विजली के अधिदान और उपकरण	७,८७,४५,९६३		८,३३,४०,८४४		१,५८,०३८	६,२९,८८,६६५
8. वैज्ञानिक व प्रयोगशाला उपकरण	२१,९३,९५,२९६		२४,७८,४७,१०८		४,२९,६५,७२७	१८,६३,२२,१८६
9. कार्यशाला उपकरण	२,०८,८५,९०२		२,१६,२३,५५१		७०,११,५७७	८४,९७,९५८
10. ऑडियो विडुअल उपकरण	१,८६,७२,९६०		५९		१३,८५३	३८,५३,४९६
11. फर्नीचर स्थिरता और फिटिंग	२,९८,२९,३८९		१३,९५,२३,९१९		५,००,५९,९५६	५,९८,३३,८०२
12. कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण	१६,८३,७१,३४७		१७,३८,१२,०८९		११,७५,७२,३६३	१३,५१,३२,१७१
13. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	२,००,०९,६७५		२,०२,४६,३५९		८८,४९,८३०	१,५०,९१,००९
14. शेष उपकरण	२८,७३,०९५		२८,७३,०९५		४,८४,९१४	६,९५,०७१
						२१,७८,०२४

ए. विवरण	ग्रीस बलक (₹)			मुल्यक्रम (₹)			नेट बलक (₹)		
	अद्य वर्ष में लागत/मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान घटाव	अद्य वर्ष में	पूर्व वर्ष में परिस्पष्टियां	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान घटाव/समायोजन	वर्तमान वर्ष के अंत में	पूर्व वर्ष के अंत में
15. वाहन	१,२४,०४,२५९			९६,४५,७८७	६,५३,७५९			१,०२,९९,५४६	२७,५८,४७२
16 पुस्तकालय पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	१८,१३,५१,२४६	१,८५,९७,१७७		१०,२९,९१,२३९	१,४९,३८,१७२	४,५४,५००		११,८३,८३,९११	७,८३,६०,००७
17. अस्थाई निर्माण		३०,०००				२१,६७२		२१,६७२	८,३२८
कुल (ए)	२,१७,२८,८१,०१४	१४,०२,२२,७७४		४३,२६,७६,३८८	९,४९,०७,१९९	२९,१७,४७३		५३,०५,०१,०६०	१,७४,०२,०४,२२६
(बी) पूंजी कार्य में प्रगति	३८,५०,८२,१५०	१७,०५,९६,०४१	२,४७,७४,५४२					४९,०९,०३,६४९	३४,५०,८२,१५०
कुल (ए + बी)	२,५६,७९,६३,१६४	३१,०८,१८,८१५	२,४७,७४,५४२	४३,२६,७६,३८८	९,४९,०७,१९९	२९,१७,४७३		५३,०५,०१,०६०	२,०८,५२,८६,७७६
									९,७८,२४,६७२

स्रोत: स्थायी संपत्ति फंजीशन

नोट:

- वर्ष के दौरान जुड़ाव योजना निधि उपहार में आस्तियां नैर योजना निधि प्रायोजित परियोजनाएं कुल

(₹ में)

: २६,१७,१२,२७८

: १,२०,९८२

: २,३३,६२,९५०

: ८,४८,०६३

: २८,६०,४४,२७३ (३१,०८,१८,८१५-२,४७,७४,५४२)

Shirish

(ए.डी.ललदिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

[Signature]

(जाइरममंडा पतुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

Sanjela

(पी.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-६: निर्धारित/ बंदोबस्ती/ अन्य कोष से निवेश

(₹ में)

बंदोबस्ती धन से निवेश	२०१४ -१५	२०१३ -१४
वृत्तिदान निधि- बैंको में सावधि जमा		
निवेश - स्वर्ण जयंती अध्यक्षता (इतिहास विभाग)	५०,००,०००	शून्य
शुद्ध शेष	५०,००,०००	शून्य

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-७: वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम

(₹ में)

	२०१४ -१५	२०१३ -१४
वर्तमान आस्तियां:	-	-
१. आविष्कारी	३९,१०,०९७	२२,३०,११७
२. कैश और बैंक शेष	-	-
i) कैश अग्रदाय सहित	१०,५८,८५६	२,४१,८१७
ii) चेक और ड्राफ्ट	-	-
iii) डाक	९७,१५३	३७,०७५
अनुसूचित बैंक में शेष	-	-
चालू खाते में	४८,०२,५३१	७,१५,१०,९१६
अनुसूचित बैंक में शेष	-	-
वचत खाते में	३४,०१,४५,४८५	२९,३८,३७,४०६
अनुसूचित बैंक में शेष	-	-
जमा सावधि में	६५,८६,६८,२८९	८०,१३,६२,९६२
कुल (ए)	१,००,८६,८२,४११	१,१६,९२,२०,२९३

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(पो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



(₹ में)

विवरण और अग्रिम:	२०१४ -१५	२०१३ -१४
१. जमाराशि	३,९९,८१८	३,४५,४४८
२. ब्याज प्रोदभूत निर्धारित/बंदोवस्ती के निवेश/जी.जे.सी. के अग्रिम के कारण नहीं	३८,४२५	-
३. ब्याज प्रोदभूत लेकिन देय ब्याज का असर कर्मचारियों के अग्रिम पर नहीं		
(i) ब्याज प्रोदभूत लेकिन एच.वी.ए. के नहीं	१,४२,२४,६६८	१,३२,७२,२६१
(ii) ब्याज प्रोदभूत लेकिन मोटर कार/मोटर साइकिल अग्रिम के नहीं	३,१०,५९५	२,८६,६०९
(iii) ब्याज प्रोदभूत लेकिन कम्प्यूटर अग्रिम के नहीं	१६,९०,६१२	१६,८३,४६०
४. ब्याज प्रोदभूत लेकिन सावधि जमाओं के नहीं	१,६५,८२,१७३	३,८९,६५,८१२
५. अग्रिम		
(i) ब्याज कर्मचारियों अग्रिम का असर	१,३३,७२,४८०	१,१८,७८,५३५
(ii) गैर ब्याज कर्मचारियों अग्रिम का असर	५,००,०६,२३६	५,१४,२१,९२०
(iii) अग्रिम पूंजी के ए/सी	८७,८७,०५,९३२	८३
(iv) अन्य :		
शैक्षणिक और अन्य अग्रिम	१,२३,८७,८२८	१,०२,३५,३१९
परियोजना समन्वयकों को अग्रिम	१,७१,२२,९६६	९९,९०,७५०
यूजीसी से गैर योजना अनुदान प्राप्तियों	७,७३,८८,०००	६,८६,७८,०००
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से वसुली	२२,३०,८००	२२,३०,८००
प्रायोजक परियोजना से वासुली	२६,२१,१९२	८,५३,४००
सीएसआईआर (नेट छात्रवृत्ति) से वसुली	-	७,९१,२६९
स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (मैट्रिक) से वसुली	५०,०१६	५०,०१६
यूजीसी से वसुली (योग्यता छात्रवृत्ति)	४१,६९,३२७	३६,४८,४८७
यूजीसी से वसुली (नेट छात्रवृत्ति)	-	९७,१६,९५९
यूजीसी से वसुली अनुसंधान अनुदान (जेआरएफ/एसआरएफ)	-	६२,०६,६२४
यूजीसी राजीव गांधी छात्रवृत्ति अनुदान से प्राप्य	६०,६७,५६७	४७,३५,६२२
वार्षिक रखरखाव अनुबंध (अगले साल)	१३,४८३	-
अकादमिक स्टाफ कॉलेज से वसुली	१६,००,०००	-
कुल (बी)	१,०९,८७,८२,१२८	१,०७,२८,०२,९२३
कुल (ए + बी)	२,१०,७४,६४,५३९	२,२४,२०,२३,२१६

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी

३१ मार्च, २०१५ को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता की अनुसूचियाँ

अनुसूची-८: अनुदान/ सव्बिडी (प्राप्त स्थिर और सव्बिडी)

(₹ में)

विवरण	योजना		यूजीसी गैर योजना		वर्तमान वर्ष कुल	पूर्व वर्ष कुल
	भारत सरकार	यूजीसी	यूजीसी	यूजीसी		
अथ शेष (१.०४.१४)	२,७०,६९,०००.००	१,२४,९९,६५,४३१	१०,१५,९८,२५४		१,३७,८६,३२,६८५	१,५६,८९,१२,०६५.००
शामिल करें: वर्ष के दौरान रसीद						
शामिल करें: समायोजन	६,६९,८००	२८,०९,८५,०००	४५,०६,३८,०००		७३,२२,९२,८००	७२,६२,४१,०००.००
शामिल करें: निवेश में ब्याज	-	-	-		-	८९,४३,०००.००
कुल :	-	५,२७,४७,०९५	-		५,२७,४७,०९५	५,७६,०६,६५८.८६
कम: पीयूसी प्रेषण (ए)	२,७७,३८,८००.००	१,५८,३६,९७,४४६	५५,२२,३६,२५४		२,९६,३६,७२,५००	२,३६,१७,०२,८२३.८३
संतुलन	-	३,७९,१०,१८४	१२,९८,६१,९२४		१५,९४,९३,७९८	१३,५१,१०,७३६.००
कम: पूंजी व्यय के लिए उपयोग (ए)	२,७७,३८,८००.००	१,५४,६०,६५,५७२	४३,०३,७४,३३०		२,००,४९,७८,७०२	२,२२,६५,९२,०८७.८६
संतुलन	-	२६,१७,१२,२७८	२,३३,६२,९५०		२८,५०,७५,२२८	३१,६६,५१,३३१.००
कम: राजस्व व्यय के लिए उपयोग (बी)	२,७७,३८,८००.००	१,२८,४३,५३,२९४	४०,७०,११,३८०		१,७६,५२,४३,९५४	१,९०,९९,४०,७५६.*६
शेष सी/एफ, अनुपयोग (सी):	-	२७,३५,४७,७४६	३३,२४,६९,९७५		६०,६०,१७,७२१	५३,१३,०८,०७१.००

- ए. - वर्ष के दौरान पूंजी कोष में जुड़ाव और स्थायी परिसंपत्ति में जुड़ाव को प्रकाशित करता है।
 बी. - आय और व्यय खाते में आय के रूप में प्रकट होता है।
 सी. - I) बैलेंस शीट में वर्तमान देयताएं के तहत प्रकट होता है और अगले वर्ष अथ संतुलन बन जाएगा।
 - II) परिसंपत्तियों के पक्ष में बैंक शेष, अग्रिम और निवेश इसका प्रतिनिधित्व करता है।

नोटः

- वर्ष के दौरान गैर योजना अनुदान की प्राप्ति में ₹ ७,७३,८८,०००/- शामिल है जो मार्च २०१५ को संस्वीकृत हुआ और अप्रैल २०१५, को चेक प्राप्त हुआ।
- फंड के निवेश पर व्याय ₹ १,३४,६६,१०७/- का ब्याज भी शामिल है।
- पूंजी खाते पर अग्रिम, बैंकों में सावधि जमा, बैंकों में वर्तमान शेष और बचत बैंक खाते द्वारा अप्रयुक्त योजना अनुदान प्रतिनिधित्व करता है।
अप्रयुक्त गैरयोजना अनुदान यूजीसी से प्राप्य अनुदान जो ३० मार्च, २०१५ में स्वीकृत हुआ। (अप्रैल २०१५ में प्राप्त हुआ)

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-९: शैक्षणिक प्राप्तियां

विवरण	२०१४ -१५ (₹)	२०१३ -१४ (₹)
छात्रों से शैक्षिक शुल्क		
शोध प्रबंध मूल्यांकन शुल्क	३०,८६०	-
परियोजना मूल्यांकन शुल्क	४३,७८०	७,०००
कुल	७४,६४०	७,०००
छात्रों से शैक्षिक शुल्क		
प्रवेश शुल्क	४,७४,६०५	३,४२,८००
पाठ्यक्रम शुल्क (अभियांत्रिकी व प्रबंधन)	७१,११,६५०	७३,८४,५५०
विभागीय कॉर्पस फंड (कम्प्यूटर अभियांत्रिकी)	३६,९००	-
विभागीय कॉर्पस फंड (ई.ई)	१५,०००	-
विभागीय कॉर्पस फंड (ई.सी.ई)	२५,०००	-
विभागीय कॉर्पस फंड (एफ.ई.ई.एस)	५,४३,३६५	४,३२,२००
विभागीय कॉर्पस फंड (आई.टी)	१०,०००	-
विभागीय कॉर्पस फंड (प्रबंधन)	९०,०००	-
विभागीय कॉर्पस फंड (जन संचार)	७९,०००	-
विभागीय कॉर्पस फंड (सामाजिक कार्य)	७५,०००	-
नामांकन शुल्क	४,८४,९४०	३,७१,३७०
प्रवेश परीक्षा शुल्क	२२,१५०	-
प्रयोगशाला शुल्क	१७,९२,१४०	१३,७८,४००
पुस्तकालय शुल्क	७,३९,३४०	५,८९,४७०
व्यावहारिक शुल्क	५,६०,७७५	४,००,८०४
पंजीकरण शुल्क	१२,६०,३५०	१०,२३,१५०
शिक्षण शुल्क	४४,३२,८४१	३३,६४,१४५
कुल	१,७७,५३,०५६	१,५२,८६,८८९

छात्रों से परीक्षा शुल्क		
i श्रेण-प= शुल्क	३,१२,४४०	२,४७,७५९
ii श्रेण-प= शुल्क	७,९९,५१०	६,३७,२५०
परीक्षा शुल्क (वार्षिक / सेमेस्टर)	२,५३,६९,१४१	१,४३,१४,४५७
अंक प= शुल्क	११,४५,७५०	६,६८,९१०
पुनर्मूल्यांकन शुल्क	२,७५,२२०	४,१९,८५०
पुनः जांच शुल्क	१,०९,५६०	१,१२,५८०
कुल	२,८०,११,६२१	१,६४,००,८०६



विवरण	२०१४ -१५ (₹)	२०१३ -१४ (₹)
छात्रों से आय शुल्क		
संब) ता शुल्क	५६०	१०,०००
पूर्व छात्रों की फीस	१,१३,०००	-
छात्रावासी के लिए बस किराया	७५०	-
छात्रों से बस किराया	१६,०८,१०५	१३,५८,३९१
दीर्घकालित समारोह शुल्क	४,५६,३६०	५५,७५०
स्थापना शुल्क (छात्रावासों के लिए)	६४,०००	७१,०००
छात्रावास / छात्रों के गैर हाउस शुल्क	१९,२५,४९६	१५,८७,९७९
पहचान-पत्र शुल्क	७७,३००	४६,९९५
चिकित्सा शुल्क	६,०१,७५५	४,६०,४२०
स्थानांतरण शुल्क	१,५३,२९०	९९,५७०
विविध शुल्क	३३,४७०	६,१५०
ठोड़ा शुल्क	६,३६,०३०	४,३०,०००
जल / विद्युत शुल्क (छात्रावासों के लिए)	३,९९,३२०	३,५९,६८०
कुल	६०,६९,४३६	४४,८५,९३५

आवेदन पत्र / विवरणिका की बिछी		
आवेदन पत्रों का मूल्य	२,१९,१४०	१,०९,३३०
विवरणिका का मूल्य	४,८७,३००	३,९०,३०५
कुल	७,०६,४४०	४,९९,६३५

कॉलेजों से फीस		
कॉलेजों से संब) ता शुल्क	४,७५,४६०	१,८८,४८०
कुल	४,७५,४६०	१,८८,४८०
अनुसूची योग	५,३०,९०,६५३	३,६८,६८,७४४

(ए.डी.ललहिमडिलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-१०: निवेश से आय

विवरण	निधारित / बंदोबती कोष से निवेश		निवेश - अर्थ	
	चालू वर्ष	पछिले वर्ष	चालू वर्ष	पछिले वर्ष
१) धाज	-	-	-	-
ए) सरकारी परतभृतियों पर	-	-	-	-
बी) बॉन्ड / ऋणपत्रों पर	-	-	-	-
सी) मीयादी जमा पर	-	-	-	-
2) अर्थ- बचत खाते पर ब्याज	५,०७,४७०	-	-	-
	-	-	-	-
निधारित / बंदोबती कोष में स्थानांतरित	५,०७,४७०	-	-	-
	-	-	-	-
संतुलन	-	-	-	-

* आय एवं अर्थ खाता में स्थानांतरित

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-११ : रॉयल्टी और प्रकाशन से आय

विवरण	२०१४ -१५ (₹)	२०१३ -१४ (₹)
रॉयल्टी से आय	-	४०,०५२
प्रकाशन की बिडों से आय	-	-
सूचना / परलेखन सेवाएँ	-	-
कुल	-	४०,०५२

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाइरिममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-१२: अर्जित ब्याज

विवरण	२०१४ -१५ (₹)	२०१३ -१४ (₹)
बैंक बचत / जमाराशि पर अर्जित ब्याज		
अकेडेमिक स्टाफ कॉलेज पर अर्जित ब्याज	१,७७,८६२	९१,२७१
विभगीय परियोजनाओं पर अर्जित ब्याज	२१,४४,२५२	२१,२९,६१८
गैर योजना बचत खाते पर अर्जित ब्याज	५६,८४,६५७	५०,०७,२०२
योजना बचत खाते पर अर्जित ब्याज	५७,१६,७१०	९२,१९,११७
कोष निधि खाते बचत खाते पर अर्जित ब्याज	१,१४,६७८	१४,५७,९८२
बचत कोष / अन्य कोष निधि खाते पर अर्जित ब्याज	१,३३,५९६	१,४८,८५,८४६
आंतरिक रिकॉर्ड जमा पर अर्जित ब्याज	१,३१,२९,०१४	८९,६५,१०४
कोष निधि जमा पर अर्जित ब्याज	-	८,५५,६९३
जी.जे.सी. कोष जमा पर अर्जित ब्याज	३८,४२५	-
प्रायोजित परियोजना जमा पर अर्जित ब्याज	१,०४१,७२८	१२,२४,७११
ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज		
मोटर कार पर अर्जित ब्याज	-	-
बैंक बचत / जमाराशि (पीयूसी) पर अर्जित ब्याज		
अर्जित ब्याज (पीयूसी)	-	-
अनुसूचित कुल	२,८१,८०,९२२	४,३८,३६,५४५

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-१३: अन्य / विविध आय

विवरण	२०१४ -१५ (₹)	२०१३ -१४ (₹)
दूसरों से बस किराया (बाहरी)	१,३९,७२७	९,९००
कर्मचारियों से बस किराया	१७,६०,९५०	५,९०,३५०
केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला शुल्क	४६,९१०	५,६२५
आवेदन पत्रों की लागत (भती)	३,३३,७५५	५१,०८०
पत्र बिजली शुल्क	७,६३,१३६	५,९९,२६९
कर्मचारियों से पहचान पत्र से पत्र शुल्क	३,३२०	१,६८०
पत्र संस्था शुल्क / बॉर्डर क शुल्क	२४,०१०	४६,५१३
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	२५,५६,८७१	१२,७५,७२९
लाइसेंस शुल्क - अधि आय	४,५०,९४०	२,८०,१५५
विविध बाहरी पत्र; ka	२७,२६२	१८,२१,९४६
विविध आय	५,१८,७९८	१,१५,०८७
विविध आंतरिक प्राप्तियां एमजेड्यू	१,३८,०४०	३,१३,४५२
भागीदारी शुल्क	७२,९५५	६९,३७०
फोटोकॉपी शुल्क i Mr	५१,६२९	७२,९०६
डाक और सौंपन शुल्क (एएससी)	६०	१२०
डाक और सौंपन शुल्क (प्रायोजन)	२,१००	९६०
डाक और सौंपन शुल्क (गैरयोजना)	१८,४८२	१७,६७०
डाक और सौंपन शुल्क (योजना)	८,२२०	८,३४०
एमजेड्यू गेट हाउस से आय	-	-
पुन'चयाZपाठ्यक्रम शुल्क (एएससी)	१२,८३,०००	-
पूर्वअवधि अगिनों से धन वापसी	-	७,२९,३७५
कैंटीन / दुकानों से किराया	१८,५००	१७,५००
बैंक से आवास हेतु किराये	८९,०००	६०,०००
आरटीआई एडिट से पत्र शुल्क	४,१०५	२,३३४
परिष्कार की सदस्यता से पत्र	-	१३,१७५
विक्री / स्वानित परिसंपत्ति के निपटान से लाभ	७१,२००	१९,८६२
जल से प्राप्त शुल्क	५७,५५०	९३,०००
कुल	८४,४०,५२०	६२,१५,४४७
अनुसूचित कुल	८४,४०,५२०	६२,१५,४४७

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-१४: स्थापना व्यय

विवरण	२०१४ -१५			२०१३ -१४ (₹)
	योजना (₹)	गैर-योजना (₹)	कुल (₹)	
बोनस	-	-	-	९,५६,७५८
सी पी एफ – एम जेड यू का योगदान	-	१,९८,६८९	१,९८,६८९	२,२७,८२८
बाल शिक्षा भत्ते	१३,७७,११६	२८,५७,४९७	४२,३४,३१३	३२,७४,८७४
गैर कर्मचारियों को मानदेय	-	-	-	१५,०००
कर्मचारियों को मानदेय (एएससी)	-	-	-	१२,०००
कर्मचारियों को मानदेय	२,०००	३२,७००	३४,७००	८९,१००
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	१,७८,०९३	१,७८,०९३	७,०४,९००
अवकाश यात्रा रियायत	१३,३८,९२१	२०,९९,८०७	३८,३८,७२८	३८,२९,५७७
एल.टी.सी. - नकदीकरण अवकाश	६,११,९०८	१३,२६,४४०	१९,३८,३४८	९,५७,३४२
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	४३,६९,७४३	८५,८१,९५०	१,२९,५१,६९३	१,०३,८०,३४६
पेंशनरों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	१,९१,१५३	१,९१,१५३	१४,६९०
स्थायी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति	६०,८५४	-	६०,८५४	११,७०,००८
एन.पी.एस – एम जेड यू योगदान	९५,८८,५९१	८१,०३,९९८	१,७६,९२,५८९	१,६४,०१,८१५
एनपीएस टाइम-इ ब्याज	-	-	-	३,७६,०६५
समयोपरि ड्राइवरों के वेतन	-	४१,७४२	४१,७४२	४४,६८१
समयोपरि नॉन ड्राइवरों के वेतन (गैर योजना)	१३,०९३	५९,२८०	७२,३७३	३९,३१८

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४ (₹)
	योजना (₹)	गैर-योजना (₹)	कुल (₹)	
वेतन (ओ एस एल)	२१,७६,१८८	४,७८,०६०	२६,५४,२४८	२,४३,२२,१५२
गैर-शिक्षक कर्मचारियों के वेतन - एएससी	५१,७०,६३७	-	५१,७०,६३७	४०,१२२६७
गैर- शिक्षक कर्मचारियों के वेतन	६,१९,१०,६०२	८,५२,०९,६१२	१४,७१,२०,२१४	१२,३५,९५,८०९
शिक्षण कर्मचारियों की वेतन	८,५१,२०,३३१	१३,०५,६७,४८८	२१,५६,८७,८१९	१८,२७,६०,०३८
अस्थायी कर्मचारियों का वेतन	१,५६,३३,३८८	-	१,५६,३३,३८८	१,४४,७६,७५४
शिक्षण कर्मचारियों की वेतन- एएससी	१०,७२,६१८	-	१०,७२,६१८	-
कुल	१८,८४,४५,९९०	२३,९९,२६,५०९	४२,८३,७२,४९९	३८,७६,६१,३२२
चिकित्सा प्रतिपूर्ति- ए.एस.सी	१,८०,७६३	-	१,८०,७६३	४२,६५२
बाल शिक्षा भत्ते - एएससी	४०,४७०	-	४०,४७०	-
एल.टी.सी. - नकदीकरण अवकाश - एएससी (योजना)	७,०४५	-	७,०४५	-
अवकाश यात्रा रियायत - एएससी (योजना)	१,२४,५४४	-	१,२४,५४४	--
एन.पी.एस. नियोक्ता का योगदान (एएससी)	३,३८,३६६	-	३,३८,३६६	-
कर्मचारी सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ	-	४८,५४,७५,७६३	४८,५४,७५,७६३	११,५६,७७,६७०
कुल	६,९१,१८८	४८,५४,७५,७६३	४८,६१,६६,९५१	११,५७,२०,३६६
अनुसूचित कुल	१८,९१,३७,१७८	७२,५४,०२,२७२	९१,४५,३९,४५०	५०,३३,८१,६४४

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-१४ ए: कर्मचारी सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ

ए.	उपहार	पेंशन	नकदीकरण अवकाश	कुल
शेष राशि उद्घाटन	११,२७,१९,६१०	८९,८६,४६,४६८	१०,६८,१८,५९३	१,११,८१,८४,६७१
योगदान के कैपिटलाइज्ड मूल्य	-	-	-	-
अन्य संगठनों से प्राप्त	-	-	-	-
कुल	११,२७,१९,६१०	८९,८६,४६,४६८	१०,६८,१८,५९३	१,११,८१,८४,६७१
कम: वर्ष २०१४-१५ के दौरान वास्तविक भुगतान	५३,०८,०४७	१,७२,२९,८२४	३३,६६,९३६	२,५९,०४,८०७
उपलब्ध शेष राशि ३१.३.२०१५ पर	१०,७४,११,५६३	८८,१४,१६६,४४४	१०,३४,५१,६५७	१,०९,२२,७९,८६४
आवश्यक प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार ३१.३.२०१५ पर	१३,६८,७१,९२१	१,२६,६१,३९,४४१	१७,४७,४४,२६५	१,५७,७७,५५,६२७
२०१४-१५ के लिए बनाया प्रावधान	२,९४,६०,३५८	३८,४७,२२,७९७	७,१२,९२,६०८	४८,५४,७५,७६३
बी. नया आवास योजना में अंशदान	-	-	-	-
सी. सेवानिवृत्ति पर गृहनगर के लिए यात्रा	-	-	-	-
डी. निक्षेप बीमा भुगतान	-	-	-	-
कुल (ए + बी + सी+ डी)	२,९४,६०,३५८	३८,४७,२२,७९७	७,१२,९२,६०८	४८,५४,७५,७६३

₹ ४४,५४,७५,७६३/- का आंकड़ा - प्रधान सेवा निवृत्ति लाभ १४ अनुसूची के अंतर्गत दिखाई देगा।

₹ १,५७,७७,५५,६२७/- का आंकड़ा - प्रावधान- बी के अंतर्गत वर्तमान देयताओं और प्रावधान में दिखाई देगा (₹ १३,६८,७१,९२१+ ₹ १,२६,६१,३९,४४१+ ₹ ७,४७,४४,२६५)

(ए.डी.ललहिमडिलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-१५: शैक्षिक व्यय

विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४ (₹)
	योजना (₹)	गैर-योजना (₹)	कुल (₹)	
केन्द्रीय विद्यालय (राजस्व)	१,२३,११,९९७	-	१,२३,११,९९७	-
विजिटिंग प्रोफेसर/ अध्येताओं-विलय योजनाएं	५५,७८,०००	-	५५,७८,०००	३०,९९,५००
एम जेड यू / यूजीसी अनुसंधान अध्येतावृत्ति व्यय	१,२४,२१,८११	-	१,२४,२१,८११	७४,३८,९२३
प्रकाशन व्यय	१,३०,०००	-	१,३०,०००	१,४४,५००
साहसिक खेल - विलय योजना (पी)	-	-	-	-
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए सेवा में प्रवेश के लिए कोचिंग	-	-	-	-
संकाय सुधार कार्यक्रम विलय योजना	-	-	-	-
मूल्यांकन शुल्क व्यय - योजना	१,००,०००	-	१,००,०००	-
विशेष सहायता के साथ उच्चतर शिक्षा (जिनको जरूरत हो)	१३,५००	-	१३,५००	४५,०००
अभिविन्यास पाठ्यक्रम व्यय - एएससी	१०,१२,९३९	-	१०,१२,९३९	५,०४,६५४
बैठकों के लिए टीए / डीए - ए एस सी (योजना)	४७,०००	-	४७,०००	-
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम व्यय- ए एस सी	२७,९२,८५१	-	२७,९२,८५१	१५,४३,९०७
छात्रवृत्ति और वजीफा	-	-	-	-
प्रयोगशाला व्यय - उपभोज्य	-	४,६५,३९६	४,६५,३९६	१६,३३,८१८
प्रयोगशाला व्यय	-	६९,२७६	६९,२७६	४,०४०
शिक्षण सहायता और अनुदेश सामग्री	-	२०,१९६	२०,१९६	-
शिक्षण सहायता - विशेष लेखन सामग्री	-	-	-	७,२००
अन्य परीक्षा व्यय	-	१,११,३१,९८१	१,११,३१,९८१	८५,७६,३५३
अन्य प्रवेश परीक्षा व्यय	६४,७३७	-	६४,७३७	५२,८११
परीक्षा के फार्म की छपाई	-	५२,५००	५२,५००	३०,६५,०००
परीक्षा की लेखन सामग्री की छपाई	-	३५,४९,६६८	३५,४९,६६८	-
परीक्षकों को पारिश्रमिक	-	-	-	-
टी.ए - परीक्षकों	-	१,८००	१,८००	२५,१६१
कल्याण व्यय-अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां	-	३,०००	३,०००	६,९०,९८७
अध्ययन यात्रा	-	२२,२७,०१८	२२,२७,०१८	१६,८०,५६२
अध्ययन यात्रा [सामान्य विद्यार्थियों]	-	५,४४,०२१	५,४४,०२१	९,६८,६२२



अध्ययन यात्रा [सामान्य विद्यार्थियों] प्रबंधन	-	-	-	१२,०००
दीक्षांत समारोह व्यय - राजस्व	-	३,२८,२१९	३,२८,२१९	-
अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बैठक व्यय	-	-	-	-
कॉलेज निरीक्षण दल व्यय	-	१,१४,२७८	१,१४,२७८	३,७२८
संकाय विकास कार्यक्रम (डीएयूईएनएम)	-	-	-	५०,०००
क्षेत्र कार्य और अनुसंधान (डीएयूईएनएम)	-	-	-	८०,०००
विजिटिंग फैकल्टी (डीएयूईएनएम)	-	-	-	२७,७०४
संगोष्ठी / कार्यशाला / संगोष्ठी आदि	१२,५९,७६०	-	१२,५९,७६०	-
लाइब्रेरी पुरस्कार व्यय	-	१०,०००	१०,०००	-
फीस की वापसी आदि	-	१,०८,०६०	१,०८,०६०	-
कुल	३,५७,३२,५९५	१,८६,२५,४१३	५,४३,५८,००८	२,९६,५४,४६८
अनुसूचित कुल	३,५७,३२,५९५	१,८६,२५,४१३	५,४३,५८,००८	२,९६,५४,४६८

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी

अनुसूची - १६ : प्रशासनिक व्यय

विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४ (₹)
	योजना (₹)	गैर-योजना (₹)	कुल (₹)	
बैंक शुल्क - एएससी	३८४	-	३८४	९८०
पेशेवर प्रभारी (एएससी)	२५,०००	-	२५,०००	६५,०००
बिजली प्रभार	१०,००,०००	३७,६१,३६३	४७६१,३६३	४०,७९,९४४
जेनेरेटर व्यय	५,९५०	-	५,९५०	७५,६००
वाहनों के किराये	१,३२,५५,१७५	६१,५४८,४८	१,९४,१०,०२३	१,३१,०८,३९४
पेट्रोल, तेल और स्नेहक	-	५८,६३,६०७	५८,३,६०७	१७,६२,०४९
किराये, दर और कर	-	-	-	३६,०००
जल शुल्क	८२,४२,२६२	२८,६५,७००	१,११,०७,९६२	८५,३२,३९६
आवास और आतिथ्य व्यय	-	२२,०७,५०४	२२,०७,५०४	२३,९७,४७३
विज्ञापन एवं प्रचार	५,००,०००	४४,५,६७५	९,४५,६७५	२,१४,८६३
लेखा परीक्षा शुल्क / लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	-	१५,०००	१५,०००	-
बैंक शुल्क	३८,४५१	४८,८७७	८७,३२८	७९,७३१
बैंक शुल्क - यू.वी.आई. द्वारा प्रायोजित परियोजना	-	५,२६७	५,२६७	११,३७४
बैंक शुल्क - विभागीय परियोजना	-	६००	६००	-
बैंक शुल्क - कोपर्स फंड	-	१३८	१३८	११२
बैंक शुल्क - आंतरिक रसीद	-	९,४२४	९,४२४	५४,१६६
बाइंडिंग शुल्क	८००	३१,९००	३२,७००	-
उपभोग्य	-	१२,४५,५१०	१२,४५,५१०	१७,८४,३८१
पर्दा	१,७५,२००	१०,१६,१००	११,९१,३००	६९,१५०
अगदाय रूपये व्यय	-	२१,३१,७४६	२१,३१,७४६	३३,५०,६७६
अगदाय रूपये व्यय - एएससी	१९,८८०	-	१९,८८०	१,१७,७००
कानूनी फीस / कोर्ट फीस व्यय	-	३,७०,०००	३,७०,०००	३,५७,९२२
स्थानीय वाहन	-	८५,२८२	८५,२८२	३,२००
बैठक व्यय [नॉन-अकैडमिक] (गैर योजना)	-	१,२१,७५३	१,२१,७५३	३,१४,४२२



विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४ (₹)
	योजना (₹)	गैर-योजना (₹)	कुल (₹)	
बैठक व्यय	-	-	-	७,४८,६४८
विविध प्रशासनिक व्यय	-	५,१३,४६८	५,१३,४६८	१२,१८,९७२
समाचार पत्रों और पत्रिकाओं	-	५,१९,६२२	५,१९,६२२	३,१९,७१२
गैर-उपभोग्य	-	१,५१,९०६	१,५१,९०६	८,३३,७४३
अन्य प्रभार / आकस्मिकताओं	-	१२,०९,०८४	१२,०९,०८४	१३,३४,७१५
मुद्रण प्रभार - गैर कीमत	-	४,९४,४४०	४,९४,४४०	३,९५,७७५
लेखन सामग्री [उपभोग]	-	४३,०९,५९४	४३,०९,५९४	३१,९५,२२१
लेखन सामग्री - ए एस सी	-	-	-	८२,५३०
टी.ए- चिकित्सा	१,८८,३५४	१७,५१,३०७	२९,३९,६६१	१२,६९,९५९
टी.ए - अन्य [बाहर]	३४,८५,४६४	५,०९,६७६	३९,९५,१४०	३७,४४,८१३
टी.ए अन्य [आंतरिक]	-	८,४९,३६६	८,४९,३६६	२२,६४,४३४
टी.ए - अधिकारियों	-	२,१२,८७५	२,१२,८७५	६,६९,४३९
टी.ए - स्थानांतरण	-	-	-	११८,०००
यात्रा अनुदान	१२,८३,७६४	-	१२,८३,७६४	२४,२९,७७०
वेतन [रोज]	९२,२१,१५०	-	९२,२१,१५०	७२,३३,४७०
कार्यशाला /संगोष्ठी/सम्मेलन अन्य - ए एस सी	५,५२,६६१	-	५,५२,६६१	११४,०५२
वाहनों के व्यय - एएससी	९३,६००	-	९३,६००	-
इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रभार	-	३६,३२०	३६,३२०	७,७१८
डाक एवं तार	-	४२,८४२	४२,८४२	२,११,६६२
टेलीफोन व्यय	-	६,१६,८७८	६,१६,८७८	७,५०,५६६
केबल टी.वी. किराया	-	५८,०६०	५८,०६०	६७,६३०
दवाओं की लागत	-	२७,५०,५०६	२७,५०,५०६	२५,००,४७२
वृत्तिक शुल्क	-	२,१५,३६६	२,१५,३६६	७,०३,०९२
स्पेयर पार्ट्स	-	-	-	१५,४५९
खेल व्यय	-	१९,३२,००५	१९,३२,००५	१२,८६,५३१
कूड़ेदान - व्यय	-	२,२००	२,२००	-
प्रशिक्षण और संगोष्ठी शुल्क (प्रशासनिक)	-	२,२४,४८९	२,२४,४८९	१,५०,४७८
बीआईपी यात्रा व्यय	-	१,६२,८७९	१,६२,८७९	-

कुल	३,८०,८८,०९५	४,२९,७७,१८३	८,१०,६५,२७८	६,८०,८२,३८४
अनुसूचित कुल	३,८०,८८,०९५	४,२९,७७,१८३	८,१०,६५,२७८	६,८०,८२,३८४

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो. लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची - १७: मरम्मत और रखरखाव

विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४ (₹)
	योजना (₹)	गैर-योजना (₹)	कुल (₹)	
संरक्षण शुल्क	-	-	-	१,२०,०००
बागवानी रखरखाव	-	-	-	६,३८,६५४
इमारतों के अनुरक्षण- एस्टेट अनुरक्षण	१,०४,७४५	५,०७,६९९	६,१२,४४४	२३,७८,९५२
इमारतों के अनुरक्षण- अतिथिगृह	-	-	-	७७,९५६
इमारतों के अनुरक्षण- मरम्मत	१६,१३,५६७	२,३०,२२५	१८,४३,७९२	१३,२५,१५५
कंप्यूटर का अनुरक्षण	-	३,०९,२७५	३,०९,२७५	९८,५४०
विद्युत उपकरणों के रखरखाव	२४,३९,६५१	२७,४,५८४	२७,१४,२३५	३५,८६,८२४
मामूली कार्यों मरम्मत पर रखरखाव	-	-	-	११,२३,२४९
इमारतों और मरम्मत का अनुरक्षण- छात्रावास अनुरक्षण	-	३२,२००	३२,२००	१,८०,७३०
उपकरणों के रखरखाव	-	२,२७,०७३	२,२७,०७३	-
फर्नीचर का अनुरक्षण	-	१७,३००	१७,३००	४३,८४,७३९
अतिथिगृह का अनुरक्षण	३९,११५	-	३९,११५	४१,६६५
वाहनों के रखरखाव	३६,८५,९८०	-	३६,८५,९८०	६४०,४५०
फोटोकॉपियर का रखरखाव	-	१,३८,३१२	१,३८,३१२	-
यूपीएस आदि का रखरखाव	-	१,१३,०२३	१,१३,०२३	-
वाहनों के रखरखाव	-	१३,६७,४५२	१३,६७,४५२	१३,१२,६५५
जल आपूर्ति प्रणाली के रखरखाव	१,८३,९४१	३,५४०	१,८७,४८१	४४,३५०
मामूली कार्यों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	१४,३१,११०	१०,४४,२४४	२४,७५,३५४	३५,७४,४३०
मरम्मत एवं अनुरक्षण - ए एस सी	३,०९,२००	-	३,०९,२००	-
वार्षिक रखरखाव अनुबंध (इस वर्ष)	-	७,७१,१३६	७,७१,१३६	१४,८१,९४४
कुल	९८,०७,३०९	५०,३६,०६३	१,४८,४३,३७२	२,१०,२०,२९३
अनुसूचित कुल	९८,०७,३०९	५०३,६,०६३	१,४८,४३,३७२	२,१०,२०,२९३

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो. लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-१८: विविध व्यय

विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४ (₹)
	योजना (₹)	गैर-योजना (₹)	कुल (₹)	
समान अवसर प्रकोष्ठ - योजना	-	-	-	४४,०००
आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ विलय - योजना	३९,९००	-	३९,९००	६,१७,०४६
विविध बिजली उपकरण	-	-	-	९,२००
विविध आवर्ती खर्च (सेट)	२,२६,३३९	-	२,२६,३३९	६५,७६३
विविध उपकरण	-	-	-	१०,०००
अन्य विविध व्यय	-	-	-	३,७१२
बागवानी और सौंदर्यीकरण	५,१६,३३०	-	५,१६,३३०	-
राउंड ऑफ	-	-	-	-४३
कुल	७,८२,५६९	-	७,८२,५६९	८,०३,६७८
अनुसूचित कुल	७,८२,५६९	-	७,८२,५६९	८,०३,६७८

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-१९: पूर्व अवधि व्यय

विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४ (₹)
	योजना (₹)	गैर-योजना (₹)	कुल (₹)	
स्थापना व्यय - पूर्व अवधि	-	-	-	२,३५,७७४
कुल	-	-	-	२,३५,७७४

(ए.डी.ललहिसडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी

३१ मार्च, २०१५ को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते की अनुसूचियाँ



अनुसूची २०: उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

1. लेखा तैयार करने के आधार

खातों के मूल्य आम तौर पर ऐतिहासिक समझौते के तहत तैयार कर लेखांकन की प्रोदभवन पद्धति पर आधारित है जब तक अन्यथा न कहा गया हो।



2. राजस्व मान्यता

- 2.1 छात्रों से शुल्क, प्रवेश फार्मों की विक्री और वचत बैंक खाते पर ब्याज नकदी आधार पर हिसाब किया गया है।
- 2.2 भूमि भवन और अन्य संपत्ति और निवेश पर ब्याज आय से प्रोदभवन आधार पर किया गया है।
- 2.3 घर के निर्माण, वाहन और कंप्यूटर की खरीद के लिए कर्मचारियों को ब्याजीय अग्रिम पर ब्याज हर वर्ष प्रोदभवन आधार पर किया गया है। यद्यपि, ब्याज वसूली की शुरुआत मूल धन के पूर्ण भुगतान के बाद की गयी है।

3. अचल आस्तियाँ और मूल्यहास

- 1.1 अचल आस्तियों को अधिग्रहण कीमत पर दर्शाया गया है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण, स्थापना और कमीशन से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल है।
- 1.2 भेंट दान की संपत्ति का मूल्यांकन जहाँ उपलब्ध है घोषित मूल्य पर किया गया है यदि मूल्य उपलब्ध नहीं है तब उनका मूल्यांकन वर्तमान बाजार मूल्य और संपत्ति की भौतिक स्थिति के आधार का किया गया है। इनकी स्थापना पूँजीगत निधि को केंद्रित करके तथा विश्वविद्यालय की स्थायी सम्पत्ति में जोड़ कर किया गया है। संबंधित संपत्ति पर मूल्यहास लागू दर पर लगाया है।
- 1.3 तोहफे के रूप में प्राप्त किताबों का मूल्यांकन पुस्तकों पर मुद्रित विक्रय मूल्य पर किया गया है। जहां वे मुद्रित नहीं हैं उनका मूल्यांकन निर्धारण पर आधारित है।
- 1.4 अन्य पुस्तकालयी पुस्तकों पर १० % की दर पर मूल्यहास लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं (ई पत्रिकाओं) को, उनके सीमित लाभ के मद्देनजर, पुस्तकालयी पुस्तकों से अलग कर दिया गया है। हालांकि ई-पत्रिकाएँ मूर्त रूप में नहीं हैं, उनका व्यय कि अत्यधिक मात्रा तथा शैक्षणिक और अनुसंधान स्टाफ द्वारा अर्जित ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त लाभ को ध्यान में रखते हुए पूँजीकृत कर दिया गया है। ई पत्रिकाओं पर उच्च दर ४०% से मूल्यहास लगाया गया है जबकि अन्य पुस्तकालयी पुस्तकों पर १० % की दर पर मूल्यहास किया गया है।
- 3.5 सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर व्यय को कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों से अलग किया गया है, क्योंकि अमूर्त संपत्ति होने के अलावा इन के संबंध में अप्रचलित होने की दर बहुत अधिक है। सॉफ्टवेयर के संबंध में मूल्यहास को ४०% की उच्च दर पर किया गया है, जबकि कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों के संबंध में २० % की दर से मूल्यहास किया गया है।
- 3.6 अचल आस्तियों का मूल्यांकन लागत मूल्य में से कुल मूल्यहास को कम कर किया गया है। अचल संपत्ति पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है जो कि निम्नलिखित दर पर है :

1.	भूमि	0%
2.	साईट विकास	0%
3.	इमारत भवन	२%
4.	सड़क और पुल	२%
5.	ट्यूब/कुआं और जल आपूर्ति	२%
6.	सीवरेज और ड्रेनेज	२%
7.	विजली के अधिष्ठापन और उपकरण	५%
8.	संयंत्र और मशीन	५%
9.	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला के उपकरण	८%
10.	कार्यालय उपकरण	७.५%



11.	श्रव्य दृश्य उपकरण	७.५%
12.	कंप्यूटर और बाह्य उपकरण	२०%
13.	फर्नीचर, जुड़ना और फिटिंग	७.५%
14.	वाहन	१०%
15.	पुस्तकालयी पुस्तकें व वैज्ञानिक पत्रिकाएं	१०%
16.	ई पत्रिकाएं	४०%
17.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	४०%
18.	अन्य	१०%

- 1.7 वर्ष के दौरान जुड़े अतिरिक्त सम्पत्तियों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास काटा गया है।
- 1.8 यदि कोई परिसंपत्ति पूरी तरह से हासिल हो चुकी है तो उनका बैलेंस शीट में एक अवशिष्ट मूल्य रु 1 पर दर्शाया गया है तथा उन्हें पुनः मूल्यहासित नहीं किया गया है
- 1.9 निर्धारित धनराशि और प्रायोजित परियोजनाओं के धन से स्थापित संपत्तियों, जहां इस तरह की संपत्ति का स्वामित्व विश्वविद्यालय के पास है, की स्थापना पूंजीगत निधि को क्रेडिट करके तथा विश्वविद्यालय की स्थाई सम्पत्ति में जोड़कर किया गया है। संबंधित संपत्ति पर मूल्यहास लागू दर पर लगाया है।

4. निर्धारित धनराशि

निम्नलिखित लंबी कोष विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित किया गया। प्रत्येक धनराशि के पास अलग बैंक खाता है। जिनके पास बड़ी शेष राशि है वे सरकारी प्रतिभूतियों के साथ निवेश तथा डिबेंचरो और बांड रखते हैं और बैंक के साथ भी टर्म डिपॉजिट्स करते हैं। उपार्जित के आधार पर निवेश/अग्रिम (गृह निर्माण एवं वाहन) से प्राप्त आय और बचत बैंक खातों का भुगतान संबंधित कोष में जमा किया गया। व्यय निधि के लिए डेबिट किया जाता है। निर्धारित धनराशि से बनाई गई आस्तियों को विश्वविद्यालय की संपत्ति के साथ विलाय कर पूंजी कोष के लिए समान राशि क्रेडिट किया गया। संबंधित फंड के संतुलन अग्रसर किया गया और बैंक में संतुलन के पक्ष में प्रतिनिधित्व किया गया। निवेश और ब्याज (वर्तमान परिसंपत्तियां)

4.1 अग्रिम गृह निर्माण कोष

ब्याज का भुगतान को उद्देश्य में रखते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक रिवाल्विंग कोष।

4.2 वाहन अग्रिम कोष

मोटरकारों और दो पहिया वाहनों की खरीद के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक रिवाल्विंग कोष।

4.3 कम्प्यूटरअग्रिम कोष

कम्प्यूटर की खरीद के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक रिवाल्विंग कोष।

4.4 राजीव गांधी राष्ट्रीय फ़ैलोशिप कोष

विश्वविद्यालय के अनुसूचित जति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान कोष।

4.5 बंदोबस्ती कोष

बंदोबस्ती धन विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं से प्राप्त धन है, ट्रस्टों और अन्य संगठनों या विश्वविद्यालय के भीतर से कुर्सियां तथा पादक एवं पुरस्कार के स्थापना के लिए, दानदाताओं के निर्दिष्ट के द्वारा। प्रत्येक बंदोबस्ती धन के पास अपनी निवेश और बैंक खाता है।

प्रत्येक बंदोबस्ती धन के निवेश से प्राप्त आय को कोष में जोड़ा जाता है। बचत बैंक खाते के ब्याज को बंदोबस्ती धन में जोड़ा जाता है। कुर्सियां तथा पादक एवं पुरस्कार के व्यय को बंदोबस्ती धन में डेबिट किया गया और संतुलन को अग्रसारित किया गया। रहित संतुलन को भारतीय रिजर्व बैंक में निवेश तथा सावधि जमा और बचत खाता में संतुलन के द्वारा प्रतिनिधित्व करता है।



4.5.1 गोल्डन जुबली कुर्सी

आधुनिक भारतीय इतिहास में संस्कृति को विशेष संदर्भ में रखकर, समाज, मिज़ोरम और मिज़ोरम के आसपास के देशों बंगलादेश और म्यांमार सहित देशों के अर्थव्यवस्था को लेकर अनुसंधान करने का उद्देश्य बंदोवस्ती रखता है।

5. भंडार

रसायान, कांच के बने पदार्थ, प्रकाशन और अन्य सामान की खरीद पर व्यय के हिसाब को राजस्व व्यय के रूप में किया गया है।

6. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति लाभ यानि, पेंशन, ग्रेच्युटी तथा छुट्टी का नकदीकरण का नकदी आधार पर हिसाब किया गया है जिसका मूल्यांकन लंबित बीमांकिक है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, जिन्हें विश्वविद्यालय की सेवा में समाहित कर लिया गया है, के पिछले नियुक्ता से प्राप्त पेंशन और ग्रेच्युटी के पूंजीकृत मूल्य को संबंधित प्रावधान खातों में जमा कर दिया गया है। मिज़ोरम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, के पेंशन अंशदान को प्राप्त होने पर पेंशन प्रावधान खाते में जमा कए दिया गया है।

7. निवेश

सभी निवेशों का मूल्यांकन लागत मूल्यों पर किया गया है।

8. सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सहायता

8.1 सरकारी अनुदान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान को प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया गया है। हालांकि, जहां वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान की राशि के लिए मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त हो गई है, और वास्तव में अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है, ऐसे अनुदान को प्रोद्धवन आधार पर लेखांकित किया गया है और एक समान राशि को दान करने वाले के नाम उगाही योग्य राशि के रूप में दिखाया गया है।

8.2 सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान को, पूंजीगत व्यय के हद तक, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है।

8.3 राजस्व व्यय के मद में प्राप्त सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान को, जिस हद तक प्रयुक्त किया गया हो जिस वर्ष में प्राप्त हुआ है उसी वर्ष की आय की तरह लेखांकित किया गया है।

8.4 अप्रयुक्त अनुदान (उक्त अनुदान से किए गए अग्रिम भुगतान सहित) को आगे बढ़ाया गया है और बैलेंस शीट में एक दायित्व के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

9. निर्धारित सहायता और ऐसे निवेश पर प्राप्त ब्याज का निवेश

9.1 उस हद तक जब खर्च के लिए तत्काल जरूरत नहीं हो उक्त अनुदानों से उपलब्ध धनराशि का निवेश बचत बैंक खाते में शेष राशि छोड़कर अनुमोदित प्रतिभूतियों और बांड या बैंकों के साथ निर्धारित अवधि के लिए जमा किया गया है।

9.2 प्राप्त ब्याज, उक्त निवेश पर प्राय्य ब्याज और प्रोद्धत ब्याज को संबंधित निधियों में शामिल किया गया है और उन्हें विश्वविद्यालय के आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया है।

10. प्रायोजित परियोजनाएं

- (a) चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में, प्रायोजकों से प्राप्त राशि को “वर्तमान देयताओं और प्रावधान – वर्तमान देयताओं – अन्य देयताओं – चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के मद में प्राप्तियों” के तहत दर्शाया गया है। जब ऐसे व्यय किए गए हैं ऐसी परियोजनाओं के लिए अग्रिम का भुगतान किया गया है अथवा संबंधित परियोजना खाते को उपरिव्यय से डेविट किया गया है। परियोजनाओं से प्राप्त उपरिव्यय को संचित निधि खाते में जमा किया गया है। परियोजनाओं से बरामद संस्थागत प्रभार को विश्वविद्यालय के आय के रूप में माना गया है।



- (b) परिसंपत्ति जो प्रायोजित परियोजनाओं निधि से है, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्वामित्व निहित है, उन्हें पूंजी निधि में क्रेडिट के मुख्यता के साथ क्रमानुसार परिसंपत्ति को विलय किया जाता है। मूल्यद्वारा सामान्य कोर्स में प्रदान की जाती है।
- (c) आधारीक संरचना/प्रयोगशाला के विकास के लिए पूंजी व्यय का आबंटन विश्वविद्यालय द्वारा संस्थागत शुल्क को परियोजना समन्वयक को हिस्सा दिया गया है। इन निर्मित आस्तियों को विश्वविद्यालय के फंड से बनाया गया है और इनको प्रमुखता अनुरूप विलय किया गया है। ऐसी संपत्ति पर मूल्यद्वारा सामान्य कोर्स में प्रदान की जाती है।

11. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा १० (२३C) के तहत विश्वविद्यालय की आय आयकर से मुक्त है। अतः खातों में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची: २१ आकस्मिक देयताओं और खातों पर टिप्पणियां

1. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

मार्च ३१, २०१५ को ₹ ९०.२४ करोड़ (लगभग) संविदा राशि (अग्रिम समायोजित) जिनका पूंजीगत खातों में निष्पादन किया जाना है और जो उपलब्ध नहीं कराई गयी हैं। (पिछले वर्ष ₹ १०२.५४ करोड़ /-)

2. अनुदान

₹ ४५,०६,३८,००० राशि जो गैर योजना अनुदान में मार्च २०१४ में स्वीकृत किया गया लेकिन अप्रैल २०१५ में प्राप्त किया है उसमें ₹ ७,७३,८८,००० अनुदान शामिल हैं जो तदनुसार अप्रयुक्त अनुदान के रूप में लिया गया है।

3. भूमि

भूमि (₹.१९,७२,००,०००/-) जो अचल संपत्ति अनुसूची में दर्शाया गया है उसे भूमि के मालिकों/भूमि के रहने वालों को ₹.१९.७२ करोड़ के मुआवजे का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को देकर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहण किया गया। यह राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालय के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए सहायता अनुदान (२००८ जनवरी) के रूप में जारी किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई नियम के अनुसार जमीन के मालिकाना हक विश्वविद्यालय में निहित होना चाहिए।

हालांकि, अक्टूबर २००८ में राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को सूचित किया कि उस विश्वविद्यालय को गैर आदिवासी दर्जा प्राप्त है इसलिए मिज़ो जिला भूमि एवं राजस्व अधिनियम १९५६ में मिज़ोरम में रहने वाले जनजातियों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलता है उसके अनुसार विश्वविद्यालय को भूमि के स्वामित्व का अधिकार नहीं दे सकता है।

4. पाछुडा यूनिवर्सिटी कॉलेज के खाते (पीयूसी)

२०१३-१४ के लिए कॉलेज की बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता तथा प्राप्तियां और भुगतान लेखा (नकद में) को उस वर्ष के विश्वविद्यालय के खातों में संलग्न किया गया। हालांकि, वर्ष २०१३-१४ के लिए विश्वविद्यालय की समेकित लेखा को २००७-०८ से २०१२-१३ (तैयार किया हुआ) तक कॉलेज के लंबित मेलमिलाप के कारण और २०१३-१४ के खाते के साथ संलग्न नहीं किया गया।

वर्ष २०१४-१५ के खातों में कॉलेज की संपत्ति पर मुल्यद्वास सभी वर्षों के लिए प्रदान किया गया, अर्जित आय का लेखा और खर्चों के वकाया देनकारी नहीं किया गया। अनुदान लेखा और पूंजी कोष लेखा मुलाह की प्रक्रिया में है। वर्ष २०१५-१६ में कॉलेज के खातों को पूरी तरह उपचय के आधार पर और मानक प्रारूप के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करने का उम्मीद रखते हैं। वर्ष २०१४-१५ के लिए कॉलेज के खातों को अलग से संलग्न किया गया। समेकन २०१५-१६ में किया जाएगा, कॉलेज और विश्वविद्यालय के खातों और वर्ष २०१५-१६ के लिए विश्वविद्यालय के संपूर्ण समेकित खाता २०१५-१६ में प्रस्तुत किया जाएगा।

5. जी.पी.एफ., सी.पी.एफ. और एन.पी.एस. खाते

विश्वविद्यालय के खातों से जीपीएफ, सीपीएफ और एनपीएस खातों (देयताएं और आस्तियां) को अलग करने के बाद, एक बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता और प्राप्तियां और भुगतान लेखा जीपीएफ/सीपीएफ के संबंध में तैयार किया गया है और उसे विश्वविद्यालय के लेखा में संलग्न किया गया है।



6. प्रायोजित परियोजना निधि से बनाई गई संपत्ति

अनुसूची ५ के परिसंपत्तियां में विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग परिसंपत्तियों शामिल नहीं हैं, इन परियोजनाओं में प्रायोजको का अनुबंध शामिल है जहां परिसंपत्तियों में प्रायोजको का स्वामित्व शामिल है। इन परिसंपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है:

मुख्य	अथ शेष	वर्ष के दौरान जोड़ाव	कुल	काल्पनिक मुल्यहास	बुक वैल्यू (₹ मात्र में)
कम्प्यूटर	७,८९,४४०	६,७७,२३९	१४,६६,६७९	५,८६,६७२	८,८०,००७
विजली इन्स्टालेशन	५२,६२५	-	५२,६२५	२,६३१	४९,९९४
फर्नीचर और स्थिरता	२,२६,३४१	-	२,२६,३४१	१६,९७६	२,०९,३६५
कार्यालय उपकरण	८,५००	-	८,५००	६३८	७,८६२
वैज्ञानिक प्रयोगशाला उपकरण	२,०८,२४,३३०	८०,९९,७६७	२,८९,२४,०९७	२३,१३,९२८	२,६६,१०,१६९
साफ्टवेयर	२२,४६४	-	२२,४६४	८,९८६	१३,४७८
श्रव्य दृश्य उपकरण	-	२,३३,३१७	२,३३,३१७	१७,४९९	२,१५,८१८
कुल	२,१९,२३,७००	९०,९०,३२३	३,०९,३४,०२३	२९,४७,३३०	२,७९,८६,६९३

7. मौजूद संपत्ति, ऋण और अग्रिम: प्रबंधन की राय में वर्तमान ऋण और अग्रिम का मूल्य सामान्य तौर पर बलेंस शीट में दिखाए गए राशि के कम से कम पूर्ण राशि के बराबर है।
8. जहां भी आवश्यक है पिछले वर्ष के आंकड़े पुनःसंगठित किये गये हैं।
9. अंतिम खातों में आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित किया गया है।
10. १ से २१ तक अनुसूचियों, जो कि अंतिम खातों के अभिन्न हिस्से हैं, को ३१ मार्च २०१५ को समाप्त वर्ष के आर्थिक चिट्ठा और आय और व्यय खाते के साथ नहीं किया गया है।

(ए.डी.ललहिमडिलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाइरिमोईआ पनुआरु)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी

जल मावळी हारु [कक ? विद्य २०१४ से ३१ एप २०१५ रद



मिज़ोरम विश्वविद्यालय
आइजॉल - ७९६००२, मिज़ोरम

रसीद-भुगतान खाता ०१/०४/२०१४ से ३१/०३/२०१५

रसीद	₹	भुगतान	₹
अथ शेष :	२,४१,८१७	छात्रों से जमा	५,१४,२७५
- नकद हाथ में	७,१५,१०,९१६	अन्य जमा	२७,६७,१५५
- चालू खाता में	२९,३८,३७,४०७	छात्रवृत्ति अनुदान	१,५३,६६,०८५
- बचत खाता में		अन्य वर्तमान देयताएं	१५,९०,९०५
	१८,५०,७६०	अन्य कोष	१६,९०,६४६
छात्रों से जमा	४७,०५,३१९	अन्य अनुदान	१९,९५,५००
अन्य जमा	२३,७६,३४१	खर्च के लिए बकाया देयता	१२,९७,८९९
निर्धारित धनराशि	२,०४,३०८	चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के खिलाफ प्राप्तियां	२,७९,४५,५०२
बंदोबस्ती कोष	२,१०,१४,३३३	संगोष्ठी और कार्यशाला के खिलाफ प्राप्तियां	९,९१,७६१
छात्रवृत्ति अनुदान	१२,०५,१३३	क्रमचारियों से वसूली	९६,३०,७४९
अन्य वर्तमान देयताएं	२,५६,४५,६२७	वैधानिक दायित्व अतिदेय नहीं	५,१५,०१,८४७
अन्य कोष	७४,४१५००	शैक्षिक अग्रिम (गैर योजना)	१,२२,९२,४५०
अन्य अनुदान	३,७०,८९,७३६	शैक्षिक अग्रिम (योजना)	४,४२,१२५
चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के खिलाफ प्राप्तियां	१२,६४,८२७	क्रमचारियों को अग्रिम (एएससी - योजना)	७,१४,२८४
संगोष्ठी और कार्यशाला के खिलाफ प्राप्तियां	९९,७६,५३९	क्रमचारियों को अग्रिम (गैर योजना)	१,३१,३७,७१५
क्रमचारियों से वसूली	४,९४,५०,५७१	क्रमचारियों को अग्रिम (योजना)	६२,५७,५०६
वैधानिक दायित्व अतिदेय नहीं	४४,१९,२८,०००	अग्रिम - अन्य	२०,१३,४८३
अनुपयोग योजना अनुदान	२९,३९,८५,०००	पूंजी पर अग्रिम	३,८०,९०,३००
अनुपयोग योजना अनुदान (यूजीसी)	८५,६५,९४०	क्रमचारियों को अग्रिम - ब्याज असर	६४,११,२२८
शैक्षिक अग्रिम (गैर योजना)	४,७३,१२५	परियोजना समन्वयकों को अग्रिम	१,३१,९२,७९५
शैक्षिक अग्रिम (योजना)	२,२१,८००	ऑडियो विजुअल उपकरण (गैर योजना)	२६,५५०
क्रमचारियों को अग्रिम (एएससी-योजना)	८९,६१,८०१	ऑडियो विजुअल उपकरण (योजना)	३९,५००
क्रमचारियों को अग्रिम (गैर योजना)	८१,२७,२०२	अनुसूचित बैंक के जमा राशि में सावधि जमा	६७,५१,२७,६४७
क्रमचारियों को अग्रिम (योजना)	४,००,०००	पहाधृत भूमि पर भवनों (योजना)	४,६४,५४,२४२
अग्रिम - अन्य	४,९१३	कैपिटल कार्य में प्रगति (योजना)	१७,४१,१८,५९५
क्रमचारियों को अग्रिम - ब्याज असर	८,५४,७१५	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (गैर-योजना)	१,८६,१४०
परियोजना समन्वयकों को अग्रिम	८८,६९,७७,३२३	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (योजना)	५०,५४४
अनुसूचित बैंक के जमा राशि में सावधि जमा	२६,५५५	कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण (गैर योजना)	१७,८३,९८९
निवेश पर अर्जित ब्याज लेकिन वकाय नहीं कर्मचारियों पर अग्रिम ब्याज	१,७९,५८,८६१	कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण (योजना)	२८,२१,१००
छात्रों से शैक्षिक फीस	२,४१,८१७	उपभोज्य स्टोर	१५,७७,४९६
छात्रों से परीक्षा शुल्क	२,८०,११,६२१	जमाराशि	५४,३७०
कॉलेजों से फीस	४,७५,४६०	बिजली के अधिष्ठापन और उपकरणों (गैर योजना)	१०,५९,०७०
छात्रों से फीस	७४,६४०	बिजली के अधिष्ठापन और उपकरणों (योजना)	३२,६५,५४१
बैंक बचत / जमाओं पर अर्जित ब्याज	१,४१,०९,६६२	बंदोबस्ती धन - बैंकों में सावधि जमा	५०,००,०००
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	२१३,५९,४०४	फर्नीचर स्थिरता, और फिटिंग (गैर योजना)	६०,१३,०८८
ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज	३,८६,३३३	फर्नीचर स्थिरता, और फिटिंग (योजना)	३३,८०,९५५
छात्रों से अन्य शुल्क	६०,६९,४३६	आईसीटी-योजना	६,४४,६१३
अन्य / विविध आय	८३,३१,८३०	पुस्तकालय की पुस्तकों और पत्रिकाओं (गैर योजना)	१,१०,००,०००
योजना अनुदान	६,६९,८००	पुस्तकालय की पुस्तकों और पत्रिकाओं (योजना)	७४,७६,१९६
फार्म / सूचीपत्र की बिक्री	७,०६,४४०	कार्यालय उपकरण (गैर योजना)	७,३७,६४९
प्रशासनिक व्यय- संचार (गैर योजना)	१,२४८	संयंत्र और मशीन (योजना)	४,३४,८३५



प्रशासनिक व्यय- बुनियादी ढांचे (गैर योजना)	२४,७००	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण (योजना)-पीयूसी	५०,००,०००
प्रशासनिक व्यय- बुनियादी ढांचे (योजना)	१६,४००	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण (गैर योजना)	१९,७९,४२९
प्रशासनिक व्यय- अन्य (गैर योजना)	९०,१६७	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण (योजना)	२,१४,०६,४१७
स्थापना व्यय (गैर योजना)	२,८०,६३३	सीवरेज एवं ड्रेनेज (योजना)	३,१९,०८०
स्थापना व्यय (योजना)	१,७५,४५९	स्पेयर पार्ट्स	१३,६२५
परीक्षा व्यय (गैर-योजना)	१५,००,०००	लेखन सामग्री	१६,९१,९४५
अन्य विविध शैक्षिक व्यय (योजना)	५,१०,१६०	अस्थायी निर्माण (गैर-योजना)	३०,०००
अन्य विविध व्यय (योजना)	८०	जलापूर्ति एवं संचयन (गैर योजना)	९१,८००
अनुसंधान गतिविधियों व्यय (योजना)	४,७३,१६१	जलापूर्ति एवं संचयन (योजना)	२,५८,०५०
संगोष्ठी / कार्यशाला व्यय (योजना)	२२,५८,५३४	छात्रों से शैक्षिक फीस	१,६५,७४२
		ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज	५१,०४१
		अन्य विविध व्यय	२,६४,८९८
		शैक्षणिक व्यय- (योजना)	१,२३,११,९९७
		प्रशासनिक व्यय- संचार (गैर योजना)	७,७६,६६९
		प्रशासनिक व्यय- बुनियादी ढांचे (गैर योजना)	२,४७,७०,२१८
		प्रशासनिक व्यय- बुनियादी ढांचे (योजना)	१,४८,९२,८८७
		प्रशासनिक व्यय- (योजना)	२५,३८४
		प्रशासनिक व्यय- एससी	९३,६००
		प्रशासनिक व्यय- अन्य (गैर योजना)	२,४५,७२,९०२
		प्रशासनिक व्यय- अन्य (योजना)	१,०९,८७,२३७
		दीक्षांत समारोह व्यय (गैर-योजना)	३,२८,२१९
		क्रमचारी सेवानिवृत्ति व सेवांत लाभ	२५९,०४,८०७
		स्थापना व्यय (गैर योजना)	३६,००,१९,६१४
		स्थापना व्यय (योजना)	२२,२८,२४,५३५
		स्थापना व्यय - एससी (योजना)	५,७०,१४४
		परीक्षा व्यय (गैर योजना)	१६२,३५,९४९
		प्रयोगशाला व्यय (गैर-योजना)	६,८५,८६७
		विविध शैक्षिक व्यय (गैर योजना)	२,३२,३३८
		विविध व्यय (योजना)	४३,२६,२९०
		विविध व्यय (योजना)	६,२७,१००
		प्रकाशन व्यय (योजना)	१,३०,०००
		मरम्मत और रखरखाव (गैर योजना)	४८,२२,०४३
		मरम्मत और रखरखाव (योजना)	८८,८४,७५५
		अनुसंधान गतिविधियों व्यय (योजना)	१,६३,००,०९६
		संगोष्ठी / कार्यशाला व्यय (योजना)	३०,१५,२९४
		एम जेड यू से छात्र कल्याण व्यय (गैर योजना)	१४१८,५३८



		शिक्षण सहायता (गैर योजना)	२०,१९६
		दौरा फ़ैकल्टी का व्यय (योजना)	५५,७८,०००
		अंत शेष :	
		- नकद हाथ में	१०,५८,८५६
		- चालू खाता में	४८,०२,५३१
		- बचत खाता में	३४,०१,४५,४८५
कुल	2,28,67,33,907	कुल	२,२८,६७,३३,९०७

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(पो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी

सामान्य और अंशदायी भविष्य निधि

मिज़ोरम विश्वविद्यालय
सामान्य और अंशदायी भविष्य निधि
३१/०३/२०१५ तक के आर्थिक चिट्ठा

मिज़ोरम विश्वविद्यालय: वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षण प्रतिवेदन/ लिखित प्रमाण २०१४-२०१५

पिछले वर्ष राशि (₹)	दायित्व	वर्तमान वर्ष राशि (₹)	पिछले वर्ष राशि (₹)	संपत्ति	वर्तमान वर्ष राशि (₹)
११,५८,९५,३२४	सामान्य भविष्य निधि अथशेष कम : पिछले वर्ष के मार्च की सदस्यता जोड़ : वर्ष के दौरान सदस्यता जोड़ : सदस्यों के खाते से ब्याज जमा जोड़ : इस वर्ष के मार्च के लिए सदस्यता कम : अग्रिम / आहरण / अंतिम	११,५८,९५,३२४ -१७,४७,१४४ २,५२,५३,४९३ ९९,०१,९०५ २०,१५,५०० -१,६९,२९,४३५	९,२२,८१,७६१	निवेश यूबीआई के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट विजया बैंक के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट एचडीएफसी बैंक में सावधि जमा एसबीआई कौपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड (लागत में)	३,००,००,००० ५,४२,३८,७४७ २,००,००,००० १,५०,००,०००
९,३०,५९९	अंशदायी भविष्य निधि अथशेष कम: पिछले वर्ष के मार्च के लिए सदस्यता जोड़ : वर्ष के दौरान सदस्यता जोड़ : सदस्यों के खाते से ब्याज जमा जोड़ : इस वर्ष के मार्च के लिए सदस्यता कम : अग्रिम / आहरण / अंतिम	९,३०,५९९ -६,००० ३,७५,००० १,०१,१२४ १२,५०० -	१,०२,९१,३९० ६,६४,७०० १७,५८,७९४	निवेश पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं एम्प्लॉय से देय राशि मार्च के इस वर्ष की देय सदस्यता मार्च २०१५ के लिए जीपीएफ सदस्यता, इस वर्ष सीपीएफ सदस्यता मार्च में देय, इस वर्ष सीपीएफ यूनिवर्सिटी की आकस्मिकता मार्च में देय, इस वर्ष	१,२६,७८,८२२ १,२६,७८,८२२ २०,३९,९८६
३,८४,८२९	सीपीएफ के लिए विश्वविद्यालय का योगदान अथशेष कम: पिछले वर्ष के मार्च के लिए सदस्यता जोड़ : वर्ष के दौरान सदस्यता जोड़ : सीपीएफ के लिए श्रेय ब्याज विश्वविद्यालय जोड़ : इस वर्ष के मार्च के लिए सदस्यता कम : अग्रिम / आहरण / अंतिम	३,८४,८२९ -५,६५० ५१,४३४ ११,९८६ -	१,७५,१५,७३८	बचत बैंक खाते में शेष यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	
४७,६४,३११	व्याज आर्क्षित अथशेष जोड़: वर्ष के लिए अधिशेष	४७,६४,३११ -६,६९,२३८	४,४२,६०३		
५,३७,३२०	एनपीएस टिआईआर निधि गलत श्रेय				
१२,२५,१२,३८३	कुल	१३,७३,०३,०४३	१२,२५,१२,३८३	कुल	११,९२,३८,७४७



मिज़ोरम विश्वविद्यालय
सामान्य और अंशदायी भविष्य निधि
समाप्त अवधि/वर्ष ३१/०३/२०१५ के लिए आय और व्यय खाता

पिछले वर्ष राशि (₹)	दायित्व	वर्तमान वर्ष राशि (₹)	पिछले वर्ष राशि (₹)	संपत्ति	वर्तमान वर्ष राशि (₹)
८९,९०,५०९	सदर्या खातों में जमा (ध्याज)		७५,०६,०९७	कमाया (ध्याज)	
	जीपी फंड में जोड़ा गया (ध्याज) ९९,०१,९०५			निवेश पर पर्यंत किया (ध्याज) ६७,२५,५४३	
	सीपी फंड में जोड़ा गया (ध्याज) १,०१,१२४			जोड़: (ध्याज) उपाजिऊ लेकिन देय नहीं, इस साल १०,२६,७८,८२२	
	सीपीएफ के लिए वि' वि' विद्यालय के आकर्षकता में जोड़ा गया (ध्याज) ५१,४३८	१,००,५४,४६७		कम: पिछले साल के निवेश पर अर्जिऊ (ध्याज) पर्यंत किया बैंक (ध्याज) २,७२,७१०	९३७८५,६८५
१०९	बैंक पश्कार	४५६	१२,७७,३६०	निवेश से आय E; सुअल फंड से अधिशेष	
			२,०७,१६१	रिजर्व फंड में स्थानांतरित घाटे	६,६९,२३८
८९,९०,६१८	कुल	१,००,५४,९२३	८९,९०,६१८	कुल	१,००,५४,९२३

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाइरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



मिज़ोरम विश्वविद्यालय
सामान्य और अंशदायी भविष्य निधि
०१/०४/२०१४ से ३१/०३/२०१५ तक प्राप्तियां - भुगतान



प्राप्तियां	₹	भुगतान	₹
अथ शेष :		जीपीएफ	
- बैंक के साथ एफडी नकदीकरण राशि	०	सामान्य भविष्य निधि	७६,१६,२३५
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया १५४८०१०००४६९५	१,७५,१५,७३८	जीपीएफ अगस्त/ आहरण	१,२०,३३,२००
<u>लिहो</u>		<u>फो/क नफ; रो</u>	
वर्ष के दौरान सीपीएफ सदस्यता	३७,५००	एनपीएस राशि गलत तरीके से पत्र	५,७,३२०
<u>जीपीएफ</u>		<u>निवेश</u>	
वर्ष के दौरान जीपीएफ सदस्यता	२,५२,५३,४९३	जीपीएफ पर सावधि जमा	२,००,००,०००
<u>एमजेडयू से देय राशि</u>		विजया बैंक के साथ सावधि जमा	५,४२,३८,७४७
एमजेडयू से जीपीएफ / सीपीएफ देय के अंशदान	६,६४,७००	<u>अन्य खर्च</u>	
<u>निवेश</u>		बैंक पत्र	४५६
यूबीआई के साथ सावधि जमा	२,५४,६०,८११	<u>अंत शेष :</u>	
विजया बैंक के साथ सावधि जमा	२,२३,५०,९२८	- बैंक के साथ एफडी नकदीकरण राशि	०
<u>अर्जित ब्याज</u>		- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया १५४८०१०००४६९५	३३,४५,४८८
पत्र किया बैंक ब्याज	२,७२,७१०		
निवेश पर पत्र किया ब्याज	५१,९५,४९५		
कुल	९,७७,५१,४४६	कुल	९,७७,५१,४४६

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी

नई पेंशन योजना



मिज़ोरम विश्वविद्यालय
नई पेंशन योजना के टीयर I कोष
३१/०३/२०१५ पर आर्थिक चिट्ठा

पिछले वर्ष राशि (₹)	दायित्व	वर्तमान वर्ष राशि (₹)	पिछले वर्ष राशि (₹)	संपत्ति	वर्तमान वर्ष राशि (₹)	
१,७०,२२,५८६	एनपीएस टीयर-I कोष : अथ शेष कम: सदस्यता और यू.सी. पिछले साल माचZके दौरान जोड़: सदस्यता और यू.सी. वर्षZ के दौरान कम: सदस्यता और यू.सी. इस साल माचZके दौरान कम: भुगतान / समायोजन जोड़: आंशिक इस वर्षZके लिए	१,७०,२२,५८६ -२९,३१,१४८ ५,५५,०६,३६९ ४२,१७,१९२ -५,४०,१७,६०३ २,७७,३९०	२,००,७४,७८६	१,३१,७८,०५३ ३४,६८,४६८ ३,७६,०६५	मौजूदा बैंक खाता में शेष भारतीय Lटेक बैंक ४८,५५,२०० एफडीएस बैंक १,१०,२०,३९४ अजिर्त सदस्यता / योगदान सदस्यता और यू.सी. इस साल माचZके देय एनपीएस खातों पर (ग्राज, एमजेडयू से देय	१,५८,५७,५९४ ४२,१७,१९२
१,७०,२२,५८६	कुल	२,००,७४,७८६	१,७०,२२,५८६	कुल	२,००,७४,७८६	

(ए.डी.ललहिमडिलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



मिज़ोरम विश्वविद्यालय
नई पेंशन योजना के टीयर I कोष



समाप्त अवधि/वर्ष ३१/०३/२०१५ के लिए आय और व्यय खाता

पिछले वर्ष राशि (₹)	व्यय	वर्तमान वर्ष राशि (₹)	पिछले वर्ष राशि (₹)	आय	वर्तमान वर्ष राशि (₹)
५,३३,९९९	सदर्या खातों में जमा (आज)		१,६०,३९७	बैंक (आज)	२,९९,४८३
२,४६३	बैंक पक्षार साल के अधिशेष	२२,०९३ २,७७,३९०	३,७६,०६५	वर्ष के घाटा एमजेड्यू से वसूली	
५,३६,४६२	कुल	२,९९,४८३	५,३६,४६२	कुल	२,९९,४८३

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



मिज़ोरम विश्वविद्यालय
नई पेंशन योजना के टीयर I कोष
०१/०४/२०१४ से ३१/०३/२०१५ तक प्राप्तियां भुगतान

प्राप्तियां	₹	भुगतान	₹
अथ शेष:		नई पेंशन योजना : टीयरी एनपीएस टीयरी कोष	
- एफ़ीएस बैंक	०		५,३६,४१,५३८
- भारतीय Lटे बैंक	१,३१,७८,०५३	भुगतान	
नई पेंशन योजना : टीयरी		बैंक पत्राभार	२२,०९३
सदस्यता और यू.सी. वषलके दौरान	५,५५,०६,३६९	अंत शेष:	
अर्जित सदस्यता		- एफ़ीएस बैंक	१,१०,०२,३९४
जीपीएफ़ किताबों से पत्राभार योगदान	५३७,३२०	- भारतीय Lटे बैंक	४८,५५,२००
कमाया व्याज			
बैंक व्याज पत्राभार	२,९९,४८३		
कुल	६,९५,२१,२२५	कुल	६,९५,२१,२२५

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी

वर्ष २०१४-१५ के लिए पाछुडा यूनिवर्सिटी कॉलेज के वार्षिक खात



३१/०३/२०१५ पर आर्थिक चिट्ठा

कोष/पूंजी निधि और देयताओं	अनुसूची सं.	२०१४-१५	२०१३-१४
		(₹)	(₹)
पूंजी और कोष फंड	१	१२,७२,६१,८६९.१२	१,५२,५७,००७.०४
रिजर्व/और अधिशेष	२	-	-
निधित्त/ बंदोबस्ती धन	३	२,५०,०००.००	
वर्तमान देयताओं और पत्रधन	४	२,७५,६९,०१५.००	१४,६२,१२,९२५.००
कुल		१५,५०,८०,८८४.१२	१,६४,६९,९३२.०४

संपत्ति	अनुसूची सं.	२०१४-१५	२०१३-१४
		(₹)	(₹)
अचल संपत्तियां	५	१२,७३,४४,७१८.०८	१२,८१,१०,०१४.००
निवेश - निधित्त / वस्तुदान / अन्य कोष	६	-	
मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण, अगिस्त आदि	७	२,७७,३६,१६६.०४	३,३३,५९,९१८.०४
कुल		१५,५०,८०,८८४.१२	१६,१४,६९,९३२.०४

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



३१/०३/२०१५ समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

आय	अनुसूची सं.	२०१४-१५ (₹)	२०१३-१४ (₹)
सहायता अनुदान / सॉसिडी	८	१६-८२,०४,८१३.०४	१३-९३,७२-७६०.००
शैक्षणिक रसीद	९	१,३२,१५,३४०.००	२,३७,५१,१३४०००
निवेश से आय	१०	-	-
रॉयटी और पत्राशन से आय	११	-	-
अर्जेंट (घाज)	१२	३०६३,०६७०००	६,०९,५३२०००
अभि / विविध आय	१३	७,४८,५५१०००	१८,००००००
कुल (ए)		१८,२५,३१,७७१००४	१६०३७,५१,४२६०००
व्यय			
स्थापना भय	१४	१७,००,५९,२०५०००	१४,०२,५८,५२४०००
शैक्षणिक भय	१५	७२,३६,६८९०००	१,६७,१५,६३५०००
पत्रासार्निक भय	१६	५२,१२,०२६०००	५६,३७,९६४०००
मरभित और रख रखाव	१७	४३,३,८०००००	३६,८३,३०४०००
विविध भय	१८	६,०६,७५००००	२२,१९,६०९०००
पूर्वअवधि भय	१९	-	-
मूयदास	५	५३,४६,७९७०४३	-
कुल (बी)		१९,२७,६५,२६७,४३	१६,८५,१५,०३६.००
अधिशेष संतुलन/ (घाटा) (ए-बी)		(१,०२,३३,४९६.३९)	(४७,६३,६१०००)
कोष के लिए स्थानांतरित / पूंजी निधि			
महासंपूर्णलेखांकन नीतियों	२०		
खातों पर आकलित देनदारियों और नोट्स	२१		

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो. लियानजेला)
वित्त अधिकारी

३१ मार्च, २०१५ को तैयार आर्थिक चिट्ठा की अनुसूचियाँ



अनुसूची - १: पूंजी/संचित निधि

(₹ में)

	२०१४-१५	२०१३-१४
अथ शेष	१,५२,५७,००७.०४	२,००,२०,६१७.०४
जोड़: अनुदान गत वर्षों में पूंजी व्यय के लिए उपयोग	१४,४१,३९,९११.००	-
जोड़: गत वर्षों में संपत्ति के लिए अपूंजीकृत/वहुपूंजीकृत नेट समायोजन	१,०१,७०,६७३.००	-
जोड़: वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में किये गये प्रविष्टियां समायोजन	४,६,४०३.००	-
जोड़: अनुदान में से वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय	१,५७,०१,९९६.००	-
कुल (ए)	१८,५७,६५,९९०.०४	२,००,२०,६१७.०४
कम: सभी वर्ष ३१.०३.२०१४ तक के लिए मूल्यह्रास	२,६६,२१,११०.४९	-
कम: वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में अनुपयोग अनुदान के लिए किये गये समायोजन	२,१६,४९,५१४.०४	-
कम: आय से व्यय की अधिकता, आय और व्यय खाता से स्थानांतरित	१,०२,३३,४९६.३९	४७,६३,६१०.००
कुल (बी)	५,८५,०४,१२०.९२	४७,६३,६१०.००
संतुलन (ए बी)	१२,७२,६१,८६९.१२	१,५२,५७,००७.०४

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची ३: निर्धारित/बंदोबस्ती कोष

(₹ में)

क. सं.	विवरण	कोषवार ब्रेक अप		कुल	
		गोल्डन जुबली		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
		१	२	(१ मे २)	
a)	निधियों के अथ शेष	-	-	-	-
b)	फंड के लिए अतिरिक्त:	-	-	-	-
i.	वित्त वर्ष के दौरान पड़ियां	२,५०,०००	-	२,५०,०००	-
ii.	फंडों से निवेश से आय	-	-	-	-
iii.	एसबी खाते पर धाज	-	-	-	-
	कुल (ए+बी)	२,५०,०००	-	२,५०,०००	-
c)	निधियों की उपयोग / धय	-	-	-	-
i.	पूँजीगत धय / कैपिटल डेव्लपमेंट	-	-	-	-
ii.	राजस्व धय	-	-	-	-
iii.	कमर्शियल को अगिज	-	-	-	-
	कुल (सी)	-	-	-	-
	साल के अंत में नेट बैलेंस (ए+बी+ सी)	२,५०,०००	-	२,५०,०००	-

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची - ४: वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(₹ में)

ए	वर्तमान देयताएं	२०१४-१५	२०१३-१४
1	छात्रों से जमा	१,८७,२४३	३,६४,९३९
2	जमा अर्थ	-	-
3	वैधानिक देयताएं - अर्थ (जीपीएफ/ सीपीएफ/ एनपीएस शेष सहित)	-	-
4	माल के लिए विविध लेनदार	-	-
	(a) समूह बचत लिंडड बीमा योजना	-	-
	(b) चल रहे परियोजनाओं के खिलाफ पर्याप्तियां	२८,३५,५४७	१७,०८,०८३
	(c) फेलोशिप और छात्रवृत्ति के खिलाफ पर्याप्तियां	-	-
	(d) सेमिनार और कार्यशाला के खिलाफ पर्याप्तियां	-	-
	(e) अपयुक्त अनुदान (एम जेड यू)	२४,१७,८४३	१४,४१,३१,९१९
	(f) अपयुक्त योजना अनुदान (यूजीसी)	९९,०५,०६३	-
	(g) अपयुक्त गैर योजना अनुदान	-	-
	(h) अर्थ फंड	-	-
	(i) कमर्शियल से वसूली	-	-
	(j) अर्थ अनुदान	-	-
	(k) खर्च के लिए बकाया देनदारी	-	-
	(l) अर्थ	-	-
	(i) पूर्णतक अनुदान / छात्रवृत्ति	-	-
	(ii) वेतन देय	१,२२,२३,३१९	-
	कुल (ए):	२,७५,६९०,१५	१४,६२,१२९,२५
B.	प्रावधान		
	गारंटी के लिए प्रावधान	-	-
	छूटटी नकदीकरण के लिए प्रावधान	-	-
	पेंशन के लिए प्रावधान	-	-
	कुल (बी)	-	-
	कुल (ए+बी)	२,७५,६९,०१५	१४,६२,१२,९२५

(ए.डी.ललहिमसलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)(प्रो. लियानजेला)
वित्त अधिकारी

अनुसूची ५: ३१.०३.२०१५ तक अचल संपत्ति और मूल्यहास

विवरण	गोप्य बतकर (₹)				मुल्यहास (₹)				नेट बतकर (₹)	
	अदर वर्ष में लागत/मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान घटाव	अंत वर्ष में लागत/मूल्य	पूर्व वर्ष में परिसंपत्तियां	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान घटाव	वर्ष के अंत में कुल	वर्तमान वर्ष के अंत में	पूर्व वर्ष के अंत में
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. माइट विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भवन	२,२६,८४,७६१	१४,००,०००	३,३३,९०९	२,३७,५०,८५२	४,५३,६९५,२२२	-	-	३४,४०,६१०,७५५	२,०३,१०,२४१,२५५	१,९६,९७,८४५,४७७
4. महिला छात्रावास	२,५७,०४,९५३	३,३३,१५,१५०	-	५९,०१९,१०३	२५,३९,८४,४८३	३,३३,१४१,५०	-	३१,०७,५३१,३९	५,५९,०१९,५७१,६१	२,३१,६५,१०८,१७
5. सभागार	३६,४४,२५५	-	-	३६,४४,२५५	७२,८८५,१०	-	-	९,४७,५०६,३०	२६,९६,७४८,७०	२७,६९,६३३,८०
6. संगीत कक्ष	२८,२७,४१६	-	-	२८,२७,४१६	५६,५४८,३२	-	-	५६,५४८,३२	२७,७०,८६७,६८	२८,२७,४१६,००
7. जीव विज्ञान	१,३५,८५,५९९	-	-	१,३५,८५,५९९	२७,१,७११,९८	-	-	१५,६०,६३७,५६	१,२०,२७,९६१,४४	१,२२,४६,६७३,४२
8. जनप्रदाय व संवहन	-	३०,४२०	-	३०,४२०	-	१५२,१०	-	-	३०,२६७,९०	-
9. विनाली के अधिष्ठापन	-	४८,३८९	-	४८,३८९	-	१,४३५,१८	-	-	४६,९५३,८२	-
10. वैज्ञानिक व प्रयोगशाला उपकरण	९८,५५८,४७	१६,७८,७८९,४८	-	१,१५,३४७,९५	६,२०,३९८,९६	३०,९७७,९१	-	५४,५८३,८९	६०,७८,९६१,११	५०,१,३८९,९८
11. कार्यशाला उपकरण	५६,२२,२७८	२७,०९,०८३	-	८३,३१,३६१	४,२१,६७०,८५	८६,७६४,९३	-	२४,५०,२९०,०८	५१,८१,०७०,९२	३६,८०,४२३,७०
12. कम्प्यूटर एवं महायक उपकरण	८६,३३,६१८	१६,०७,४९५	-	१००,४१,११३	१३,०५,३१९,००	१,४६,३१०,८३	-	६९,१६,३८४,३७	३३,२४,७२८,६३	३१,६८,८६३,४६
13. फर्नीचर विवरता और फिटिंग	९२,०६,४६३	२२,९२,८९७	-	१,१४,९९,३६०	६,९०,४८४,७३	७२,१०८,८७	-	२३,४४,९८७,५९	९१,५४,३७२,४१	७६,२४,०६९,०१
14. वाहन	२२,४८,४४०	११,९०,७७५	-	३४,३९,२१५	१,०९,६६६,३०	३९,६९२,५०	-	१४,९४,१३५,२५	१९,४५,०७९,७५	९,०३,८६३,५५
15. पुस्तकाव पुस्तक एवं पत्रिकाएं	६१,०९,१५७	१३,८०,०५५	-	७४,८९,२१२	२,८५,०८४,३०	७२,१०३,७९	-	४१,४७,५४६,८२	३३,४१,६६५,१८	२३,१९,७९८,२७
16. कम्प्यूटर माफ्टवेयर	१,०२,२५०	-	-	१,०२,२५०	४०,९००,००	-	-	४४,३०८,३२	५७,९४१,६८	९८,८४१,६८
कुल (₹)	११,०२,२५,०३७	४,५६,५२२,१२	३,३३,९०९	१५,५५,४३,३४०	४५,६३,१०९,८२	७,८३,६८७,६१	-	३,१९,६७,९०७,९२	१२,३५,७५,४३२,०८	८,३६,०३,९३६,५१
((को) पूर्वी काव में प्राप्ति	२,८०,५५६,५०	४,६९,२८६	२,४७,५५,६५०	३७,६९,२८६	-	-	-	३७,६९,२८६,००	२,८०,५५,६५०,००	-
कुल (₹ + की)	१३,८२,८०,६८७	४,६१,२१,४९८	२,५०,८९,५५९	१५,९३,१२,६२६	४५,६३,१०९,८२	७,८३,६८७,६१	-	३,१९,६७,९०७,९२	१२,७३,४४,७१८,०८	११,१६,५९,५७६,५१

गोप्य: श्यामी संपत्ति पंजीवन



अनुसूची -६: निर्धारित/ बंदोबस्ती/ अन्य कोष से निवेश

(₹ में)

२०१४-१५		२०१४-१५		२०१३-१४	
बंदोबस्ती धन से निवेश		-		-	
निवेश		-		-	
नेट संतुलन				-	

(ए.डी.ललहिमडिलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची -७ : वर्तमान आस्तियां, ऋण ओर अग्रिम

(₹ में)

	२०१४-१५	२०१३-१४
वर्तमान आस्तियां:		
१. आविष्कारी	-	-
२. केश और बैंक शेष	-	-
i) केश अग्रदाय सहित	१,८८,१८६,७५	९५,६४५,७५
ii) चेक और ड्राफ्ट	-	-
iii) डाक	-	-
अनुसूचित बैंक में शेष	-	-
चालू खाते में	-	-
अनुसूचित बैंक में शेष	-	-
वचत खाते में	२,७१,३९,७७९,२९	२,१०,५४,८४७,२९
अनुसूचित बैंक में शेष	-	-
सावधि जमा में	-	१,२२,०९,४२५,००
कुल (ए)	२,७३,२७,९६६,०४	३,३३,५९,९१८,०४

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाइरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



वर्णन और अगिम :	२०१४-१५	२०१३-१४
१. निक्षेप	-	-
२. ब्याज प्रोदभूत लेकिन जे.पी.एफ./सी.पी.एफ./एन.पी.एस. निवेश के कारण नहीं	-	-
३. ब्याज प्रोदभूत लेकिन देय ब्याज का असर कर्मचारियों के अगिम पर नहीं	-	-
(i) ब्याज प्रोदभूत लेकिन एच.बी.ए. के नहीं	-	-
(ii) ब्याज प्रोदभूत लेकिन मोटर कार/मोटर साइकिल अगिम के नहीं	-	-
(iii) ब्याज प्रोदभूत लेकिन कम्प्यूटर अगिम के नहीं	-	-
५. ब्याज प्रोदभूत लेकिन सावधि जमाओं के नहीं	-	-
६. अगिम	-	-
(i) ब्याज कर्मचारियों अगिम का असर	-	-
(ii) गैर ब्याज कर्मचारियों अगिम का असर	४,०८,२००,००	-
(iii) अगिम पूंजी के ए/सी	-	-
(iv) यूजीसी से वामूली (नेट छात्रवृत्ति)	-	-
(v) यूजीसी अनुसंधान छात्रवृत्ति अनुदान से वामूली (जेआरएफ/एसआरएफ)	-	-
(vi) यूजीसी राजीव गांधी अनुसंधान अनुदान से वामूली	-	-
(vii) वार्षिक रखरखाव अनुबंध (अगले साल)	-	-
(viii) अकादमिक स्टाफ कॉलेज से वामूली	-	-
कुल (बी)	४,०८,२००,००	-
कुल (ए+बी)	२,७७,३६,१६६,०४	३,३३,५९,९१८,०४

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाइरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी

३१ मार्च, २०१५ को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता की अनुसूचियाँ



अनुसूची -८: अनुदान/ सब्सिडी (प्राप्त स्थिर और सब्सिडी)

(₹ में)

विवरण	योजना		गैर योजना	वर्तमान वर्ष कुल	पूर्व वर्ष कुल
	एमजेड्यू	यूजीसी	यूजीसी		
अथ शेष (१.०४.१४)	१,५७,२९,५२१,००	४६,७५,२२५,००	१२,४४,७६८,०४	२,१६,४९,५१४,०४	१,३७,०९,२६८,०४
जोड़: वर्ष के दौरान रसीद	४,५२,९९,४७०,००	६४,४१,०००,००	१२,११,००,७२७,००	१७,२८,४१,१९७,००	६,३३,३७,४५०,००
जोड़: अन्य	-	-	५,८४,४२९,००	५,८४,४२९,००	१०,८०,५५,७१८,००
जोड़: निवेश	८,६३,५३४,००	२,९०,९७८,००	-	११,५४,५१२,००	४,९२,४१९,००
कुल	६,१८,९२,५२५,००	१,१४,०७,२०३,००	१२,२९,२९,९८७,०४	१९,६२,२९,७१५,०४	१८,५५,९४,८५५,०४
कम: पूंजी व्यय के लिए अपयोग (ए)	१,४१,९७,६४०,००	६,४८,६०९,००	८,५५,७४७,००	१,५७,०१,९९६,००	२,४५,७२,५८१,००
संतुलन	४,७६,९४,८८५,००	१,०७,५८,५९४,००	१२,२०,७४,२४०,०४	१८,०५,२७,७१९,०४	१६,१०,२२,२७४,०४
कम: राजस्व व्यय के लिए उपयोग (बी)	४,५२,७७,०४२,००	८,५३,५३१,००	१२,२०,७४,२४०,०४	१६,८२,०४,८१३,०४	१३,९३,७२,७६०,००
संतुलन सी/एफ, अनुपयोग (सी):	२४,१७,८४३,००	९९,०५,०६३,००	-	१,२३,२२,९०६,००	२,१६,४९,५१४,०४

- ए. - वर्ष के दौरान पूंजी कोष में जुड़ाव और स्थायी परिसंपत्ति में जुड़ाव को प्रकाशित करता है।
 बी. - आय और व्यय खाते में आय के रूप में प्रकट होता है।
 सी. - I) बैलेंस शीट में वर्तमान देयताएं के तहत प्रकट होता है और अगले वर्ष अथ संतुलन बन जाएगा।
 - II) परिसंपत्तियों के पक्ष में बैंक शेष, अग्रिम और निवेश इसका प्रतिनिधित्व करता है।

नोट:

1. फंड के निवेश पर व्याय ₹ ५,४८,१३९/- का ब्याज भी शामिल है।
2. पूंजी खाते, बैंकों में जमा सावधि, बैंकों में खाते और चालू खाते के शेष अनुपयोग योजना अनुदान का प्रतिनिधित्व करता है।

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची -९: शैक्षणिक प्राप्ति

(रु में)

विवरण	२०१४-१५	२०१३-१४
छात्रों से शैक्षणिक शुल्क		
पक्षेश शुल्क	८९,६५,९००	९२,३६,०१०
नामांकन शुल्क	१३,४००	-
कुल	८९,७९,३००	९२,३६,०१०
छात्रों से परीक्षा शुल्क		
परीक्षा शुल्क (वार्षिक / सेमेस्टर)	३३,८६,०००	१,४३,१५,१२४
कुल	३३,८६,०००	१,४३,१५,१२४
छात्रों से अन्य शुल्क		
छात्रावास / छात्रों के गैर हाउस शुल्क	८,५०,०४०	२,००,०००
कुल	८,५०,०४०	२,००,०००
आवेदन पत्र / विवरणिका की बिछोह		
आवेदन पत्रों का मूल्य	-	-
विवरणिका का मूल्य	-	-
कुल	-	-
कॉलेजों से फीस		
कॉलेजों से संबद्धता शुल्क	-	-
कुल	-	-
अनुसूची कुल	१,३२,१५,३४०	२,३७,५१,१३४

(ए.डी. ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाइरिमोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो. लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची -१०: निवेश से आय

(₹ में)

विवरण	निर्धारित / बंदोबस्ती कोष से निवेश		निवेश - अन्य	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
१) ब्याज	-	-	-	-
ए) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
बी) बॉन्ड / ऋणपत्रों पर	-	-	-	-
सी) मीयादी जमा पर	-	-	-	-
२) अन्य	-	-	-	-
निर्धारित / बंदोबस्ती कोष में स्थानांतरित	-	-	-	-
संतुलन	-	-	-	-

* आय एवं (भय खाता में स्थानांतरित

(ए.डी.ललहिमिडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाइरिममोईआ पनुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची -११: रॉयलटी और प्रकाशन से आय

विवरण	२०१४-१५ (₹)	२०१३-१४ (₹)
रॉयलटी से आय	-	-
प्रकाशन की बिकरी से आय	-	-
सूचना / परलेखन सेवाएँ	-	-
अनुसूची कुल	-	-

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची -१२: अर्जित ब्याज

विवरण	२०१४-१५ (₹)	२०१३-१४ (₹)
बैंक बचत / जमा राशि पर अर्जित ब्याज		
अकैडेमिक स्टाफ कॉलेज पर अर्जित ब्याज	-	-
विभागीय परियोजनाओं पर अर्जित ब्याज	-	-
गैर योजना बचत खाते पर अर्जित ब्याज	३,६३,०६७	६,०९,५३२
योजना बचत खाते पर अर्जित ब्याज	-	-
क्रोष निधि खाते बचत खाते पर अर्जित ब्याज	-	-
ऋण और अगिम पर अर्जित ब्याज		
मोटर कार पर अर्जित ब्याज	-	-
अनुसूची कुल	३,६३,०६७	६,०९,५३२

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची -१३: अन्य/ विविध आय

विवरण	२०१४-१५ (₹)	२०१३-१४ (₹)
विविध आय	५,७९,४००	१८,०००
विविध आंतरिक प्राप्तियां एमजेड्यू	१,६९१,५१	-
कुल	७,४८५,५१	१८,०००
अनुसूची कुल	७,४८५,५१	१८,०००

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची -१४: स्थापना व्यय

(₹ में)

विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४
	योजना	गैर योजना	कुल	
बोनस	७२,५३४	२,२१,०५६	२,९३,५९०	३,०७,४०६
सी पी एफ - एम जेड यू का योगदान	-	-	-	-
बाल शिक्षा भत्ते	३,९३,०५५	११,९८,९५९	१५,९२,०१४	१२,५६,३९९
गैर कर्मचारियों को मानदेय	-	४४,३८८	४४,३८८	-
कर्मचारियों को मानदेय (एएससी)	-	-	-	-
कर्मचारियों को मानदेय	-	-	-	-
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	-	-	-
अवकाश यात्रा रियायत	२,४१,५२१	७,०१,९५४	९,४३,४७५	२,४५,८६४
एल.टी.सी. नकदीकरण अवकाश	-	-	-	-
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	११२७,२१७	२५,६८,२४५	३६,९५,४६२	३२,२०,७२८
पेंशनरों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
स्थायी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
एन.पी.एस - एम जेड यू योगदान	२५,४०,३१७	३४,६१,२२६	६०,०१,५४३	-
एनपीएस टाइड ब्याज	-	-	-	-
समयोपरि इराइवरों के वेतन	-	२५,६३४	२५,६३४	९७,८९६
समयोपरि नॉन इराइवरों के वेतन	-	८९,८१९	८९,८१९	-
कुल	४३,७४,६४४	८३,११,२८१	१,२६,८५,९२५	५१,२८,२९३



(₹ में)

विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४
	योजना	गैर योजना	कुल	
वेतन (ओ एस एल)	-	-	-	-
गैर-शिक्षक कर्मचारियों का वेतन - ए.एस.सी	-	-	-	-
गैर-शिक्षक कर्मचारियों का वेतन	८०,१२,१७५	३,००,७९,०४७	३,८०,९१,२२२	४,७८,६३,८४९
शिक्षक कर्मचारियों का वेतन	२,७१,९९,८२१	८,८२,४७,९८५	११,५४,४७,८०६	८,४४,२५,८१४
अस्थायी कर्मचारियों के वेतन	३८,३४,२५२	-	३८,३४,२५२	२८,४०,५६८
शिक्षक कर्मचारियों का वेतन- ए.एस.सी	-	-	-	-
कुल	३,९०,४६,२४८	११,८३,२७,०३२	१५,७३,७३,२८०	१३,५१,३०,२३१
चिकित्सा प्रतिपूर्ति - ए.एस.सी	-	-	-	-
बाल शिक्षा भत्ते -ए.एस.सी	-	-	-	-
एल.टी.सी. नकदीकरण अवकाश- ए.एस.सी (योजना)	-	-	-	-
अवकाश यात्रा खर्च - ए.एस.सी (योजना)	-	-	-	-
एन.पी.एस - नियुक्ता का योगदान (ए.एस.सी)	-	-	-	-
कर्मचारी सेवानिवृत्त व सेवान्त लाभ	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
अनुसूची कुल	४,३४,२०,८९२	१२,६६,३८,३१३	१७,००,५९,२०५	१४,०२,५८,५२४

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची -१४ ए: कर्मचारी सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ

(₹ में)

ए.	उपहार	पेंशन	नकदीकरण अवकाश	कुल
अथ शेष	-	-	-	-
जोड़:अंशदान पूंजी के मूल्य	-	-	-	-
अन्य संगठनों से प्राप्ति	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
कम:वर्ष २०१४-१५ के दौरान वास्तविक भुगतान के दौरान वास्तविक भुगतान	-	-	-	-
उपलब्ध शेष राशि ३१.३.२०१५ पर	-	-	-	-
आवश्यक प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार ३१.३.२०१५ पर	-	-	-	-
२०१४-१५ के लिए बनाया प्रावधान	-	-	-	-
बी. नया आवास योजना में अंशदान	-	-	-	-
सी. सेवानिवृत्ति पर गृहनगर के लिए यात्रा	-	-	-	-
डी. निक्षेप बीमा भुगतान	-	-	-	-
कुल (ए + बी + सी+ डी)	-	-	-	-

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची -१५: शैक्षिक व्यय

विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४
	योजना	गैर योजना	कुल	
विकसन	-	-	-	५,७००
प्रकाशन व्यय	-	४,३७,०००	४,३७,०००	४,०५,०००
छात्रवृत्ति और वजीफा	२५,०००	२७,०००	५२,०००	१,२४,१०,०००
प्रयोगशाला व्यय	३,३९,०८२	२९,२०३	३,६८,२८५	-
शिक्षण सहायक सामग्री - विशेष लेखन	-	४७,९१५	४७,९१५	७०,२७९
अन्य परीक्षा व्यय	-	२९,९१,९२२	२९,९१,९२२	२०,८१,१७०
परीक्षकों को पारिशरमिक	-	६,९३,७४८	६९३,७४८	५,९५,३४६
छात्र कल्याण व्यय-आतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां	-	७,४०,४६०	७,४०,४६०	३,५३,९००
अध्ययन यात्रा	२,३८,०८०	९,२५,२५०	११,६३,३३०	७,९४,२४०
कषेतर कार्य और अनुसंधान (डीएयूईएनएम)	७,२,०२९	-	७,४२,०२९	-
अनुसूचित कुल	१३,४४,१९१	५८,९२,४९८	७२,३६,६८९	२,६७,१५,६३५

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-१६: प्रशासनिक व्यय

(₹ में)

विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४
	योजना	गैर योजना	कुल	
बिजली प्रभार	-	२,१८,६६७	२,१८,६६७	२,१९,९५४
वाहनों के किराये	-	७,१२,५००	७,१२,५००	७,७३,५००
पेट्रोल, तेल और स्नेहक	-	५,०७,१४२	५,०७,१४२	७,६०,३३८
जल शुल्क	-	२,२३,७११	२,२३,७११	१,३५,९१९
बैंक शुल्क	१,१६०	२,६३८	३,७९८	२,७३७
बैठक व्यय	-	-	-	२६,५००
विविध प्रशासनिक व्यय	-	१,५४,१७५	१,५४,१७५	७,९२,४५५
समाचार पत्रों और पत्रिकाओं	-	३९,८०३	३९,८०३	१३,६५०
अन्य प्रभार / आकस्मिकताओं	-	९,३३,३१२	९,३३,३१२	७,६६,३७४
लेखन सामग्री [उपभोग]	-	३,७६,४५८	३,७६,४५८	३,१,०३२
टी.ए- चिकित्सा	१,१९,५५२	३,२५,१३८	४,४४,६९०	-
टी.ए - अधिकारियों	७७,४३०	५४,८४०	१,३२,२७०	४,८४,८६७
टी.ए - सेवानिवृत्त	-	१३,४२०	१३,४२०	-
यात्रा अनुदान	-	८९,२४१	८९,२४१	-
कार्यशाला /संगोष्ठी/सम्मेलन आदि	६,९२,३४८	१,०५,०००	७,९७,३४८	१०,१,५३३
डाक एवं तार	-	१५०	१५०	-
टेलीफोन व्यय	-	१,५६,४११	१,५६,४११	१,४१,५०६
खेल व्यय	-	४,०८,९३०	४,०८,९३०	-
परिक्षण और संगोष्ठी शुल्क (प्रशासनिक)	-	-	-	१,०२,६००
अनुसूचित कुल	८,९०,४९०	४३,२१,५३६,००	५२,१२,०२६	५६,३७,९६४

(ए. डी. ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो. लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-१७: मरम्मत और रखरखाव

(₹ में)

विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४
	योजना	गैर योजना	कुल	
इमारतों के अनुरक्षण- मरम्मत	-	२८,६१,७४६	२८,६१,७४६	२१,४५,८८३
कंप्यूटर का अनुरक्षण	-	१,९४,९१४	१,९४,९१४	६,०५,४७८
विद्युत् उपकरणों के रखरखाव	-	१,६६,१९०	१,४६६,१९०	२,२६,१९१
इमारतों और मरम्मत का अनुरक्षण- छात्रावास अनुरक्षण	-	६,६२,१९५	६,६२,१९५	१,७१,८००
उपकरणों के रखरखाव	-	२९,५५३	२९,५५३	-
वाहनों के रखरखाव	-	३,४०,९६८	३,४०,९६८	४,५८,५०६
अन्य - मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	४८,२३४	४८,२३४	७५,४४६
कुल	-	४३,०३,८००	४३,०३,८००	३६,८३,३०४
अनुसूचित कुल	-	४३,०३,८००	४३,०३,८००	३६,८३,३०४

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाइरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-१८: विविध व्यय

(₹ में)

विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४
	योजना	गैर योजना	कुल	
समान अवसर प्रकोष्ठ - योजना	-	-	-	-
आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ विलय - योजना	-	-	-	-
विविध बिजली उपकरण	-	-	-	-
विविध आवर्ती खर्च (सेट)	-	-	-	-
विविध उपकरण	-	-	-	-
अन्य विविध व्यय	५,००,०००	१,०६,७५०	६,०६,७५०	२२,१९,६०९
बागवानी और सौंदर्यीकरण	-	-	-	-
राउंड ऑफ	-	-	-	-
अनुसूचित कुल	५,००,०००	१,०६,७५०	६,०६,७५०	२२,१९,६०९

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



अनुसूची-१९: पूर्व अवधि व्यय

(₹ में)

विवरण	२०१४-१५			२०१३-१४
	योजना	गैर योजना	कुल	
स्थापना व्यय - पूर्व अवधि	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी

३१ मार्च, २०१४ को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते की अनुसूचियाँ

पाछुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज आईजॉल, मिज़ोरम

अनुसूची २०: उल्लेखनीय लेखा नीतियां

1. लेखा तैयार करने के आधार

खातों के मूल्य आम तौर पर ऐतिहासिक समझौते के तहत तैयार कर लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति पर आधारित है जब तक अन्यथा न कहा गया हो।

2. राजस्व मान्यता

- 2.1 छात्रों से शुल्क, प्रवेश फार्मों की बिक्री और बचत बैंक खाते पर ब्याज नकदी आधार पर हिसाब किया गया है।
- 2.2 भूमि भवन और अन्य संपत्ति और निवेश पर ब्याज आय से प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।
- 2.3 घर के निर्माण, वाहन और कंप्यूटर की खरीद के लिए कर्मचारियों को व्याजीय अग्रिम पर ब्याज हर वर्ष प्रोद्भवन आधार पर किया गया है। यद्यपि, ब्याज वसूली की शुरुआत मूल धन के पूर्ण भुगतान के बाद की गयी है।

3. अचल आस्तियाँ और मूल्यहास

- 3.1 अचल आस्तियों को अधिग्रहण कीमत पर दर्शाया गया है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण, स्थापना और कमीशन से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल है।
- 1.2 भेंट दान की संपत्ति का मूल्यांकन जहाँ उपलब्ध है घोषित मूल्य पर किया गया है यदि मूल्य उपलब्ध नहीं है तब उनका मूल्यांकन वर्तमान बाजार मूल्य और संपत्ति की भौतिक स्थिति के आधार का किया गया है। इनकी स्थापना पूँजीगत निधि को केंद्रित करके तथा विश्वविद्यालय की स्थायी सम्पत्ति में जोड़ कर किया गया है। संबंधित संपत्ति पर मूल्यहास लागू दर पर लगाया है।
- 3.3 तोहफे के रूप में प्राप्त किताबों का मूल्यांकन पुस्तकों पर मुद्रित विक्रय मूल्य पर किया गया है। जहां वे मुद्रित नहीं हैं उनका मूल्यांकन निर्धारण पर आधारित है।
- 3.4 अन्य पुस्तकालयी पुस्तकों पर १०% की दर पर मूल्यहास लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं (ई पत्रिकाओं) को, उनके सीमित लाभ के मद्देनज़र, पुस्तकालयी पुस्तकों से अलग कर दिया गया है। हालांकि ई-पत्रिकाएँ मूर्त रूप में नहीं हैं, उनका व्यय कि अत्यधिक मात्रा तथा शैक्षणिक और अनुसंधान स्टाफ द्वारा अर्जित ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त लाभ को ध्यान में रखते हुए पूँजीकृत कर दिया गया है। ई पत्रिकाओं पर उच्च दर ४०% से मूल्यहास लगाया गया है जबकि अन्य पुस्तकालयी पुस्तकों पर १०% की दर पर मूल्यहास किया गया है।
- 3.5 सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर व्यय को कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों से अलग किया गया है, क्योंकि अर्भूत संपत्ति होने के अलावा इन के संबंध में अप्रचलित होने की दर बहुत अधिक है। सॉफ्टवेयर के संबंध में मूल्यहास को ४०% की उच्च दर पर किया गया है, जबकि कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों के संबंध में २०% की दर से मूल्यहास किया गया है।

3.6 अचल आस्तियों का मूल्यांकन लागत मूल्य में से कुल मूल्यहास को कम कर किया गया है। अचल संपत्ति पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है जो कि निम्नलिखित दर पर है :

1.	भूमि	0%
2.	साईट विकास	0%
3.	इमारत भवन	२%
4.	सड़क और पुल	२%
5.	ट्यूब/कुआं और जल आपूर्ति	२%
6.	सीवरेज और ड्रेनेज	२%
7.	विजली के अधिष्ठापन और उपकरण	५%
8.	संयंत्र और मशीन	५%
9.	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला के उपकरण	८%
10.	कार्यालय उपकरण	७.५%
11.	श्रव्य दृश्य उपकरण	७.५%
12.	कंप्यूटर और बाह्य उपकरण	२०%
13.	फर्नीचर, जुड़ना और फिटिंग	७.५%
14.	वाहन	१०%
15.	पुस्तकालयी पुस्तकें व वैज्ञानिक पत्रिकाएं	१०%
16.	ई पत्रिकाएं	४०%
17.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	४०%
18.	अन्य	१०%

1.7 वर्ष के दौरान जुड़े अतिरिक्त सम्पत्तियों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास काटा गया है।

1.8 यदि कोई परिसंपत्ति पूरी तरह से हासिल हो चुकी है तो उनका बैलेंस शीट में एक अवशिष्ट मूल्य रु 1 पर दर्शाया गया है तथा उन्हें पुनः मूल्यहासित नहीं किया गया है।

1.9 निर्धारित धनराशि और प्रायोजित परियोजनाओं के धन से स्थापित संपत्तियों, जहां इस तरह की संपत्ति का स्वामित्व कॉलेज के पास है, की स्थापना पूंजीगत निधि को क्रेडिट करके तथा विश्वविद्यालय की स्थाई सम्पत्ति में जोड़कर किया गया है। संबंधित संपत्ति पर मूल्यहास लागू दर पर लगाया है। प्रायोजित परियोजना निधि से बनाई गई संपत्ति जहां स्वामित्व प्रायोजकों द्वारा प्रतिधरित है लेकिन कॉलेज द्वारा इस्तेमाल किया गया है उन खातों को खातों के नोट्स में संमलन किया गया है।

4. भंडार

रसायन, कांच के बने पदार्थ, प्रकाशन और अन्य सामान की खरीद पर व्यय के हिसाब को राजस्व व्यय के रूप में किया गया है।

5. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति लाभ यानि, पेंशन, ग्रेच्युटी तथा छुट्टी का नकदीकरण का नकदी आधार पर हिसाब किया गया है जिसका मूल्यांकन लंबित वीमांकिक है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, जिन्हें विश्वविद्यालय की सेवा में समाहित कर लिया गया है, के पिछले नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और ग्रेच्युटी के पूंजीकृत मूल्य को संबंधित प्रावधान खातों में जमा कर दिया गया है। मिज़ोरम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, के पेंशन अंशदान को प्राप्त होने पर पेंशन प्रावधान खाते में जमा कर दिया गया है।

सभी भुगतान सीधे विश्वविद्यालय से किया गया है इसलिए विश्वविद्यालय के खाता में कॉलेज और विश्वविद्यालय के प्रावधानों के प्रावधानों को बनाया गया है।

6. निवेश

- 6.1 लंबी अवधि निवेशों का मूल्यांकन लागत मूल्यों पर किया गया है। हालांकि बैलेंस शीट की तारीख में कोई भी मूल्य के स्थायर्ड कमी को प्रदान किया जाता है।
- 6.2 लघु अवधि निवेशों को उनकी लागत या बाजार के मूल्य (जो भी कम हो) के आधार पर किया जाता है।

7. और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सहायता

1. कॉलेज के लिए सरकारी अनुदान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान पहले विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किया जाता है। कॉलेज के लिए बनाये अनुदान आवधिक अंतराल पर विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज में स्थानांतरित किया जाता है।
2. सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान को, पूंजीगत व्यय के हद तक, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है।
3. राजस्व व्यय के मद में प्राप्त सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान को, जिस हद तक प्रयुक्त किया गया हो जिस वर्ष में प्राप्त हुआ है उसी वर्ष की आय की तरह लेखांकित किया गया है।
4. अप्रयुक्त अनुदान (उक्त अनुदान से किए गए अग्रिम भुगतान सहित) को आगे बढ़ाया गया है और बैलेंस शीट में एक दायित्व के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

8. प्रायोजित परियोजनाएं

- 8.1) चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में, प्रायोजकों से प्राप्त राशि को “वर्तमान देयताओं और प्रावधान – वर्तमान देयताओं – अन्य देयताओं – चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के मद में प्राप्तियों” के तहत दर्शाया गया है। जब ऐसे व्यय किए गए हैं ऐसी परियोजनाओं के लिए अग्रिम का भुगतान किया गया है अथवा संबंधित परियोजना खाते को उपरिव्यय से डेबिट किया गया है। परियोजनाओं से बरामद संस्थागत प्रभार कॉलेज के आय के रूप में माना जाता है। परायोजित परियोजनाओं के लघु अवधि निवेश पर अर्जित ब्याज भी कॉलेज की आय के लिए माना गया है। डेबिट शेष, यदि कोई हो, व्यक्तिगत परियोजनाओं के विरुद्ध, उसे वर्तमान संपत्ति, ऋण एवं अग्रिम के तहत दिखाया गया है और अन्य परियोजनाओं में क्रेडिट शेष के तहत नहीं दर्शाया जाता है।
- 8.2) आधारिक संरचना/प्रयोगशाला के विकास के लिए पूंजी व्यय का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा संस्थागत शुल्क को परियोजना समन्वयक को हिस्सा दिया गया है। इन निर्मित आस्तियों को विश्वविद्यालय के फंड से बनाया गया है और इनको प्रमुखता अनुरूप विलय किया गया है। ऐसी संपत्ति पर मूल्यहास सामान्य कोर्स में प्रदान की जाती है।



8.3) परिसंपत्ति जो प्रायोजित परियोजनाओं निधि से है, जो कॉलेज द्वारा स्वामित्व निहित है, उन्हें पूंजी निधि में क्रेडिट के मुख्यता के साथ क्रमानुसार परिसंपत्ति को विलय किया जाता है। मूल्यह्रास सामान्य कोर्स में प्रदान की जाती है।

संपत्तियां जिसे प्रायोजकों द्वारा स्वामित्व रखा गया और कॉलेज द्वारा उपयोग किया गया है उसे अनुसूची २१ आकस्मिक देयताओं और खातों पर टिप्पणियां में अलग से बताया गया है।

9. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा १० (२३C) के तहत विश्वविद्यालय की आय आयकर से मुक्त है। अतः खातों में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ए.ई.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी



पाछुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज आईज़ॉल, मिज़ोरम

अनुसूची २१: आकस्मिक देयताओं और खातों पर टिप्पणियां

1. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

मार्च ३१, २०१५ को ₹ ३३,५८,८१४ करोड़ (लगभग) संविदा राशि (अग्रिम समायोजित) जिनका पूंजीगत खातों में निष्पादन किया जाना है और जो उपलब्ध नहीं कराई गयी हैं। (पिछले वर्ष ₹ १,७२,००,००० /-)

2. अचल संपत्ति

अनुसूची ५ के परिसंपत्तियां में विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग परिसंपत्तियों शामिल नहीं हैं, इन परियोजनाओं में प्रायोजको का अनुबंध शामिल है जहां परिसंपत्तियों में प्रायोजको का स्वामित्व शामिल है। इन परिसंपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है:

मुख्य	संतुलव उद्धाटन	वर्ष के दौरान जोड़ाव	कुल	काल्पनिक मुल्यहास	बुक वैल्यू (₹ मात्र में)
कम्प्यूटर					
विजली इन्स्टालेशन					
फर्नीचर और स्थिरता					
कार्यालय उपकरण					
वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण					
साफ्टवेयर					
कुल					



3. मूल्यह्रास

अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास गत वर्षों में प्रदान नहीं किया गया। नकद लेखांकन का एकूअल लेखा प्रणाली में परिवर्तन के साथ, पहली बार के लिए मूल्यह्रास प्रस्तुत किया गया, पूंजी निधि के लिए डेबिट द्वारा २०१४१५ के खातों में सभी साल के लिए ३१ मार्च २०१४ तक प्रस्तुत किया गया। सभी सालों के मूल्यह्रास की मात्रा निर्धारित करने के लिए वित्तीय वर्ष २००७०८ से व्यवस्थित रूप से लेखांकन नीति दरों के आधार पर गणना की गई है और तदर्थ दरों पर २००६०७ सहित सभी वर्षों कवर करने के लिए। अपनाया तदर्थ दरों निम्नलिखित है:

1. भूमि	: 0%
2. साईट विकास	: 0%
3. इमारत भवन	: १०%
4. सड़क और पुल	: १०%
5. ट्यूब/कुआं और जल आपूर्ति	: १०%
6. सीवरेज और ड्रेनोज	: १०%
7. विजली के अधिष्ठापन और उपकरण	: २५%
8. संयंत्र और मशीन	: २५%
9. वैज्ञानिक और प्रयोगशाला के उपकरण	: ४०%
10. कार्यालय उपकरण	: ३७.५%
11. श्रव्य दृश्य उपकरण	: ३७.५%
12. कंप्यूटर और बाह्य उपकरण	: ५०%
13. फर्नीचर, जुड़ना और फिटिंग	: ३७.५%
14. वाहन	: ५०%
15. पुस्तकालयी पुस्तकें व वैज्ञानिक पत्रिकाएं	: ५०%
16. अन्य	: ५०%

इन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की तारीख उपलब्ध नहीं है इसलिए मूल्यह्रास वर्ष के दौरान परिवर्धन पर पूरे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। वर्ष २०१४१५ के लिए मूल्यह्रास प्रदान किया गया है और आय और व्यय खाता में डेबिट किया गया है।

4. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति लाभ यानि, पेंशन, ग्रेच्युटी तथा छुट्टी का वीमांकिक मूल्यांकन नकदीकरण कॉलेज और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए अलग से प्राप्त किया जाता है, विश्वविद्यालय के खाता में कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए अलग से प्रावधान बनाया गया है, कॉलेज और विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है और विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त गैर योजना अनुदान से दिया जाता है।

5. कर्मचारियों को ब्याज अग्रिम

- कॉलेज के कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण, कारों एवं दो पहिया वाहन और कम्प्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जाता है। समय आने पर इन अग्रिम के ब्याज के कश्तों को कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा कॉलेज को दिया जाता है और विश्वविद्यालय को विप्रेषित कर देता है।
- ब्याज आय अर्जित लेकिन साल के अंत में अग्रिम देय के नहीं भी सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए स्थापित किया गया।



6. वर्तमान आस्तियों, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में वर्तमान ऋण और अग्रिम का मूल्य सामान्य तौर पर बलेंस शीट में दिखाए गए राशि के कम से कम पूर्ण राशि के बराबर है।

1. जहां भी आवश्यक है पिछले वर्ष के आंकड़े पुनःसंगठित किये गये हैं।
2. अंतिम खातों में आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित किया गया है।
3. १ से २१ तक अनुसूचियों, जो कि अंतिम खातों के अभिन्न हिस्से हैं, को ३१ मार्च २०१५ को समाप्त वर्ष के आर्थिक चिट्ठा और आय और व्यय खाते के साथ नथी किया गया है।
4. कॉलेज के कर्मचारियों को भाविष्य निधि और नई पेंशन योजन खाता विश्वविद्यालय के खातों में शामिल किया गया है और इसे विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीय रूप से प्रबंधित किया गया है।

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी

रसीद—भुगतान खाता १ अप्रैल २०१३ से ३१ मार्च, २०१५ तक



पाछुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज
रसीदभुगतान खाता ०१/०४/२०१३ से ३१/०३/२०१५



रसीद	(₹में)	भुगतान	(₹में)
अथ शेष :		स्थापना व्यय (गैर योजना)	८,१२,१५,७०८.००
वेतन गैर/योजना मुख्य खाता	९९९३,५३८.२९	शिक्षण कर्मचारी के वेतन	२,७९,५६,६४०.००
गैर वेतन गैर/योजना मुख्य खाता	१,५५,५८४.००	गैर शिक्षण कर्मचारी के वेतन	२,२१,०५६.००
रूपये हाथ में	९५,६४५.७५	बोनस (गैर योजना)	११,९८,९५९.००
भारतीय स्टेट बैंक (छात्र कोष)	२२,३४५.००	बाल शिक्षा भत्ता गैर योजना	१,१५,४५३.००
अनुसंधान परियोजना खाता	१७,१८,६०९.००	समयोपरि भत्ता	८९,२४१.००
विजेया बैंक (वचत खाता)	४,४१,३४२.००	यात्रा अनुदान व्यय	-
अपेक्स बैंक	१३,७६,१६४.००	प्रोफेशनल टैक्स	७,०१,९५४.००
योजना खाता मिशन वेंग	९,३०,३३७.००	एलटीसी / एचटीसी	
मिज़ोरम ग्रामीण बैंक	७,७२,२५३.००		२५,६८,२४५.००
यूजीसी खाता	४६,७५,२२५.००	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	३,९३,३९८.०
राजस्व बचत खाता- मिशन वेंग	८८,८८,०८०.००	टी.ए. / डीए	४४,३८८.००
राजस्व खाते	१००८१,३७०.००	गैर स्टाफ को मानदेय	५५५.००
		बैंक प्रभार	१,५४,१७५.००
वेतन/गैर योजना		विविध व्यय	३४,६१,२२६.००
एमजेड्यू वेतन / गैर योजना से प्रेषण	११,७२,५२,८४१.००	नियोक्ता का एनपीएस में 50% हिस्सा	
एलआईसी सिलचर	१७,९१६.००		
यात्रा अनुदान	८९०२४१.००	योजना (एमजेड्यू)	२,४८,११४,२६.००
ग्रेच्युटी	४,३७,३२५.००	वेतन, शिक्षण कर्मचारी	७३,३१,९३५.००
योजना (एमजेड्यू)		गैर शिक्षण कर्मचारी के वेतन	३८,२६,२५२.००
वेतन घटक के लिए अनुदान	३,७२,९९,४७०.००	पारिश्रमिक	११,७,२१७.००
बैंक का ब्याज	२,२६,६७६.००	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	३,९३,०५५.००
लाइब्रेरी में किताबें अनुदान	२५,००,०००.००	बाल शिक्षा भत्ता	१,९६,९८२.००
प्रयोगशाला उपकरण	५०,००,०००.००	टी.ए.	२,४१,५२१.००
भूनिर्माण और सौंदर्यीकरण अनुदान	५,००,०००.००	एलटीसी	७२,५३४.००
		बोनस	८,१२,१५,७०८.००
अपेक्स बैंक		प्रोफेशनल टैक्स	-
बैंक ब्याज		बैंक प्रभार	६९०.००
	३८,८६६.००	प्रयोगशाला उपकरण	३,३९,०८२.००
ग्रामिण बैंक		भूनिर्माण और सौंदर्यीकरण अनुदान	५,००,०००.००
सावधि जमा परिपक्व		नियोक्ता का एनपीएस में 50% हिस्सा	२५,४०,३१७.००
सावधि जमा ब्याज	१,२२,०९,४२५.००	महिला छात्रावास	८५,५८,५००.००
यूजीसी से स्थानांतरित	५,४८,१३९.००	लाइब्रेरी पुस्तकें और पत्रिकाएं	१२,०३,९८०.००
बैंक का ब्याज		कंप्यूटर सहायक उपकरण	५,२४,५००.००
	४१,३५९.००	प्रयोगशाला उपकरण	१०,३८,२५०.००




गैर वेतन/गैर योजना		उपकरण	२१,३६,५६३.००
विविध आंतरिक प्राप्ति		अपेक्स बैंक	
एमजेडयू से प्रेषण	४०,०१०.००	लड़कों के छात्रावास का निर्माण	४,१९,२८६.००
	३८,४७,८८६.००	फर्नीचर, स्थिरता और फिटिंग	१,२१,९००.००
राजस्व खाता			
सेमिनार / कार्य अनुदान		ग्रामिण बैंक	
छात्रवृत्ति		एमजेडयू योजना के लिए एफडी परिपक्व स्थानांतरण	
परीक्षा शुल्क	२७,०००.००	प्रयोगशाला उपकरण	४४,०००.००
पत्रिका	३३,८६,०००.००	उपकरण	४८,७२०.००
सेमिनार	४,४४,४००.००	बैंक शुल्क	१००.००
मानदेय	९०,०००.००	स्टार कॉलेज योजना व्यय	५,८१,२१६.००
	१८,०००.००	स्टार कॉलेज स्कीम- अध्ययन यात्रा	२,३८,०८०.००
गैर योजना राजस्व खाता			
प्रवेश शुल्क		गैर वेतन/गैर योजना	
छात्रावास शुल्क	८९,६५,९००.००	बैंक शुल्क	१,३८०.००
विविध आंतरिक प्राप्ति	७,३७,५००.००	आकस्मिकता प्रभार	३,३४,६८०.००
पंजीकरण शुल्क	१,६९,१५१.००	बिजली शुल्क	५२,८९१.००
बैंक का ब्याज	१३,४००.००	वाहन की शुल्क	५,१२,५००.००
लड़कियों छात्रावास शुल्क	३,६३,०६७.००	पेट्रोल, तेल और सनेहक	२,७३,३७७.००
-		मुद्रण और सटेशनरी	२,२२,९६८.००
छात्रों के खाते		समाचार पत्र / पत्रिकाएँ	३८-६०३.००
		टेलीफोन	७९,३१६.००
फंड के लिए दान और अंशदान	७,५७,५००.००	जल प्रभार	१,३७,८७७.००
		वाहन रख-रखाव	१,९३,५४०.००
विजेया बैंक		मरम्मत और रखरखाव	१९,५२०.००
बैंक ब्याज	८०४९४.००	कंप्यूटर रखरखाव	९०,५९४.००
		भवन रखरखाव	१०,६६,४५४.००
यूजीसी खाते		बिजली के अधिष्ठापन	८४,८५२.००
यूजीसी से अनुदान:		प्रयोगशाला उपकरण	१२,२७०.००
आईक्यूएसी अनुदान	३,००,०००.००	शैक्षणिक भवन/कार्यालय के नवीनीकरण	७७,७६४.००
यूजीसी से अनुदान	१५,८४,०००.००	फर्नीचर, स्थिरता और फिटिंग	२,७०,७१६.००
गोल्डन जुबली फंड	२,५०,०००.००	उपकरण	२,२२,९६८.००
स्टार कॉलेज	८,१७,०००.००	बिजली के अधिष्ठापन-एफए	२,१२,९२१.००
लड़कों के छात्रावास का निर्माण	३२,००,०००.००	कंप्यूटर सहायक उपकरण	४८,३८९.००
संगोष्ठी/कार्यशाला अनुदान	५,४०,०००.००	प्रयोगशाला उपकरण	१,४०,६९५.००
बैंक ब्याज	२,९०,९७८.००	समाचार पत्र / पत्रिकाएँ	४६,६९८.००
		राजस्व खाता	
परियोजनाओं के लिए अनुदान:		केंद्र फीस	१,१०,०६५.००
राहुल वर्मा	३५,००,०००.००	आकस्मिकता प्रभार	१८,०००.००
एच.ललथनजारा	२,००,०००.००	परीक्षा शुल्क	२४,९२,५८६.००
ववूल भरली	४,३३,५००.००	पत्रिका	४,३७,०००.००
डॉ. वानरमलियाना	२०,४५,०००.००	छात्रवृत्ति	२७,०००.००
धनहिमडलियाना	२७,५००.००	परीक्षा के लिए पारिशरमिक	५,८३,६८३.००
ललदिनपुया	४,३६,५००.००	संगोष्ठी/कार्यशाला	१,०५,०००.००



डॉ.टी. सदाशिवम	१,६०,०००००	बैंक ब्याज	१५५०००
वाय.रंगीला देवी	२,०४,०००००	भवन रखरखाव	२,५०,०००००
के.विरला सिंह	५,०१,२३५	उपकरण	५१,०००००
डॉ.सी. विक्टोरी देवी	२६५,०००००	फर्नीचर, स्थिरता और फिटिंग	१,२२,५५५०००
सी. ललठियातपुया	२,५५,०००००		
एच.एल. लोमजुआला	२०,०००००	गैर योजना राजस्व ग्राता	
ललपोडुमोहा	२,२७,५००००	शैक्षणिक व्यय	४७,९१५०००
डॉ.ललरमलियाना	२३,९१,०००००	पंजीकरण शुल्क	५२,३२००००
प्रधानाध्यापक	२२,५००००	फील्ड ट्रिप	९,२५,२५००००
आरकेपीजी सिंघा	९०,०००००	स्नातक स्तर व्यय	१,९४,००००००
		पहचान पत्र	१,२१,४४००००
कर्मचारियों के लिए प्राप्तियां कटौती/वसूली:		आंतरिक परीक्षा	२,०९,००००००
कंप्यूटर अग्रिम	२,२५,७२००००	परयोगशाला उपकरण	१६,९३३०००
तयौहार अग्रिम	३,१७,५००,००	गरलस होस्टल का रख-रखाव	३,२२,१९५०००
गृह निर्माण अग्रिम	९,२६,२४६०००	मेरिट अवार्ड	१,६६,४६००००
मोटर साइकिल एडवांस	६,७४,३३६०००	अन्य परीक्षा व्यय	२,४२६०००
अन्य कर्मचारी वसूली	२,३९,३४७०००	पंजीकरण शुल्क	१,१४,१५००००
ऋण की वसूली	७७,४८,०३७०००	टी शर्ट	३,८०,००००००
जीपीएफ	८९,८४,९५००००	बैंक ब्याज	६२००००
जीएसएलआईएस	१,४१,१४४०००	आकस्मिकता प्रभार	५,९०,६३२०००
आयकर	१६,८१,४७६०००	बिजली शुल्क	१,६५,७७६०००
एलआईसी	२४,७२,६८८०००	वाहन की शुल्क	२,००,००००००
विविध	९०,७०००००	अखबारों और पत्रिकाओं	१,२०००००
एमटीडब्ल्यूएफा	९७,७५००००	पेट्रोल, तेल और सनेहक	२,३३,७६५०००
एनपीएफ	१,२०,०८६०००	डाक एवं तार	१५००००
व्यावसायिक कर	४,७२,०२००००	खेल व्यय	४,०८,९३००००
पीयूसीटीए	१०,१०००००	छपाई और स्टेशनरी व्यय	१,५३,४९००००
एसएसएस	९,४५,१०००००	छात्र सहायता कोष	२५,००००००
कल्याण कोष	१०,५२,७०००००	टेलीफोन शुल्क	७७,०९५०००
		जल प्रभार	८५,८३४०००
		भवन रखरखाव	१४,६७,५२८०००
		कंप्यूटर रखरखाव	१,०४,३२००००
		बिजली का इंस्टॉलेशन	८१,३३८०००
		उपकरण रखरखाव	२९,५५३०००
		विद्युत रखरखाव	१,४७,४२८०००
		लड़के के छात्रावास के रखरखाव	३,४०,००००००
		मरम्मत और रखरखाव	२८,७१४०००
		भूनिर्माण और सौदर्यीकरण	१,०६,७५००००
		पानी की आपूर्ति - एफए	३०,४२००००
		उपकरण	२,४९,९७९०००
		फर्नीचर, स्थिरता और फिटिंग	१६,२३,७२६०००
		लाइब्रेरी की पुस्तकें और पत्रिकाएं	३९,७४७०००
		कंप्यूटर सहायक उपकरण	९,०५,६५००००
		इंस्ट्रुमेंटेशन केंद्र की कंस्ट्रक्शन	१४,००,००००००
		वाहन	११,९०,७७५०००



	लड़कों के छात्रावास के कंस्ट्रक्शन	५०,०००००
	अनुसंधान परियोजना खाते :	
	ववूल भरली	३,०३,५००००
	डॉ.सी. विकटोरी देवी	३८,५००००
	डॉ. एच.ललथनजारा	४,७७,४००००
	डॉ. के.विरला सिंह	५,३३,०२७००
	डॉ.ललहुनथरा	५७,५००००
	डॉ.ललरमलियाना	३०,३६,९४३००
	डॉ.राहुल वर्मा	२,७२,२००००
	डॉ.टी. सदाशिवम	६०,०००००
	डॉ.वानरमलियाना	९,७९,३३८००
	एचएल लोमजुआला	१,४५,०००००
	ललदिनपुया	३,९७,९८२००
	ललरिनथरा	४०,०००००
	अन्य (दान)	-
	प्रधानाध्यापक	२०,०००००
	आरकेपीजी सिंघा	१,१९,७५०००
	धनतिमडिलियाना	७५,०००००
	द्यानललथलाना	३९,२५०००
	व्याज पंड	१५५००
	छात्रों के निधि खाते	
	बीट एवं शोलो कॉन्टेस्ट	७८,१७०००
	फ्रेशर्स सोशल	१,२०,०००००
	पदक खरीद	११,२५०००
	एमएसयू फुटबॉल प्रतियोगिता	२४,५०००
	विभागीय दौर	३४,०००००
	सांस्कृतिक विभाग व्यय	२७,९९०००
	एमयू वॉयस	१८,७००००
	कॉलेज वीक	२,५४,५७५००
	झलपान	४९,६६२००
	वशिष बुलेटनि प्रकाशन	५,०००००
	छात्र पुरस्कार	७,१००००
	बैंक शुल्क	१५५००
	विजेय बैंक	
	फर्नीचर, स्थरिता और फटिंगि	१,०१,९४१००
	मछली पालन	८,०००००
	यूजीसी खाते	
	आईक्यूएसी	६,६००००



		उपकरण	९,९०००००
		कम्प्यूटर एवं उपकरण	३६,६५००००
		फर्नीचर, स्थरिता और फटिंग	५२,०५९०००
		प्रयोगशाला उपकरण	५,५०,००००००
		संगोष्ठी/कार्यशाला व्यय	६,९२,३४८०००
		यूजीसी विलय कर योजना व्यय	१,५४,२१३०००
		बैंक प्रभार	३७००००
		कर्मचारियों के लिए प्राप्तियां कटौती/वसूली	
		कम्प्यूटर अग्रमि	२,२५,७२००००
		गृह निर्माण अग्रमि	९,२६,२४६०
		मोटर साइकलि एडवांस	६,७४,३३६०००
		अन्य कर्मचारी वसूली	२,३५,०४७०००
		ऋण की वसूली	७७,४८,०३७०००
		जीपीएफ	८९,८४,९५००००
		जीएसएलआईएस	१६,८१,४७६०००
		आयकर	२४,७२,६८८०००
		एलआईसी	९०,७०००००
		वविधि	९७,७५००००
		एमटीडब्ल्यूएफा	१,२०,०३,०८६०००
		एनपीएस	४,७२,०२००००
		व्यावसायिक कर	१०,१०००००
		पीयूसीटीए	९,४५,१०००००
		एसएसएस	१०,५२,७०००००
		कल्याण कोष	३,१०,००००००
		त्यौहार अग्रमि	१६,८१,४७६०००



		समापन शेष:	
		वेतन गैर योजना मुख्य खाता	६,८९,३६३.२९
		गैर वेतन/गैर योजना	४१९०००
		नकद हाथ में वेतन गैर योजना	९५,६४५.७५
		भारतीय स्टेट बैंक (छात्र कोष)	१,४८,७४३.००
		अनुसंधान परियोजना खाते	१३,१७,१६५.००
		विजेया बैंक (वचत खाते)	३,३९,८९५.००
		अपेक्स बैंक	८,७३,८४४.००
		योजना मिशन वेड भारतीय स्टेट बैंक	४३,६३,५४३.००
		ग्रामिण बैंक	७,१८,४९६.००
		यूजीसी खाते	१,०९,५८,१९७.००
		राजस्व मिशन वेड	६८,६५,३८८.००
		नकद हाथ में राजस्व	९२,५४१.००
		राजस्व खाते	८,६४,७२६.००
कुल	२६,९१,८६,२१२.०४	कुल	२६,९१,८६,२१२.०४

(ए.डी.ललहिमडलियाना)
सहायक कुलसचिव (वित्त)

(जाईरममोईआ पचुआऊ)
उपकुलसचिव (वित्त)

(प्रो.लियानजेला)
वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मिज़ोरम
विश्वविद्यालय, आइज़ॉल के
खातों पर
भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मिज़ोरम विश्वविद्यालय आइज़ोल के

खातों पर

भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

1. मैंने 31 मार्च, 2015 को मिज़ोरम विश्वविद्यालय, आइज़ोल के आर्थिक चिट्ठा तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्त एवं भुगतान का लेखा परीक्षण किया है। उक्त लेखा परीक्षण नियंत्रक और लेखा परीक्षक के कर्तव्य, अधिकार व सेवा शर्त अधिनियम 1971 की धारा 19(2) एवं मिज़ोरम विश्वविद्यालय, अधिनियम 2000 की धारा 31(1) के तहत किया गया। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व मिज़ोरम विश्वविद्यालय प्रबंधन का है। अपने लेखा परीक्षण के आधार पर मेरा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रगट करना है।
2. इस लेखा परीक्षण रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की मिज़ोरम विश्वविद्यालय लेखा प्रथा पर टिप्पणियाँ हैं। विश्वविद्यालय की लेखा प्रथा का वर्गीकरण, लेखा मानकों और मानदंडों के प्रकटीकरण आदि के अनुसार है। उक्त लेखा परीक्षण अवलोकन स्वीकृत विधि, नियम एवं अधिनियमों (औचित्य व नियमितता) और कार्य कुशलता व प्रदर्शन पहलुओं आदि पर आधारित है, यदि कोई अन्य निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा (सी.ए.जी.) लेखा परीक्षा रिपोर्टों द्वारा प्रतिवेदित किया गया हो।
3. हमारा लेखा परीक्षा भारत में आमतौर पर सर्वमान्य लेखा परीक्षण मानदण्डों पर संचालित किया गया है। इन मानकों की शर्त है कि हम योजना और लेखा परीक्षा करने के लिए जिस वित्तीय लेखा अवलोकन कर रहे हैं, वह किसी भारी गलत बयानी से मुक्त है। लेखा परीक्षा में परीक्षण, नमूना आधारित, वित्तीय बयान में प्रकटीकरण का समर्थन प्रपत्र के आधार पर जाँच शामिल है। लेखा परीक्षा में लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमान प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन और साथ ही वित्तीय विवरण के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है।
4. हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर, हम प्रतिवेदन करते हैं कि :
 - क. मैंने सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है, जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक है।
 - ख. इस प्रतिवेदन में सम्मिलित आर्थिक चिट्ठा, आय व्यय खाता एवं प्राप्त भुगतान खाता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित खातों के आधार पर बनाए गए हैं।
 - ग. हमारे विचार से, मिज़ोरम विश्वविद्यालय का आर्थिक चिट्ठा और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्त एवं भुगतान लेखा मिज़ोरम विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 के अनुरूप है।
 - घ. हम यह भी प्रतिवेदन करते हैं कि :



मिज़ोरम विश्वविद्यालय का वित्तीय स्थिति विवरण (बैलेंस शीट)

ए. वित्तीय स्थिति विवरण (बैलेंस शीट)

संपत्तियाँ

ए.1 परिक्रामी निधि से प्राप्त अग्रिम निर्धारित/अक्षय निधि खाते में दर्ज नहीं

अनुसूची: 3 निर्धारित/अक्षय निधि खाता

सी) उद्देश्य धन के प्रति उपयोगिता/व्यय बंदोबसती फंड

विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तिय विवरण की जांच से पता चलता है कि कार्मचारियों को किये गये अग्रिम भुगतान की प्रविष्टियाँ निर्धारित/अक्षय निधि खाते में और लाभार्थियों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान खाते में नहीं दर्शाई गयी हैं। खाते में दर्ज नहीं की गई वस्तुओं के विवरण निम्नलिखित हैं:-

(₹ में)

विवरण	भवन निर्माण अग्रिम	मोटर साइकिल/ स्कूटर अग्रिम	कम्प्यूटर अग्रिम	गोल्डन जुबली चेयर	कुल
(ए) कोष में परिवर्धन					
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	34,79,872.00	5,94,499.00	5,60,350.00		46,34,721.00
(बी) उपयोग/कोष के उद्देश्य के लिए व्यय					
कर्मचारियों को अग्रिम	31,22,157.00	21,30,000.00	8,40,000.00		60,92,157.00
कुल (बी - ए)					14,57,436.00

उपर्युक्त अग्रिमों की अप्रविष्टि के कारण निर्धारित/अक्षय निधि खाता शेष राशि ₹ 14.57 लाख अधिक प्रदर्शित की गई है। साथ ही वर्तमान आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम भी इतना ही अधिक प्रदर्शित किये गये हैं।

ए. 2 अचल संपत्तियाँ

अनुसूची 5 : अचल संपत्तियाँ

1. भूमि

विश्वविद्यालय की अचल संपत्तियों में ₹ 21,94,64,850.00 की राशि की भूमि शामिल है। जिसमें से भूमि अधिग्रहण में दिये गये मुआवजे की कुल राशि ₹ 19,72,00,000.00 है।



मिज़ो जिला भूमि और राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राज्य सरकार के द्वारा (अक्टूबर 2008) विश्वविद्यालय को बताया गया कि जमीन का स्वामित्व गैर-आदिवासी को नहीं दिया जा सकता है, इसलिए विश्वविद्यालय भी जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकता।

तदनुसार, मिज़ोरम सरकार ने 99 साल¹ की अवधि के लिए विश्वविद्यालय को भूमि पट्टे पर दिया और भू-राजस्व/कर² के भुगतान से भी छूट दे दी गई।

यह पाया गया कि इस पर खर्च की गई राशि का भुगतान पट्टे की अवधि में नहीं किया गया।

¹ दिनांक 24.08.1984 से 24.08.2083. भूमि पट्टे के प्रमाण पत्र का क्रमांक-DLL LL-8 of 1984 Memo No. L.11019/1/82-DTE (REV), दिनांक 26.11.2008

² पत्रांक L.11019/DPL/NEHU/89-DTE(REV)/208 दिनांक 14.11.2009



इस प्रकार विश्वविद्यालय की अचल संपत्तियां ₹ 6.17 करोड़ अधिक प्रदर्शित की गईं और पूंजी और देयताओं में समान राशि कम प्रदर्शित की गई।

ए. 3 अचल संपत्तियाँ (भूमि) : ₹ 2,194.85 लाख

बी. भूमि (खेल परिसर) ₹ 222.65 लाख

उपर्युक्त में ₹ 2,22,64,850.00 राशि परियोजना 'खेल परिसर' की संपत्ति भी शामिल है। परियोजना 2009 में शुरू की गई थी और टेकेदार को पहला भुगतान 29 अक्टूबर किया गया। चूंकि परियोजना धन की कमी के कारण अपूर्ण रही इसलिए यह 2011 से निष्क्रिय पड़ी है।

लेखा सिद्धांत के अनुसार जो परियोजना प्रगति पर है उसे कार्य में प्रगति के रूप में मानना चाहिए और तदनुसार प्रविष्टि की जानी चाहिए। मूल्यहास कार्य में प्रगति पर प्रभाव नहीं किया जाता। इसलिए पहले लिये गये ₹ 8.38 लाख के मूल्यहास शुल्क का पुनः समायोजन किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त भूमि ₹ 2.23 करोड़ रुपये अधिक प्रदर्शित की गई है और प्रगति में कार्य समान राशि से कम प्रदर्शित की गई है।

ए. 4 गैर लेखांकन आस्तियां और केन्द्रीय विद्यालय के शेयर : ₹ 33.47 लाख

अचल संपत्तियाँ

अनुसूची 00: वर्तमान संपत्तियाँ

1. वस्तुसूची

लेखांकन सिद्धांत के अनुसार सभी संरचना तथा परिसंपत्तियां (उपभोज्य सहित) विश्वविद्यालय की संपत्ति है। संस्था द्वारा आयोजित एवं उपयोग की गई सभी परिसंपत्तियां और माल विश्वविद्यालय के खाते में लेखाबद्ध किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय विद्यालय, मिज़ोरम विश्वविद्यालय, आईजोल के रिकॉर्ड और सूचना की जांच से पता चलता है कि निम्नलिखित अचल संपत्तियां और माल शत-प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा वित्त पोषण से चल रहा है, जो विश्वविद्यालय के खातों में लेखाबद्ध नहीं किया गया जबकि मुख्य संपत्ति जैसे भवन आदि विश्वविद्यालय द्वारा पूंजीकृत किये गये हैं।

क्रम.सं.	शैक्षणिक व्यय संपत्ति	राशि (₹ में)
1.	पुस्तक और पत्रिकाएं	1,23,971.00
2.	कार्यालय उपकरण	1,61,472.00
3.	कम्प्यूटर एवं उपकरण	11,31,521.00
4.	फर्नीचर	17,28,887.00
5.	खेल	24,090.00
6.	दृश्य श्रव्य	1,41,385.00
7.	प्रयोगशाला उपकरण	2,840.00
8.	न्यूनतम साझा कार्यक्रम	32,843.00
	कुल	33,47,009.00

इस प्रकार, इस बहिष्कार के कारण, विश्वविद्यालय की अचल संपत्तियां ₹ 33.47 लाख कम प्रदर्शित की गई हैं और समान राशि से कॉर्पस फंड भी कम प्रदर्शित किया गया है।

ए. 5 बैलेंस शीट और ब्रॉडशीट के बीच विसंगति

बैलेंस शीट : सामान्य भविष्य निधि

मिज़ोरम विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सामान्य भविष्य निधि के बैलेंस शीट और ब्रॉडशीट का विविध प्रकार से सत्यापन करने पर यह ज्ञात हुआ कि इसके जमा शेष में ₹ 4.24 लाख का अंतर था, जो इस प्रकार है:

मद	बैलेंस शीट के अनुसार	ब्रॉडशीट/ खाता वही के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक शेष	11,58,95,324	11,41,59,460	17,35,864
जोड़ें: वित्तीय वर्ष के दौरान अंशदान	2,52,53,493	2,69,89,371	(-)17,35,878
जोड़ें: सदस्यों के खाते में जमा ब्याज	99,01,905	1,02,07,560	(-)3,05,655
घटाएँ: अग्रिम/भुगतान/स्थानांतरण	-1,96,29,435	-2,00,90,929	(-)4,61,494
जमा शेष	13,16,89,643	13,12,65,462	4,24,181

यह ऊपर से देखा जा सकता है कि जीपीएफ की बैलेंस शीट में प्रारंभिक शेष और जमा शेष क्रमशः ₹ 17.36 लाख और ₹ 4.24 लाख अधिक बताए गए थे। साथ ही वित्तीय वर्ष के दौरान अंशदान, सदस्यों के खाते में जमा ब्याज और अग्रिम/भुगतान/स्थानांतरण भी विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखा में क्रमशः ₹ 17.35 लाख, ₹ 3.06 लाख और ₹ 4.61 लाख कम बताए गए थे।

ए. 6 बैलेंस शीट और ब्रॉडशीट के बीच विसंगति

बैलेंस शीट: नई पेंशन योजना

नई पेंशन योजना की बैलेंस शीट एवं ब्रॉडशीट के विविध प्रकार से सत्यापन करने पर यह ज्ञात हुआ कि उसमें कुछ विसंगति थी, जो इस प्रकार है:

मद	बैलेंस शीट के अनुसार	ब्रॉडशीट/ खाता वही के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक शेष	1,70,22,586	16,61,62,707	(-)14,91,40,121
जोड़ें: वित्तीय वर्ष के दौरान अंशदान	5,55,06,369	2,38,51,347	3,16,55,022
घटाएँ: अग्रिम/भुगतान/स्थानांतरण	-5,40,17,603	-8,43,188	5,31,74,415
जमा शेष	2,00,74,786	21,30,31,041	(-)19,29,56,255

यह ऊपर से देखा जा सकता है कि नई पेंशन योजना की बैलेंस शीट में प्रारंभिक शेष और जमा शेष क्रमशः ₹ 14.91 करोड़ और ₹ 19.30 करोड़ कम बताए गए थे। साथ ही वित्तीय वर्ष के दौरान अंशदान और अग्रिम/भुगतान/स्थानांतरण भी विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखा में क्रमशः ₹ 3.17 करोड़ और ₹ 5.32 करोड़ अधिक बताए गए थे।



पाछुडा यूनिवर्सिटी कॉलेज का वित्तीय स्थिति विवरण (बैलेंस शीट)

ए. 7 अनुसूची 5: 31 मार्च 2015 को अचल संपत्तियां एवं मूल्यहास

बैलेंस शीट और ब्रॉडशीट के बीच विसंगति

ए. मद संख्या 4- कन्या छात्रावास: वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्द्धन: ₹ 3,33,14,150

संपत्ति रजिस्टर और खाता वही की जांच से यह ज्ञात हुआ कि वार्षिक वित्तीय विवरण में ₹ 21,00,000.00 को शामिल नहीं किया गया है।

इस प्रकार, वार्षिक वित्तीय विवरण में ₹ 21 लाख के तीन बिलों की चूक के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्द्धन ₹ 21 लाख कम तथा ठेकेदार को अग्रिम भुगतान अधिक बताया गया।

ए. 8 वित्तीय स्थिति विवरण (बैलेंस शीट)

अनुसूची - 3: निर्धारित / अक्षय निधि

अनुसूची -8: अनुदान / सब्सिडी (अटल अनुदान और सब्सिडी)

यूजीसी ने पाछुडा यूनिवर्सिटी कॉलेज को स्वर्ण जयंती के उत्सव के लिए ₹ 25,00,000.00 का एक सहायक अनुदान प्रदान किया था। ₹ 2,50,000.00 की अंतिम किस्त 19 मार्च 2014 को जारी की गई।

वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि उपर्युक्त ₹ 2.50 लाख की राशि अनुदान /सब्सिडी खाते के वजाय निर्धारित/अक्षय निधि खाते में प्रदर्शित की गई है।

इस प्रकार, खातों में गलत प्रविष्टि के कारण निर्धारित/अक्षय निधि खाते में ₹ 2.50 लाख अधिक तथा अनुदान/ सब्सिडी खाते में इतनी ही राशि कम प्रदर्शित की गई।

ए. 9 प्रायोजित परियोजनाओं से परिसंपत्तियाँ: ₹18.35 लाख

अनुसूची- 8: अचल संपत्तियां एवं मूल्यहास

अनुसूची - 21: आकस्मिक देयताएं और खातों के लिए नोट

2. अचल संपत्तियां

दस्तावेजों और अभिलेखों की समीक्षा और विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि कॉलेज ने प्रायोजित परियोजनाओं के कोष से परिसंपत्तियों का निर्माण किया है, जो अभी तक कॉलेज के खातों में लेखाबद्ध किया जाना बाकी है। ऑडिट गणना के अनुसार प्रायोजित परियोजनाओं के कोष से निर्मित परिसंपत्तियों का कुल मूल्य ₹18,35,350.00 है।

प्रायोजित परियोजनाओं के कोष से निर्मित परिसंपत्तियों का लेखाकरण कुलपति द्वारा करवाया जाना चाहिए तथा इसे उसी अनुसार लेखा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यदि स्वामित्व विश्वविद्यालय को हस्तांतरित नहीं किया गया है, तब इस बात का उल्लेख करते हुए कि ये परिसंपत्तियाँ विश्वविद्यालय की नहीं हैं, इसे अलग अनुसूची में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

बी. आय और व्यय खाते**बी. 1 अतिथि गृह का खाता****वार्षिक वित्तीय विवरण**

मिज़ोरम विश्वविद्यालय के अतिथि गृह की स्थापना 2010 में हुई। अतिथि गृह का प्रबंधन और नियंत्रण अलग बैंक खाते बनाकर उप कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी (संपत्ति) को सौंपा गया है। वर्तमान में, संकल्प और चयन समिति की बैठक (13 फरवरी, 2015) के अनुमोदन से अतिथि गृह जोजोस कैफे एंड रेस्तरां, जारकोट को एक साल की अवधि के लिए आउटसोर्स (मार्च 2015) किया गया है।

अतिथि गृह के रिकॉर्ड और दस्तावेजों (अतिथि गृह के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अभिलेख) की जांच से पता चलता है कि विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय विवरण में अतिथि गृह के लेखा को लेखाबद्ध नहीं किया गया। इस अवधि के दौरान अतिथि गृह से ₹ 4,43,860.00 का व्यय और ₹ 6,92,389.00 का राजस्व प्राप्त हुआ है। अतिथि गृह के खाते में ₹ 9,350.00 रोकड़ शेष है तथा बैंक शेष ₹ 7,92,628.00 है।

इस प्रकार, अतिथि गृह के खाते को शामिल नहीं किए जाने के कारण, विश्वविद्यालय का वार्षिक वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष वित्तीय स्थिति को प्रकट नहीं करता है।

बी. 2 अनुसूची 8 : अनुदान/ सब्सिडी (अटल अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)**पाछुडा यूनिवर्सिटी कॉलेज को अनुदान (योजना)**

अनुसूची 8: अनुदान/ सब्सिडी (अटल अनुदान और प्राप्त सब्सिडी) यह दर्शाता है कि 2014-15 के दौरान योजना मद के तहत मिज़ोरम विश्वविद्यालय द्वारा पाछुडा यूनिवर्सिटी कॉलेज को ₹ 3.76 करोड़ का अनुदान दिया गया है।

हालांकि, कैश बुक की जांच से पता चलता है कि पाछुडा यूनिवर्सिटी कॉलेज को भुगतान किया गया कुल अनुदान ₹ 4.51 करोड़ है जो परिशिष्ट- 1 में दिया गया है। विश्वविद्यालय के वार्षिक खाता में पाछुडा यूनिवर्सिटी कॉलेज के योजना मद के तहत ₹ 75 लाख कम प्रदर्शित किया गया है।

पाछुडा विश्वविद्यालय महाविद्यालय को पुस्तकों और प्रयोगशाला उपकरण के लिए दिया गया ₹ 75 लाख का अनुदान शामिल नहीं किया गया और समान राशि से अनुप्रयोग योजना अनुदान अधिक प्रदर्शित किया गया है तथा ₹ 75 लाख से वर्तमान देयताएं कम प्रदर्शित की गई हैं।

बी. 3 अनुसूची 8: अनुदान/ सब्सिडी**(अटल अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)**

वर्ष के दौरान प्राप्तियां : ₹ 16,64,00,197.00

मिज़ोरम विश्वविद्यालय के वार्षिक खाता (अनुसूची 8) की जांच से पता चलता है कि पाछुडा विश्वविद्यालय महाविद्यालय (पी.यू.सी) को ₹ 15,94,93,798.00 का अनुदान दिया गया :

(₹में)

क्र.सं.	मद	पी.यू.सी को अनुदान (मिज़ोरम वि.वि. अनुसूची 8 वार्षिक खाता 2014-15 के अनुसार)	मिज़ोरम वि.वि. से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी (पी.यू.सी अनुसूची 8 वार्षिक खाता 2014-15 के अनुसार)	अंतर
1.	योजना	3,76,31,874.00	4,52,99,470.00	76,67,596.00
2.	गैर-योजना	12,18,61,924.00	12,11,00,727.00	7,61,197.00
कुल		15,94,93,798.00	16,64,00,197.00	68,06,399.00

अतः उपर्युक्त से पता चलता है कि प्राप्त अनुदान/सब्सिडी में मिज़ोरम विश्वविद्यालय के वार्षिक खाता और पाछुडा विश्वविद्यालय महाविद्यालय के वार्षिक खाता के बीच ₹ 68,06,399.00 का अंतर है।

बी. 4 छात्रों से प्राप्त प्रवेश शुल्क

अनुसूची-9 : शैक्षणिक प्राप्तियाँ

प्रवेश शुल्क: ₹89,65,900.00

पाछुडा यूनिवर्सिटी कॉलेज के वार्षिक लेखा में वर्ष 2014-15 के दौरान छात्रों से प्राप्त प्रवेश शुल्क की राशि ₹89.66 लाख प्रदर्शित की गई है। जबकि, प्रवेश शुल्क की प्राप्ति रसीदों की जाँच के उपरांत यह पाया गया कि कुल प्राप्त प्रवेश शुल्क की राशि ₹1.01 करोड़ है।

इस प्रकार, पाछुडा यूनिवर्सिटी कॉलेज के वार्षिक लेखा की अनुसूची-9 : शैक्षणिक प्राप्तियाँ के अन्तर्गत प्रवेश शुल्क की राशि ₹11.54 लाख (₹1.01 करोड़ और ₹89.66 लाख का अंतर) कम प्रदर्शित की गई है।

सी. प्राप्ति और भुगतान खाते

सी.1 अर्द्धनिर्मित उत्पादन पूंजी (योजना): ₹17,41,18,595.00

विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित अर्द्धनिर्मित उत्पादन पूंजी में ₹35.22 लाख का अन्तर पाया गया, जो निम्नवत् है:

क्र.सं.	मद	ऑडिट माँग जवाब के अनुसार	प्राप्ति और भुगतान खाते के अनुसार	अंतर
1.	भवन निर्माण प्रगति (कैंपस विकास योजना)	15,42,080.00	15,42,080.00	-
2.	भवन निर्माण प्रगति (योजना)	16,74,32,331.00	17,09,54,885.00	35,22,554.00
3.	फेंसिंग निर्माण प्रगति (योजना)	7,40,190.00	7,40,190.00	-
4.	सड़क निर्माण प्रगति (योजना)	8,81,440.00	8,81,440.00	-
कुल		17,05,96,041.00	17,41,18,595.00	35,22,554.00

इस विषंगति के कारण विश्वविद्यालय के प्राप्ति और भुगतान खाते में अर्द्धनिर्मित उत्पादन पूंजी(योजना) के अन्तर्गत ₹ 35.23 लाख अधिक प्रदर्शित किया गया है।

डी. लेखांकन नीतियाँ

डी.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों का गैर अनुपालन

केन्द्रीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों हेतु वित्तीय विवरण का प्रारूप

उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश (17 अप्रैल, 2015) दिया कि सभी संबंधित स्वशासी निकाय एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी केन्द्रीय शिक्षण संस्थान (CELS) और साक्षरता एवं विद्यालय शिक्षा प्रशासनिक नियंत्रण के साथ यू जी सी, ए आई सी टी सी, आई आई टी, एन आई टी, आई आई आई टी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एन वी एस, के वी एस, सी वी एस ई, राज्य विश्वविद्यालय आदि को अनिवार्य कदम उठाने चाहिए ताकि वार्षिक लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुति की नवीन प्रणाली प्रोन्नत लेखांकन प्रारूप के अनुरूप लागू की जा सके और वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखा की तैयारी एवं प्रस्तुती की जा सके।

उपर्युक्त दिशा निर्देश के अनुपालन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उक्त अवधि के वार्षिक लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुति की नवीन प्रणाली को अभी लागू करना शेष है। यद्यपि विश्वविद्यालय के द्वारा जी पी एफ, सी पी एफ एवं नवीन पेंशन प्रणाली से संबंधित कुछ प्रारूप प्रस्तुत किये गये।

ई. सहायक अनुदान

ई.1 अनुसूची 8: अनुदान/ सब्सिडी (अटल अनुदान एवं सब्सिडी की प्राप्ति):

कुल उपलब्ध अनुदान ₹216.36 करोड (योजना : ₹ 161.14 करोड एवं गैर योजना: ₹ 55.22 करोड) में से विश्वविद्यालय द्वारा कुल ₹ 105.06 करोड (योजना: ₹ 57.29 करोड एवं गैर योजना: ₹ 47.77 करोड) जो कुल उपलब्ध अनुदान का केवल 49 प्रतिशत है, का उपयोग किया जा सका और इस प्रकार ₹ 113.30 करोड की राशि (1 अप्रैल 2015 को) शेष है। वर्ष 2014-15 के अनुदान प्राप्तियों एवं उपयोग किये गये अनुदान राशियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड में)

विवरण	योजना		गैर योजना	योग		कुल योग
	जी ओ आई	यू जी सी	यू जी सी	योजना	गैर योजना	
प्रारंभिक शेष	2.71	125	10.16	127.71	10.16	137.87
वर्ष के दौरान प्राप्ति	0.06	28.1	45.06	28.16	45.06	73.22
जोड़े: समायोजन	-	-	-	-	-	-
जोड़े: ब्याज	-	5.27	-	5.27	-	5.27
योग	2.77	158.37	55.22	161.14	55.22	216.36
वर्ष के दौरान खर्च	-	57.29	47.77	57.29	47.77	105.06
जमा शेष	2.77	101.08	7.45	103.85	4.45	113.30



प्रबंधन पत्र

उन कमियों को जिनको लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है उन्हें विश्वविद्यालय के कुलपति की सूचना में उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्यवाई हेतु अलग से जारी किये गये प्रबंधन पत्र के माध्यम से लाया गया।

v. पिछले अनुच्छेदों में अपने पर्यवेक्षण के तहत हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि इस प्रतिवेदन में उल्लिखित आर्थिक चिट्ठा आय व व्यय खाता और प्राप्त व भुगतान खाता एवं खातों की पुस्तकों के अनुरूप है।

vi. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और राय में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखा निर्देशों के साथ एवं उपर्युक्त महत्वपूर्ण विषय तथा संलग्नक में उल्लिखित अन्य मुद्दों पर यह लेखा प्रतिवेदन एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो कि भारत में आम तौर पर स्वीकार किये जाने वाले लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है।

(क) इस आर्थिक चिट्ठा का संबंध 31 मार्च 2015 तक के मिज़ोरम विश्वविद्यालय की आर्थिक दशा से है और

(ख) जहाँ तक आय और व्यय खाता के अधिशेष का संबंध है यह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान : आइजॉल
दिनांक: 24.11.2015

एस.डी.
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
मिज़ोरम, आइजॉल

संलग्नक

1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

अभिलेखों की लेखा परीक्षा की जाँच के उपरांत विश्वविद्यालय के आंतरिक नियंत्रण में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुईं:

- विभागों के साथ-साथ विश्वविद्यालय में उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और आंतरिक जाँच प्रणाली की अनुपस्थिति
- विभिन्न विभागों एवं शाखाओं द्वारा सहायक अभिलेखों के प्रबंधन का अभिलेखों से गैर मिलान
- संपत्तियों के निष्पादन हेतु नियमावली / प्रणाली की अनुपस्थिति

2. भंडार कक्ष/अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

- वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा भंडार कक्ष/अचल संपत्तियों का उचित एवं विस्तृत भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और न ही पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में किये गये ऐसे भौतिक सत्यापनों का उचित प्रतिवेदन ही पाया गया।

3. आंतरिक लेखा परीक्षा की उपयुक्तता:

यद्यपि विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ष 2012 में अनुबंध के आधार पर अपने आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गयी और जिनका अनुबंध की समाप्ति पर पुनर्नवीकरण किया गया, परन्तु जून 2013 से ही आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ कार्य प्रारंभ कर सका। तथापि लेखा परीक्षा दल ने यह पाया कि विश्वविद्यालय के आकार एवं प्रकार को देखते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य प्रणाली में कमी है। यह भी पाया गया कि आज तक आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा अपना कोई भी प्रतिवेदन विश्वविद्यालय प्रशासन को जमा करना शेष है। आगे आंतरिक लेखा परीक्षक को प्रदत्त कार्यों की संभावना को भी असंतोषजनक एवं निम्न स्तरीय पाया गया।

4. वैधानिक दायित्व:

विश्वविद्यालय के द्वारा नवीन पेंशन योजना (NPS) के लिए निर्धारित वैधानिक दायित्वों के तहत प्रभावित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से 31 मार्च 2015 तक का अंशदान वसूल किया गया और उसे नवीन पेंशन योजना को विधिवत प्रेषित

